लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

जन एक्सप्रेस

लखनऊ | वर्षः 14 | अंकः 322 | मूल्यः ₹ 3.00/- | पेज : 12 बुधवार | 06 सितंबर, 2023

दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया: निर्विरोध चुना जाना तय, कहा

शिक्षक दिवस पर पीएम ने उपहार दिया

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

लखनऊ में मंगलवार को पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा, आज शिक्षक दिवस है। यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक के तौर पर मैंने बच्चों को शिक्षा दी। भाजपा ने एक शिक्षक को शिक्षक दिवस पर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने विश्वास जताकर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब मैं उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज संसद में उठाने का काम करूंगा। राज्यसभा की खाली सीट पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। कल जमा कराए जाने वाले नामांकन फॉर्म की जांच होगी। इसके बाद 8 सितंबर तक नाम वापस लेने की समय सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, नामांकन के आखिरी दिन सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिनेश शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे।

ब्राह्मण चेहरे की थी चर्चा, रेस में नहीं थे दिनेश शर्मा

दरअसल, 26 जून 2023 को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य हरद्वार दुबे का निधन हो गया था। इसके बाद राज्यसभा की यह सीट खाली हुई थी। उनका कार्यकाल नवंबर, 2026 तक था। इसके बाद से भाजपा में चर्चा चल रही थी कि इस सीट किसी ब्राह्मण चेहरे को ही उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि, दिनेश शर्मा का लिस्ट में रेस नहीं था। जाने-माने कवि कुमार विश्वास, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव के नाम पर लगातार चर्चा चल रही थी। लेकिन भाजपा ने दिनेश के नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया।

सफल राजनीतिक करियर रहा है दिनेश शर्मा का...

- 1987 में लखनऊ विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया।
- 1991 में प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया।
- 1993 से 1998 तक भारतीय युवा जनता मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहे।
- बीजेपी सरकार बनने पर इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला। साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया।
- भारत सरकार में राष्ट्रीय युवा मोर्चा आयोग के सदस्य भी बने।
- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति व भारत सरकार की युवा नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष रहते हुए भाजपा संगठन में उप्र भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया।
- 2006 में लखनऊ के मेयर चुने गए।
- 2012 में दूसरी बार लखनऊ के मेयर चुने गए। भारी मतों से विजयी होने पर लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज हुआ।
- 16 अगस्त, 2014 को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश का प्रभारी बनाया गया।
- देश के सबसे बड़े राजनीतिक सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी।
- 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की सरकार बनी, तब प्रदेश का उपमुख्यमंत्री चुना गया।
- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी की भी जिम्मेदारी संभाली।
- साथ में एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी मिली।
- औद्योगिक नीति निर्माण के लिए मंत्री समूह के अध्यक्ष रहे।

कौन हैं डॉ. दिनेश शर्मा?

डॉ. दिनेश शर्मा का जन्म 12 जनवरी, 1964 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। उनका ताल्लुक लखनऊ के एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से है। इनके पिता केदार नाथ शर्मा (पाधाजी) आरएसएस और जनसंघ के कार्यकर्ता थे। डॉ. दिनेश शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और फिर बाद में यहीं प्रोफेसर भी रहे। प्रोफेसर कार्यकाल के दौरान उन्होंने 20 से अधिक छात्रों को पीएचडी कराई और 6 किताबें लिखीं।

15 सितंबर को डाले जाएंगे वोट: दरअसल, 26 जून को बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। 15 सितंबर को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे। उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। वहीं, दिनेश शर्मा के राज्यसभा जाने से यूपी में विधान परिषद की एक सीट पर भी जल्द उपचुनाव होगा। हरद्वार दुबे का निधन नवंबर-2026 तक था। क्योंकि, वह अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल जनवरी, 2027 तक है। दिनेश शर्मा योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं। हालांकि, योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली थी।

सीएम योगी ने 94 शिक्षकों को किया सम्मानित

कहा, छात्रों के लिए आदर्श बनें, मॉर्निंग असेंबली को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

वर्तमान पीढ़ी को बनाने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है वो करें। मॉर्निंग असेंबली को नियमित रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। नए सिरे से पीढ़ियों को बनाने का कार्य आप कर रहे हैं। जो पीढ़ियां बनेंगी, वो जीवन भर आपको याद करेंगी। यदि हमारे शिक्षक नहीं होते तो आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे शिक्षकों का योगदान हमारे व्यक्तित्व के निर्माण और चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरणा देता रहा। वे सुविधाभोगी नहीं थे। वो अल्प संसाधनों में, कम वेतन में कार्य करते थे। उन्होंने उस समय जो मेहनत की तब जाकर आज पीढ़ियां बनीं और यही कार्य आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने छात्रों के लिए वंदनीय बन सकते हैं। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 94 शिक्षकों का सम्मान करते हुए कहीं।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का किया जा रहा सम्मान

सीएम योगी ने कहा कि एक शिक्षक की भूमिका के बारे में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्पष्ट कहना था कि वह राष्ट्र निर्माता है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को मान्यता दी है। सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में विशिष्ट स्थान देने का कार्य किया। समय के अनुरूप दोनों पक्ष सामने आते गए। एक पक्ष जो इसका उज्जवल पक्ष था। यह वो पक्ष है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरा कृष्ण पक्ष है, जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठकर के अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उसका कृष्ण पक्ष भी समाज को देखने को मिलता है।

हर विद्यालय में जरूर हो खेल का मैदान

सीएम योगी ने कहा कि 880 आईटीसी लैब्स के साथ ही 18381 उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का भी शुभारंभ हो रहा है। स्मार्ट क्लास केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में भी इसको उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करें। पुरातन छात्रों से, गांव से जुड़े लोगों से, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुडे अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से कह देंगे तो स्मार्ट क्लास की स्थापना में कोई समस्या नहीं होगी। ये स्मार्ट क्लास उन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे बच्चों की सोच को एक नई ऊंचाई और दिशा देगी। चित्रकूट में इस बात को स्वयं महसूस किया। वहां एक स्मार्ट क्लास देखी। एक तीसरी क्लास की बच्ची से पूछा तो उसने संचालित करके दिखा दिया। वह कोल जनजाति की बच्ची थी।

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा

सीएम योगी ने शिक्षकों से कहा कि समाज और राष्ट्र के निर्माता के रूप में आपकी भूमिका को आगे बढ़ाने और वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो फिर समय हम सबको पीछे धकेल देगा। हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समाज को दिशा दें, इस भूमिका के साथ हम सबको स्वयं को तैयार करना होगा। दूरदर्शिता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोरोना कालखंड के दौरान लागू हुई। इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए। प्रसन्नता है कि आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में 2.09 लाख टैबलेट वितरित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। यानी हर विद्यालय को दो-दो टैबलेट मिलेंगे। इनके उपयोग से विद्यालयों में नए-नए कंटेंट के बारे में जानकारी मिलेगी।

शिक्षकों को किया सम्मानित

उत्तर प्रदेश के 75 जिले से चयनित किए गए 94 शिक्षकों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिसमें परिषदीय स्कूलों के 75 शिक्षकों को चयनित किया गया, जिसमें प्रत्येक जिले से एक-एक उत्कृष्ट शिक्षक शामिल है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

शिक्षकों के लिए टैबलेट वितरण का हुआ शुभारंभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। जिसके तहत प्रदेशभर के सभी परिषदीय स्कूलों के 2 लाख 9 हज़ार शिक्षकों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। जिससे कि शिक्षकों को ऑनलाइन सूचनाओं प्राप्त करने के साथ ही रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध हो सकेगा।

18,381 स्मार्ट क्लास व 880 आईसीटी लैब का हुआ उद्घाटन

वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी परिषदीय स्कूल के लिए 18381 स्मार्ट क्लास और 880 आईटी लैब का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उन्हें कंप्यूटर की जानकारी देने के लिए प्रदेश भर के सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास के रूप में तैयार किया गया है इसके तरह बच्चों चीजों को बेहतर तरीके से सीखने और जानने का मौका मिलेगा।

जी-20 सम्मेलन: आठ से 11 तक इंडिया व इंडिगो की दिल्ली की दो फ्लाइटें कैंसिल

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

नई दिल्ली में होने वाली जी-20 की बैठक के चलते एयर इंडिया व इंडिगो की लखनऊ से जाने वाली दो फ्लाइटें 08 से 11 सितंबर तक निरस्त रहेंगी। अमौसी एयरपोर्ट से शाम को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6ई 5072 आठ, नौ, दस व 11 को निरस्त रहेगी। ऐसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट 811 भी इस अवधि में कैंसिल रहेगी। सात तारीख को यह उड़ान कैंसिल रहेगी, जबकि अगले दिन से सुबह रवाना होगी। 11 तारीख तक इसकी टाइमिंग बदली रहेगी।

इसरो ने आदित्य एल1 की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। बेंगलुरु

इसरो ने मंगलवार 5 सितंबर को रात 2.45 बजे आदित्य एल1 स्पेसक्रॉफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई। अब ये पृथ्वी की 282 किमी एक्स 40,225 किमी की कक्षा में पहुंच गया है। यानी उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किमी और सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किमी है। इसरो ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में



बने आईएसटीआरएसी/इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया। अब 10 सितंबर को रात करीब 2.30 बजे तीसरी बार आदित्य एल1 की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए जाएंगे। आदित्य को 2 सितंबर को सुबह 11.50 बजे पीएसएलवी-सी57 के एक्सएल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकेंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 किमी एक्स 19,500 किमी की कक्षा में स्थापित कर दिया था। करीब 4 महीने बाद यह 15 लाख किमी दूर लैगरेंज पॉइंट-1 तक पहुंचेगा।

आतंकी आतिफ और फैसल को एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराया

- टीचर के हाथ में कलावा देखकर हत्या करने वाले आतंकी पर 11 सितंबर को आएगा फैसला

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

कानपुर के रिटायर्ड टीचर के हाथ में बंधे कलावा से हिंदू पहचान देखकर करके हत्या करने के आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन

आईएसआईएस के सदस्य आतिफ़ मुजफ्फर और मोहम्मद फ़ैसल को एटीएस/एनआईए के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाने के लिए 11 सितंबर की तारीख़ तय करते हुए आरोपियों को जेल से तलब किया है। कोर्ट ने एनआईए की जांच में पाया कि यह आतंकी भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा पहुंचाने, काफ़िरों को जान से मारने की जंग छेड़ चुके थे।

अक्टूबर 2016 में टीचर की हुई थी हत्या

कानपुर के चकेरी थाने में 24 अक्तूबर 2016 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया गया था कि वादी के पिता रमेश बाबू शुक्ल स्वामी आत्मा प्रकाश ब्रह्मचारी जूनियर हाई स्कूल में 30 सालों से टीचर है। कहा गया कि 24 अक्तूबर 2016 को वादी के पिता रमेश बाबू स्कूल से वापस आ रहे थे तभी किसी ने उन्हें गोली मार दी। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मौत हो गई।

कानपुर एक्सप्रेस



कानपुर और उन्नाव

की खबरों को पढ़ने के लिए देखें पेज

3और11

जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन को इस Qr-code के माध्यम से सर्च करें

रिपोर्ट | कुलाधिपति ने अपने ओएसडी को मामले की पड़ताल कर विश्वविद्यालय की किताबों की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में किताबों की खरीद में घोटाले पर राज्यपाल सख्त

जन एक्सप्रेस खबर का असर

डॉ. वैभव शर्मा

लखनऊ। शिक्षक दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन जब यह खबर लिखी जा रही है तब बहुत अफसोस हो रहा है। समाज को दिशा देने वाले जिन शिक्षकों को नमन करने का अवसर है, उनमें से कुछ शिक्षक गुरु परंपरा को धूमिल कर रहे हैं। मामला वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में किताबों की खरीद से जुड़ा हुआ है। जन एक्सप्रेस विश्वविद्यालय के तमाम घोटालों में से एक पुस्तक खरीद घोटाले का खुलासा पहले ही कर चुका है। जन एक्सप्रेस की खबर और पुस्तक विक्रेताओं की शिकायत का संज्ञान लेकर राज्यपाल ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति को जांच कराकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजभवन से पत्र आते ही विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है।

- ओएसडी प्रोफेसर पंकज एल जानी ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति को पत्र भेजकर मांगा जवाब
- जन एक्सप्रेस पहले ही कर चुका था खुलासा
- पुस्तक विक्रेताओं ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी के खिलाफ राजभवन से की थी शिकायत

कैसे होगा कल्याण, कुलपति ने दागी 'सेनानायक' को सौंप रखी है नैक समन्वयक की कमान

15 सालों से प्रोफेसर मानस पांडेय पुस्तकालय अध्यक्ष हैं

जानकारी के अनुसार पिछले 15 सालों से प्रोफेसर मानस पांडेय पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। यह वही प्रोफेसर मानस पांडेय हैं जिनकी खुद की डिग्री फर्जी होने के आरोप हैं। इसके लिए इन्हें राजभवन से नोटिस भी जारी हो चुका है। यही नहीं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्तर पर नैक मूल्यांकन समिति के समन्वयक भी यही हैं। पिछले 7, 8 और 9 अगस्त को विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने आई नैक समिति ने विश्वविद्यालय को ग्रेड ही नहीं दिया है। अब एक बार फिर से मूल्यांकन होगा। जबकि अच्छी नैक ग्रेडिंग लेने के लिए रंगाई पुताई पर पानी की तरह पैसा बहाया गया था। जन एक्सप्रेस ने इसका खुलासा भी किया था।





पुस्तकालय अध्यक्ष को मिलता है मोटा कमीशन

विश्वविद्यालय के लिए हर वर्ष मोटी रकम की किताबें खरीदी जाती हैं। इस खरीद में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप है। सूत्रों के अनुसार करोड़ों की खरीद में मोटा कमीशन पुस्तकालय अध्यक्ष को भी जाता है। एक औसत के अनुसार हर साल लगभग 3 करोड़ मूल्य की किताबें पूर्वांचल विश्वविद्यालय में खरीदी जाती हैं।

विशेष कार्याधिकारी ने किया जवाब तलब

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में किताबों की खरीद में घोटाले और धांधली की शिकायत राजभवन में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलाधिपति (राज्यपाल) ने अपने ओएसडी प्रोफेसर पंकज एल जानी को निर्देश दिए कि वह मामले की पड़ताल कराकर पारदर्शिता स्थापित कराएं। इस पर प्रोफेसर जानी ने कुलपति से मामले की जांच कराकर जवाब मांगा है।

क्या है पुस्तक विक्रेताओं का दर्द

वाराणसी बुक सेलर्स वेलफेयर सोसाइटी ने राज्यपाल को भेजे अपनी शिकायती पत्र में बताया कि विक्रेताओं के पंजीकरण में ही प्रोफेसर मानस पांडेय मनमानी कर रहे हैं। मनमानी के तहत एक मानक यह रखा है कि पिछले 3 साल में एक आर्डर कम से कम 80 लख रुपए का हो। पुस्तक विक्रेताओं का तर्क है शायद ही कोई भी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान इतनी कीमत का कोई एक ऑर्डर देता हो, ऐसी स्थिति में पुस्तक विक्रेता कैसे कोई आर्डर दिखा सकेंगे। दूसरा मानक बना दिया कि पिछले 3 वर्ष का टर्नओवर 3 करोड़ होना चाहिए। संगठन का तर्क था कि उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा पुस्तक विक्रेता हो जिसका टर्नओवर 3 करोड़ हो। तीसरा मानक बनाया 10 लाख की जमानत राशि का, जबकि विश्वविद्यालय ने अपना बजट नहीं बताया। पुस्तक विक्रेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय ना तो गुड ऑफिस कमेटी और ना ही जनरल फाइनेंस रूल का पालन कर रहा है। इसलिए उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर पारदर्शिता लाने की मांग की थी। इस पर राज्यपाल के ओएसडी ने पत्र भेज कर कुलपति से जवाब मांगा है।

घोटालों के 'विश्वविद्यालय' की रंगाई पुताई से हो रही लीपापोती

ग्रामोदय विवि के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कुलपति ने किया कार्यों की समीक्षा

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

रजत जयंती भवन स्थित बोर्ड रूम में कुलपति प्रो भरत मिश्रा की अध्यक्षता में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर कुलपति प्रो भरत मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत कार्य विवरण की समीक्षा करते हुए भविष्य की कार्य योजना के लिए मार्गदर्शक निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रमों, दूरवर्ती पाठ्यक्रमो और सीएमसीएलडीपी पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणामों की अद्यतन स्थिति की जानकारी के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते कहा कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय शीघ्रता के साथ परीक्षा के बाद तत्काल परिणाम घोषित करने की दिशा में सदैव अग्रणी भूमिका अदा करता रहा है। उन्होंने नए प्रवेश की अद्यतन स्थिति को जाना और कहा कि प्रवेश के लिए संपर्क करने वाले अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रमों की विशेषताओं से भी अवगत कराया जाय।

एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 14 सितंबर और दूरवर्ती शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तक प्रवेश योजना को भी कुलपति प्रो भरत मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों से विस्तार से जाना। इस दौरान वार्षिक प्रतिवेदन, गोद ग्राम योजना, छात्र उन्मुखीकरण कार्यक्रम, नैक प्रक्रिया आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर कुलसचिव नीरजा नामदेव, संकायो के अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, प्रभारी एवं अनुभाग अधिकारी आदि मौजूद रहे।

ग्राहक सेवा केन्द्र में लूट से क्षेत्र में दहशत

जन एक्सप्रेस। रामकोला, कुशीनगर

थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज चौराहे पर संचालित एक बैंक आफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र/सहज जनसेवा केंद्र से अज्ञात अपाची सवार बदमासो ने असलहा दिखा कर दो लाख तीस हजार रुपये लूट कर फरार हो गए, घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल पहुच कर लूट की घटना की जानकारी ली।

मंगलवार को रामकोला थाना क्षेत्र के रामकोला कसानगंज रोड पर स्थित बैंक ऑफ़ बरोदा का ग्राहक सेवा केंद्र/सहज जनसेवा केंद्र के संचालक ग्राम धोधरही निवासी अनिल कुमार यादव नित्य की भांति अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्राहक सेवा केंद्र खोले, दोपहर लगभग 12.30 पर एक सफेद आपची से आए तीन व्यक्ति आए दो अंदर में प्रवेश किए एक हेलमेट और दो मास्क लगाए थे जिससे चेहरा पहिचान में नही आ रहा था। उन लोगो ने पैसा निकालने की बात कहे तो संचालक ने कहा की हेलमेट निकालिए इतने में अज्ञात बदमाशों ने संचालक अनिल कुमार यादव पर असलहा तान कर गल्ले से पैसा निकालो तो संचालक ने अपने दराज से पैसा निकल कर दिए जिसको लेकर फरार हो गए। उसके बाद ग्राहक सेवा केन्द्र संचालन ने मुकामी पुलिस को दिनदहाड़े लूट की घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुचे थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी उसके बाद मौके पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल पहुच कर घटना की जानकारी ली। कसान के साथ थाना प्रभारी रामकोला, स्वा टीम प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला आलोक यादव उप निरीक्षक अजीत कुमार यादव मौजूद रहे।

अवैध शराब के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 5 आरोपियों के कब्जे से 32 लीटर कच्ची व 38 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

सरधुवा थाना के उप निरीक्षक सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा भोलाराम पुत्र भोंदू प्रसाद निवासी तीरधुमाऊ सुर्की को 12 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण एवं 40 किलो लहन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद लहन को मौके पर नष्ट किया गया। इसी प्रकार सरधुवा थाने के उप निरीक्षक राजेश राय तथा उनकी टीम द्वारा अश्विनी पुत्र मोतीलाल निवासी अरछा बरेठी को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। सरधुवा थाने के उप निरीक्षक दिनेश कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा कामता निषाद पुत्र स्व विजय बहादुर निवासी अरछा बरेठी को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पहाडी थाने के उप निरीक्षक रविकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा पकुई पत्नी चुनकू निवासी सकरौली को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। रैपुरा थाने के उप निरीक्षक सिद्धनाथ राय तथा उनकी टीम द्वारा धनराज सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह निवासी उड़की को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध सम्बन्धित थानों में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

जिलाधिकारी ने किया ऑडिटोरियम और आजीविका भवन का निरीक्षण

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द तथा मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने मंगलवार को ऑडिटोरियम एवं विकास भवन में निर्मित आजीविका भवन का औचक निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी ने ऑडिटोरियम में फॉल सीलिंग, विद्युत वायरिंग, सेंसर, वीआईपी रूम, ग्रीन रूम, स्टोन, पेंटिंग का कार्य, प्रायलिंग, फ्रेमिंग आदि विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों में प्रगति न होने पर परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सम्बन्धित ठेकेदार के खिलाफ जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में माह सितंबर में शेष कार्य को पूर्ण कराकर हैंडोवर करने की प्रक्रिया की जाए। उन्होंने परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम को निर्देश दिए कि पेंटिंग कार्य तेजी से कराएं एवं जो मिट्टी की भराई करना है उसको तत्काल कराया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन में निर्मित आजीविका भवन का निरीक्षण किया। जिसमें फ्लोरिंग, ट्रेस का कार्य, ग्लेजिंग, बिग वर्क, वाटर सप्लाई, स्टोन ग्राईडिंग आदि के कार्यों को देखा। उन्होंने कहा कि भवन का कार्य तेजी से कराया जाए। मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि विकास भवन में जिस तरफ से बाउंड्री वाल नहीं है, वहां पर तार फेंसिंग की व्यवस्था कराएं। परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम को निर्देश दिए कि जो आजीविका भवन से विकास भवन की तरफ सड़क बनाई जा रही है, उसको तत्काल पूर्ण कराई जाए।

इस मौके पर जिला विकास अधिकारी आरके त्रिपाठी, परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम रामफल, सहायक अभियंता डीआरडीए महेश कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।

पुलिस ने जन सुनवाई पोर्टल में हासिल किया प्रथम स्थान

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए रिपोर्ट की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है। माह अगस्त में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों एवं उनके गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा में जनपद पुलिस को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रथम स्थान प्रदान किया गया।

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी आईजीआरएस, क्षेत्राधिकारी नगर हर्ष पाण्डेय एवं आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार यादव द्वारा माह अगस्त में मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी, जनसेवा, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस में जनपद पुलिस द्वारा सभी संदर्भों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।

आईजीआरएस शाखा में नियुक्त आरक्षी मानवेन्द्र सिंह एवं महिला आरक्षी अनीशा बानो, महिला आरक्षी मीरा यादव तथा जनपद के समस्त थानों, क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में आईजीआरएस पोर्टल का कार्य देख रहे पुलिस कर्मियों ने सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग की एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जिस कारण से जनपद को जनसुनवाई के मामलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में जनपद चित्रकूट के सभी 12 थानों को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।

राष्ट्र निर्माता, समाज निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शिक्षक : डीएम

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति महान शिक्षाविद् एवं दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जा रहे जनपद के शिक्षक दिवस की क्रम में मंगलवार को मानिकपुर विधायक अविनाश चंद द्विवेदी, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, जिला मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, जिला कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि शक्ति सिंह की उपस्थिति में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर की सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर अशोक कुमार, सर्वजीत सिंह, रविंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार तिवारी, राकेश कुमार गुप्ता, आशीष कुमार चैरसिया, अरुण कुमार रजक सहित 30 शिक्षक, अनुदेशक व शिक्षामित्र को शिक्षक सम्मान समारोह में साल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मानिकपुर विधायक अविनाश चंद द्विवेदी ने कहा कि जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी का है। उन्होंने कहा कि जनपद में सभी स्कूल अच्छे हैं। सभी स्कूलों में टायल लगे हुए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि कभी-कभी समय से अध्यापक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 10-15 मिनट की छूट दें। उन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर मानिकपुर व मऊ विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में फर्नीचर के लिए अपने विधायक निधि से 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने शिक्षकों से कहा कि आप लोग जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनके लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का कार्य बच्चों को शिक्षा देना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं, उसी पैटर्न पर आप लोग बच्चों को शिक्षा दें।

नगर पालिका अध्यक्ष ने नगरीय समाधान दिवस में सुनी जन समस्याएं

जन एक्सप्रेस/चित्रकूट। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी में मंगलवार को नगरीय समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें फरियादियों ने अपनी समस्याएं बताई। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता और अधिशासी अधिकारी ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें विद्युत विभाग की पहुंची हैं। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने विद्युत विभाग के एसडीओ को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की भी शिकायतें पहुंची। नगर पालिका अध्यक्ष ने सम्बन्धित विभाग को सभी प्रार्थना पत्रों पर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करके समस्या का निराकरण के निर्देश दिए।

केबल में फाल्ट से बीएसएनएल के 60 हजार उपभोक्ता परेशान

जन एक्सप्रेस। कुशीनगर

भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल और ब्रॉडबैंड व फाइबर केबल में फाल्ट या अन्य कारणों से हर दिन संचार सेवा ध्वस्त हो जा रही है। सोमवार को भी शाम पांच बजे के बाद से ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा ध्वस्त हो गई। जिले के करीब 60 हजार बीएसएनएल उपभोक्ता परेशान रहे। भारत संचार निगम के लोग बिजली समस्या बताकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। रात को करीब नौ बजे बीएसएनएल की संचार सेवा बहाल हो पाई। बीएसएनएल की दिन प्रतिदिन बिगड़ती व्यवस्था के चलते उपभोक्ताओं का इससे लगाव कम होता जा रहा है। मोबाइलधारक हों या ब्रॉडबैंड अथवा फाइबर कनेक्शन लेकर इंटरनेट चलाने वाले उपभोक्ता, हर कोई इसे लेकर परेशान है। खासकर जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है, तब से परेशानी और बढ़ गई है। इधर, एक सप्ताह से हर दिन इंटरनेट खराब हो जा रही है। कभी शार्टसर्किट की वजह से तो कभी केबल कटने या अन्य कारणों से।

निगम के मुताबिक, देवरिया से कुशीनगर आने वाली बीएसएनएल की ओएफसी केबिल में तरकुलवा में फाल्ट हो गया था। इसकी वजह से शाम पांच बजे से पूरे जिले में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा ध्वस्त हो गई। इससे करीब 60 हजार मोबाइलधारक और ब्रॉडबैंड व फाइबर कनेक्शन के लगभग 400 उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा। उनका कामकाज प्रभावित रहा।

पडरौना शहर में इंटरनेट से संबंधित काम करने वाले सेराज ने बताया कि बीएसएनएल का कनेक्शन है। सोमवार का दिन होने के कारण तहसील में भीड़ ज्यादा थी। ग्राहक काम लेकर आए थे, लेकिन शाम होते ही इंटरनेट फेल हो गया। एक घंटा तक ग्राहक दुकान में बैठकर इंतजार करते रहे। अंत में निराश होकर चले गए। काफी नुकसान हुआ। कसया रोड पर कंप्यूटर का व्यवसाय करने वाले ऋषभ जायसवाल का कहना था कि अपनी दुकान में इंटरनेट से संबंधित काम भी करते हैं। हर दिन शाम होते ही इंटरनेट खराब हो जा रहा है। इससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। मन करता है कि अब दूसरा कनेक्शन ले ही लें। एक निजी कंपनी में काम करने वाले पडरौना निवासी धीरज पाठक ने बताया कि वह वर्क फ्राम होम रहकर काम करते हैं। इन दिनों शाम के समय ड्यूटी रहती है, लेकिन एक सप्ताह से इंटरनेट खराब रहने के चलते परेशान रहते हैं। इसी तरह कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, प्रणव कुमार, विनोद कुशवाहा, मनोज जायसवाल सहित कई लोगों ने बताया कि बीएसएनएल की खराब सेवा से ऊब चुके हैं।

एसडीओ बोले

देवरिया के तरकुलवा में ओएफसी केबिल में फाल्ट की वजह से पूरे कुशीनगर जिले में बीएसएनएल शाम से ही फेल रहा। इसके पहले एक सप्ताह से एक्सचेंज में पावर सप्लाई में दिक्कत आने के कारण इंटरनेट सेवा प्रभावित हो रही थी। उसे ठीक करा दिया गया है। जनपद में बीएसएनएल के 60 हजार उपभोक्ता हैं। इसके अलावा लगभग 400 ब्रॉडबैंड एवं फाइबर कनेक्शन धारक हैं।

-वीपी सिंह, एसडीओ, बीएसएनएल, पडरौना

वकीलों ने मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक का जलाया पुतला

जन एक्सप्रेस। फतेहपुर

बार काउन्सिल के निर्देश पर प्रदेश व्यापी कलम बन्द हड़ताल मे अधिवक्ताओ ने हापुड़ जनपद में शांतिपूर्वक धरना दे रहे अधिवक्ताओं पर किए गये लाठी-चार्ज के मामले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जहॉ जिलाधिकारी को पॉच सूत्री ज्ञापन दिया। वही खागा तहसील के मॉडल बार एसोशियेसन ने मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाये। बताते चले कि पिछले दिनो हापुड जनपद मे धरना दे रहे अधिवक्ताओ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिससे नाराज अधिवक्ताओ ने प्रदेश व्यापी तीन दिन की कलम बन्द हड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम मे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वर्मा व सचिव बचानी लाल की अगुवाई में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम से मुलाकात करके उन्हें सीएम को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिसमें हापुड़ कांड पर निंदा करते हुए मांग किया कि हापुड़ के डीएम-एसपी का अविलंब स्थानांतरण किया जाय। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के विरूद्ध मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर जो मुकदमें दर्ज किए गये है उन्हें वापस किया जाय। वही खागा तहसील के मॉडल बार एसोशियेसन ने विरोध प्रर्दशन करते हुये प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक का पुतला जलाया और पुलिस व प्रशासन का मुर्दाबाद का नारा लगाया। इस मौके पर बार अध्यक्ष जयनरायन सिंह, महामंत्री भेपाल सिंह सहित इसराईल फारुकी, अरविन्द पाण्डेय, श्यामकुमार गुप्त, राजेश द्विवेदी, केशचन्द मिश्र, रामसखा द्विवेदी आदि सैकडो की तादात मे अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

नही रुक रहा बाजारों में पॉलीथीन का प्रयोग

जन एक्सप्रेस/फतेहपुर। पर्यावरण मे बढ रहे प्रदूषण के मद्देनजर पॉलीथीन पर रोक लगाकर दण्डनीय श्रेणी मे रखा गया है। शासन व प्रशासन के तमाम आदेशो-निर्देशो को धता बताकर बाजारो मे पोलीथीन का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है। खाद्य सामग्री सहित अन्य सामग्री के बिक्री पोलीथीन के बैगो मे बेचा जा रहा है। बताते चलें कि पर्यावरण मे बढते प्रदूशण से मानसून सहित आम जनो के स्वास्थ को प्रभावित कर रहा है और पोलीथीन का प्रयोग प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्रधानमंत्री सफाई अभियान के चलते शासन ने बाजारो को पालीथलीन मुक्त करने का आदेश पारित किया है।

6वें राष्ट्रीय पोषण माह की सम्बन्धित विभागों को जिम्मेदारी देने का निर्देश

जन एक्सप्रेस। फतेहपुर

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तीस सितंबर तक चलने वाले 6 वें राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी श्रुति की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य, पंचायती राज, शिक्षा, खाद्य एवं रसद, कृषि, उद्यान, आयुष, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्राम्य विकास विभाग से आपस में समन्वय बनाते हुए टीम भावना के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वाहन करें।

डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि संबंधित विभागों के कार्यों के लक्ष्य आवंटित कर दें। जिससे राष्ट्रीय पोषण माह को धरातल पर उतारकर अभियान को सफल बनाया जाय। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप राष्ट्रीय पोषण मिशन् की मुख्य थीम प्रभावित स्तनपान व सम्मपूरक आहार, स्वास्थ्य बालक स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन लाइफ ले माध्यम से पोषण में सुधार, मेरी माटी मेरा देश, जनजातीय केंद्रित पोषण अभिमुखीकरण, एनीमिया स्तर में सुधार हेतु परीक्षण उपचार एवं संवाद सभी को धरातल पर उतारा जाय। जिससे पोषण की मुख्य थीम बच्चो के पोषण स्तर में सुधार लाना और गर्भवती और धात्री महिलाओ के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्री घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के कम वजन सहित सैम व गम्भीर अल्प वजन बच्चों को सेवाओं से अच्छादित कर सकें। ग्राम स्तर पर पोषण रैली, जल संरक्षण गतिविधियां करायी जाय। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा कराए गए कार्यों को पोर्टल पर अवश्य फीड कराये।

स्कूल में बच्चों द्वारा पोषण विषय पर प्रश्नोत्तरी, प्रभात फेरी, पोषण वाटिका, पोषण मेला का अयोजन, निबंध प्रतियोगिता, फल सब्जियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करायी जाये। जिससे बच्चो को सही पोषण के बारे में जानकारी हो सके। पोषण से संबंधित सुधार के लिए ग्राम स्तर तक इसका वृहद प्रचार-प्रसार किया जाय। जिससे पोषण माह के अंतर्गत काम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली धात्री महिलाओ, किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर को सुधारा जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अशोक कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी साहब सिंह यादव, जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी उपेन्द्र राज सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी, सीडीपीओ सहित संबंधित उपस्थित रहे।

शिक्षकों ने धरना देकर दिया सीएम को सम्बोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन

जन एक्सप्रेस। फतेहपुर

पुरानी पेंशन दिये जाने सहित अन्य 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रांगण में धरना दिया। तत्पश्चात् सीएम को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों को पूरा किए जाने की मांग किया।

प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह व जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी की अगुवाई में शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर धरना देते हुए अपनी आवाज बुलंद किया। शिक्षक नेताओं ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक पुरानी पेंशन की बहाली, राज्य कर्मचारियों की भांति उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिकर अवकाश, अध्ययन अवकाश, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति-तैनाती, माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भांति चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान सहित 18 सूत्रीय मांगे उठाई जा रही हैं। कई बार इन मांगों को लेकर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया गया लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे शिक्षक समुदाय अत्यंत क्षुब्ध है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों का निराकरण न किया गया तो वह सभी शिक्षा निदेशालय निशातगंज लखनऊ में धरना-प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जायेंगे। धरने के पश्चात् सीएम को संबोधित मांगों का ज्ञापन बीएसए को सौंपकर सभी मांगों को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवाज उठाई। इस मौके पर धीरेंद्र सिंह, बलराम सिंह, जितेंद्र वर्मा, अनुराग मिश्र, अखिलेश तिवारी, शैलेंद्र भदौरिया, योगेंद्र सिंह, अनिल वर्मा, शिव प्रकाश गौतम भी मौजूद रहे।

कानपुर नगर एक्सप्रेस

www.janexpresslive.com/epaper | हिंदी दैनिक, जन एक्सप्रेस | लखनऊ | बुधवार | 06 सितंबर 2023

मौसम पूर्वानुमान

पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के आसार हैं दिनाँक 07-10 सितम्बर, 2023 के मध्य तेज हवाओं एवं मेघ गर्जना के साथ स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश की कोई संभावना है।

अधिकतम (डिग्री0से0) : 34.0 (+1.2)
न्यूनतम तापमान (डिग्री0से0) : 25.6 (+0.8)
सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम : 71 प्रतिशत
सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम : 62 प्रतिशत
हवा की औसत गति : 8.6 कि0मी0/घंटा
हवा की दिशा- उत्तर-पूरब
वर्षा (मि0मी0) : 0.0

- कृषि मौसम वैज्ञानिक

फास्ट फॉरवर्ड

डिलीवरी के दौरान जच्चा की मौत, बच्चा सुरक्षित

जन एक्सप्रेस/कानपुर नगर। थाना क्षेत्र कल्यानपुर में डिलीवरी के दौरान जच्चा की मौत हो गई। जबकि बच्चा सुरक्षित है। परिजनों ने ससुरालीजनों पर अच्छा इलाज ना कराने का आरोप लगाकर हंगामा काटा है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के बारा सिरोही सब्जी मंडी निवासी शिवम की शादी तीन साल पहले सराय मसवानपुर की रहने वाली रमा बाथम से हुई थी। रमा के भाई अनिल का आरोप है कि उसकी बहन गर्भवती थी। बीती 4 सितंबर को उसकी बहन की हालत खराब हो गई थी। ससुरालीजन उसे कल्यानपुर सीएचसी ले गए। यहां डिलीवरी के दौरान उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई तो डाक्टरों ने उसे हैलट रिफर कर दिया। जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष का आरोप है कि शिवम ने इलाज कराने में लापरवाही की है। उसे अच्छा इलाज ना मिलने के कारण उसकी मौत हो गई है।

शिक्षक समारोह का आयोजन,अध्यापकों को किया सम्मानित

जन एक्सप्रेस/कानपुर नगर। शिक्षक दिवस के अवसर पर मंगलवार को सेठ मोतीलाल खेड़िया एस.डी.इंटर कॉलेज नवाबगंज में शिक्षक समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें 65 शिक्षण संस्थानों के उत्कृष्ट योगदान देने वाले अध्यापकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटेरियन क्लब के अध्यक्ष रो.अनुज तिवारी, संचालन रो. रोहित अग्रवाल एवं रो.अभिषेक श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं जिला ट्रेनर दिनेश चंद्र शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में असिस्टेंट गवर्नर पवन शहजाद पुरी एवं अतिथि के रूप में कॉलेज की प्रिंसिपल सुमन चंदोला मौजूद रही। कार्यक्रम में क्लब के वरिष्ठ सदस्य अजय शंकर दीक्षित, निशांत वडेरा, आर.के.गुप्ता, मनोज अग्रवाल, अजय वीर सिंह, संदीप अरोड़ा, कृष्ण मोहन त्रिवेदी, विष्णु डालमिया, क्षितिज अग्रवाल, नीतिका तिवारी, गौरव मिश्रा आदि मौजूद रहे।

जिला कारागार में हुई कैदी की मौत

जन एक्सप्रेस/कानपुर नगर। जिला कारागार में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।कारागार से कैदी को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया।आरोप है कि जेल के सिपाही उसको अस्पताल में लावारिश छोड़कर चले गए।सुचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे।जंहा पर शव को देखकर उनका बुरा हाल हो गया। मृतक की बहन मधु पाण्डे ने बताया कि मृतक पप्पू का वारंट था, जिसपर उसको जेल भेज दिया गया था।उसको देखने जेल गए थे।लेकिन उसकी बाड़ी देखने को नहीं मिली।परिजनों ने आरोप लगाया है की जेल के अंदर उससे पैसो की मांग की गयी थी।जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसको जेल के अंदर मारा पीटा गया।जिससे उसकी मौत हो गई।जिसके बाद जेल से उसकी डेडबॉडी अस्पताल में छोड़कर भाग गए है।

मृतक बाबू के निधन के बाद भी पुत्र उठा रहा पेंशन

जन एक्सप्रेस/कानपुर नगर। शहर के गोविंद नगर क्षेत्र में रहने वाले स्व अशोक चतुर्वेदी की मृत्यु 21 जून 2013 के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में बाबू के पद पर रहते हुए हुई थी। मृत्यु के पश्चात पत्नी लक्ष्मी देवी को विभाग के द्वारा पेंशन दी जाने लगी किंतु 25 नवंबर 2022 को लक्ष्मी देवी की भी मृत्यु हो जाने के बाद भी पुत्र के द्वारा निरंतर विभाग के द्वारा आ रही पेंशन को लिया जा रहा है। क्षेत्र के ही व्यक्ति ने बताया कि मृतक का पेंशन पासबुक नं है जिसमें पेंशन अभी तक जारी है। सूत्रों के मुताबिक आवंटित कॉलोनी को भी पुत्र विनीत के द्वारा कब्जा किया गया है तथा पूर्व में भी शस्त्र लिपिक विनीत तिवारी पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने में दोषी पाया गया था जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। क्षेत्र के ही निवासी ने बताया कि मृतक बाबू का पुत्र विनीत के द्वारा विभाग के द्वारा दी जारी पेंशन को ऑनलाइन के माध्यम से निकालकर खर्च किया जा रहा है जिससे सरासर विभाग को चूना लग रहा है।

शटरिंग का काम करते मजदूर की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

बीते दिन शहर में मंगलवार को शटरिंग का काम करते वक्त एक मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। इस घटना का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसे हाई टेंशन लाइन में चिपक कर मजदूर तड़प रहा है और कैसे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई है और आकर के नीचे गिर गया है। इस घटना ने कहीं ना कहीं जिम्मेदार विभागों केडीए ,नगर निगम, पुलिस विभाग और केस्को की लापरवाही को सामने लाकर के रख दिया है। मंगलवार को थाना कल्याणपुर क्षेत्र स्थित कल्याणपुर के पनकी रोड के डीसीएफ भट्टे की सोसाइटी में अवधेश गुप्ता के निर्माणाधीन मकान में बिठूर के प्रतापपुर में रहने वाला 35 वर्षीय मजदूर इरफान शटरिंग का काम करने गया हुआ था। सुबह 10 बजे के क़रीब अपने ठेकेदार के कहने पर इरफान छत पर लोहे की चादर लेकर गया था इसी दौरान पास से ही गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और धूं धूं करके जलने लगा। इरफान का शरीर तब तक जलता रहा जब तक उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग नहीं हो गई। इस घटना का लाइव वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कल्याणपुर का फोर्स पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। इरफान की मौत की जानकारी होते ही मृतक की मां हबीनन, पत्नी राजीदा, दो बच्चे इलियास व एहसान मौके पर पहुंच गये। निर्माण कार्य करा रहे अवधेश गुप्ता के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा हंगामा करना शुरू कर दिया। वही पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बूझकर शांत कराया । पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पत्नी ने भवन मालिक के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मृतक की तहरीर के आधार पर कार्यवाही करते हुए मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

क्या केडीए ,केस्को,नगर निगम और पुलिस नहीं हैं जिम्मेदार?

हम अक्सर देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने घर में निर्माण शुरू करता है अथवा अपने घर के सामने बोरिंग करवाता है या नाली बनवाता है उतने में ही क्षेत्रीय पुलिस से लेकर नगर निगम के जिम्मेदार केस्को के जिम्मेदार और केडीए के जिम्मेदार भी आ धमकते हैं। जिस मकान में इरफान की मौत हुई है क्या यहां पर इन जिम्मेदारों को नजर नहीं आया कि मकान बनाने वाला व्यक्ति कितना आगे बढ़कर के छज्जा बना रहा है। केडीए के ज़िम्मेदार कहां सो रहे थे वह पुलिस वाले कहां सो रहे थे जो छत पड़ने से पहले आ जाते हैं वह नगर निगम के जिम्मेदार कहां सो रहे थे जो यह कहते हुए आ जाते हैं कि फुटपाथ पर कब्जा हो रहा है और वह केस्को के जिम्मेदार कहां पर सो रहे थे जो यह कहते हैं कि यह तो हमारी लाइन के नीचे से मकान बन रहा है। अगर इनमें से कोई भी जिम्मेदार आ गया होता तो शायद आज इरफान जिंदा होता ऐसे पता नहीं कितने निर्माणधीन मकान है जो हाई टेंशन लाइनों के नीचे बन रहे हैं लेकिन वहां पर कोई जिम्मेदार उसे रोकने के लिए नहीं आ रहा है।

जे. सी. आई. कानपुर इंडस्ट्रियल के पदाधिकारियों ने विधानसभा का भ्रमण किया

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

जे.सी. आई. कानपुर इंडस्ट्रियल के पदाधिकारी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधान सभा गए। वहां उन्होने विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना के सानिध्य में विधान सभा की कार्यप्रणाली एवं उसकी व्यवस्था को देखा तथा समझा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जे.सी. वीक के चेयरमैन भावुक गोयल, अंकिता गोयल, प्रोजेक्ट चेयरमैन मेहुल अग्रवाल, विधि अग्रवाल, गोल्डी मसाले के निदेशक एवं जे.सी. आई. कानपुर इंडस्ट्रियल के सलाहकार आकाश गोयनका, आंचल गोयनका, सलाहकार धीरज भाटिया, चारु भाटिया, अध्यक्ष सिद्धार्थ गुप्ता, सचिव नेहा गर्ग, चेयर पर्सन श्रुति अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी नितीश शुक्ला, संयोजक मुस्कान जैन एवम जे. सी. आई. कानपुर इंडस्ट्रियल के सदस्य उपस्थित रहे।

गोष्ठी में किसानों को प्रसार निदेशालय की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय में मंगलवार को कुलपति डॉ.आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में चन्द्र शेखर कृषक समिति का 39 वां स्थापना दिवस एवं कृषक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर निदेशक प्रसार डॉ.आर.के.यादव ने किसानों को प्रसार निदेशालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।गोष्ठी में अधिष्ठाता, कृषि संकाय डॉ.सी.एल.मौर्य, निदेशक शोध डॉ.पी.के.सिंह, निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र डॉ.विजय कुमार यादव, डॉ.पी.के.राठी, डॉ.अनिल कुमार सिंह, सोहनलाल वर्मा ने कृषकों को खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी दी। इस अवसर पर 21 वैज्ञानिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 200 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग किया।

रेलवे बोर्ड के सलाहकार को भाजपा नेताओं ने सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

बीते दिन शहर में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जिला निकाय प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक जय सिंह की अगुवाई में पनकी के बी ब्लॉक स्थित भाजपा नेता ललित उपाध्याय के निवास पर रेलवे बोर्ड के सलाहकार विजय मिश्रा का स्वागत करने के बाद उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि कोरोना काल के पहले कुछ ट्रेनों का ठहराओ पनकी स्टेशन पर किया गया था। परन्तु कोरोना काल के बाद अब तक गाड़ियों का ठहराओ बंद है। जिससे क्षेत्र की जनता काफी परेशान हैं। एक गाड़ी मेमो जो की सुबह 6 बजे लखनऊ के लिए पनकी धाम रेलवे स्टेशन से बनकर चलती थी वो भी उसी समय से बंद है। पनकी धाम रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग कानपुर सेन्ट्रल की दूरी लगभग 13 किलो मीटर है जिससे क्षेत्र की जनता ट्रेन पकड़ने के लिए कानपुर सेन्ट्रल जाना पड़ता है। जिससे काफी व्यय करना पड़ता है। कहा कि पूर्व में जो सवारी गाड़ियां पनकी धाम रेलवे स्टेशन पर रुकती थी। उन्हें पुनः ठहराओ के लिए अनुमत प्रदान की जाय जिससे क्षेत्र की जनता इसका फायदा उठा सके। ज्ञापन देने में जय सिंह सूर्यवंशी, ललित उपाध्याय, राकेश वर्मा सुरेंद्र मिश्रा, शिल्पी सोनकर, करुणा सिंह, सुधाकर गुप्ता, अनिल कुमार, अतुल बाजपेई आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रदर्शन के बाद जागा निदेशालय, शुरू की मांगों पर कार्रवाई

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय पर प्रदर्शन सफल रहा। निदेशालय ने मांगो पर कार्यवाही शुरू कर दी है। राशन कार्ड के आभाव में फिलहाल दिव्यांगजन की पेंशन नही रूकेगी। लेकिन सभी को राशन कार्ड बनवाना अनिवार्य हो गया है। दुसरे लोगों के अन्त्योदय कार्ड निरस्त होने पर दिव्यांगजनो के राशन कार्ड बनाये जायेगे। दुकान संचालन व निर्माण योजना कि धनराशी बढाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बेरा जांच कि सुविधा सभी जिलों में उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ विभाग को पत्र भेजा गया है। नौकरियों में आरक्षण कोटा पुरा करने के लिए विभागों को पत्र भेजा जायेगा। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अनुपालन का कडाई से अनुपालन करवाने का आस्वाशन मिला है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनो कि समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था जिसके कारण राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को धरना प्रदर्शन का निर्णय लेना पडा था। अब ब उम्मीद है कि समस्याओं का समाधान होगा।

बिकरू काण्ड के 23 आरोपियों को गैंगस्टर कोर्ट ने माना दोषी, सजा के साथ जुर्माना

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

2 जुलाई 2020 की रात को शायद ही कोई अपने जहन से उतर पाया होगा क्योंकि इसी तारीख को थाना चौबेपुर क्षेत्र स्थित बिकरु गांव में विकास दुबे और उसके गैंग के सदस्यों ने 8 पुलिस वालों को की निर्संस हत्या कर दी थी। इस मामले में विकास दुबे समेत कई आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। बिकरु कांड मामले में कानपुर देहात की गैंगस्टर कोर्ट ने बीते दिन सात आरोपियों प्रशान्त डब्बू ,गुड्डन त्रिवेदी , राजेन्द्र मिश्रा,संजू दुबे, बाल गोविंद , रामेश दुबे, सुशील तिवारी, को दोष मुक्त करने के बाद 23 आरोपियों जय बाजपेई समेत बिकरू गांव का हीरू दुबे, श्यामू बाजपेई, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, बबलू मुसलमान, रामू बाजपेयी, शशिकांत पांडेय, शिवम दुबे, गोविंद सैनी, उमाकांत, शिवम दुबे उर्फ दलाल, शिव तिवारी, जिलेदार, राम सिंह यादव, धीरेंद्र कुमार, मनीष, सुरेश, गोपाल, वीर सिंह, राहुल पाल, अखिलेश उर्फ श्यामजी, छोटू शुक्ला को 10 वर्ष की सजा के साथ 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कानपुर में वकीलों ने फूंका मुख्य सचिव–डीजीपी का पुतला जमकर की नारेबाजी

जन एक्सप्रेस । विनीत सिन्हा

हापुड़ लाठीचार्ज मामले में पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग

कानपुर नगर। हापुड़ में हुई घटना को लेकर वकीलों में रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर के कचहरी में मंगलवार दूसरे दिन भी अधिवक्ता हड़ताल पर रहे और विरोध प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी, महामंत्री आदित्य कुमार सिंह के साथ-साथ निवर्तमान अध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन नरेश चंद्र त्रिपाठी और लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रविन्द्र शर्मा की अगुवाई में मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला दहन किया गया। अधिवक्ताओं ने पुलिस-प्रशासन मुर्दाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पहले पुतले को पूरे कचहरी परिसर में घुमाया शव यात्रा निकाल कर अधिवक्ताओं ने राम-राम सत्य है, मुख्य सचिव और डीजीपी मस्त हैं, बोलते हुए घूमे उसके बाद पुतले में आग लगा दी। इस दौरान मांग कि हापुड़ के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण किया जाए। जिन दोषी पुलिस कर्मियों ने बर्बरता पूर्वकलाठी चार्ज किया है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्व को चेयरमैन अंकज मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिये अधिवक्ता संरक्षण कानून पारित कर प्रदेश में लागू किया जाए। हापुड़ के घायल अधिवक्ताओं को तुरंत मुआवजा दिया जाए।

डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयन्ती मनाई

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

देश के पूर्व राष्ट्रपति भारतरत्न डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयन्ती के पावन अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय से सम्बद्ध अशोक लाइब्रेरी के प्रांगण मे आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुये डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन के वैभवशाली कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विभिन्न वक्ताओ ने प्रकाश डालते हुये उनके चित्र पर माल्यार्पण के पष्चात उन्हे श्रद्धासुमन समर्पित किये। संगोष्ठी को प्रमुख रुप से शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर दत्त मिश्र, तिलक मेमोरियल सोसाइटी के सचिव प्रदीप द्विवेदी, पुस्तकालय अधीक्षिका वंदना द्विवेदी, राधेश्याम कश्यप, राजेन्द्र बाल्मीकी, सचित सिंह, सौरभ कुमार, मो0 असरफ, फरीन अहमद, मीनू कुमारी, कोमल, मोनिका सिंह, अभिषेक यादव, आदित्य मिश्रा, अभिजीत गुप्ता, सिजरा नसरीन, दिव्यांशु सिंह विशेष रुप से उपस्थित थे।

बिल्हौर व ककवन खंड शिक्षा क्षेत्र में महिला शिक्षकों को पुरस्कार मिला पुरुषों का खाता तक नहीं खुला

जन एक्सप्रेस । हरिनाथ सिंह

बिल्हौर। बिल्हौर तहसील क्षेत्र के शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर ज़िला अधिकारी विशाल जी अय्यर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार, एम एल सी अरुण पाठक, मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार, बिल्हौर खंड शिक्षा अधिकारी रवि प्रताप सिंह, ककवन खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश गुप्ता आदि अधिकारियों ने विद्यालय में शिक्षकों द्वारा किए गए मानक के अनुरूप उत्कृठ कार्य के लिए पुरस्कृत किया। बिल्हौर ब्लॉक के अंतर्गत नीलम कनौजिया, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर, कल्पना कटियार, प्रधानाध्यापक और आशा कटियार, सहायक अध्यापक, कम्पोजिट विद्यालय गोहलियापुर, रेखा भन्तू, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय परसाद निवादा, वसुंधरा वर्धन, प्रधानाध्यापक, कम्पोजिट विद्यालय, वरंडा। ककवन ब्लॉक के अंतर्गत श्रीमती अंसुलता, गढ़ेवा, श्रीमती शालिनी त्रिपाठी, लोधन पुरवा, श्रीमती हेमलता,निबौरी। रसूलपुर प्राथमिक विद्यालय की नीलम कनौजिया को एक और पुरस्कार रोटरी क्लब की तरफ से मिला है। वहीं पर शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि पक्षपात किया गया है बिल्हौर ब्लॉक में 113 प्राथमिक विद्यालय हैं। 29 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। 34 कंपोजिट विद्यालय हैं। ककवन में 14 कंपोजिट विद्यालय हैं, 28 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 62 प्राथमिक विद्यालय है फिलहाल अध्यापकों में रोष और ग्रुपों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन अब फैसला जो होना था हो गया और पुरस्कार जिसको मिलना था वह मिल गया है अपना मनमसोस कर शिक्षक रह गए हैं अधिकारियों ने बताया कि मानक जो रखे गए थे उनमें कई राउंड में तो अध्यापक हैं इसके बाद में आखिरी चक्र में अध्यापक एक भी नहीं रहा और अध्यापिकाओं ने बाजी मार ली शिक्षकों को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है अगले वर्ष फिर इसी तरह पुरस्कार दिए जाएंगे उनकी तैयारी अभी से शुरू कर दें जो कमियां हैं उनको सुधार करें।

ग्राम अदालतें करेंगी चकबंदी विवादों का निस्तारण

चिन्हित गांवों के सार्वजनिक स्थल पर उपस्थित होंगे अधिकारी व कर्मचारी

जन एक्सप्रेस। अमेठी

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी केलकर सिंह ने बताया कि चकबन्दी न्यायालयों में विचाराधीन वादों के त्वरित निस्तारण हेतु वादकारियों के हित में आपत्ति,अपील, निगरानी को सुनवाई हेतु चिन्हित कर ग्राम अदालतों का आयोजन कर अभियान स्तर पर वादों के निस्तारण हेतु ग्राम अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि गांव में सहायक चकबन्दी अधिकारी से लेकर उप संचालक चकबन्दी स्तर तक जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत तय किये जाने वाले सभी वादों की सूची तैयार करते हुए उनसे सम्बन्धित सभी पक्षकारों को अग्रिम सूचना चकबन्दी विभाग के मैसेन्जर वादों के समय पक्षकारों द्वारा दिये गये मो.नं. पर एसएमएस के माध्यम दी जायेगी। तथा गांव में एक साथ सभी प्राधिकारी किसी सार्वजनिक स्थल पर ग्राम अदालत का आयोजन करेंगे।वादों का निस्तारण यथा संभव पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते से कराया जाय। यदि किसी वाद में साक्ष्य देने की स्थिति हो,उन साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए वाद के पक्षकारों को इसकी भी पूर्व सूचना दी जायेगी। ग्राम अदालत में जो आदेश पारित होगा,उनका तत्काल अनुपालन अभिलेख एवं स्थल पर भी कराया जाएगा। वादकारियों के हित के दृष्टिगत चिन्हित ग्रामों में क्रमशः 06 सितम्बर को तहसील गौरीगंज के ग्राम मऊ में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के 04, चकबन्दी अधिकारी के 70, सहायक चकबन्दी अधिकारी के 98 एवं 14 सितम्बर को तहसील अमेठी के ग्राम भागीपुर में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के 05 चकबन्दी अधिकारी के 12, सहायक चकबन्दी अधिकारी के 18 विचाराधीन वाद एवं 20 सितम्बर को तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम काजीपुर में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के 06, चकबन्दी अधिकारी के 30, सहायक चकबन्दी अधिकारी के 45 तथा 27 सितम्बर को तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम कोयलारा मुबारकपुर में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के 08, चकबन्दी अधिकारी के 42, सहायक चकबन्दी अधिकारी के 38 वाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि सम्बन्धित चकबन्दी न्यायालय में विचाराधीन वादों आपत्ति, अपील, निगरानी के त्वरित निस्तारण हेतु ग्राम अदालत के निर्धारित स्थान पंचायत भवन में उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दीकर्ता, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।

विद्यालय प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस

जन एक्सप्रेस/सुल्तानपुर। गाजी लर्नर्स सेकेंडरी स्कूल (जी एल ए) में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के बच्चों ने विद्यालय के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सब का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा नाटक, गायन व टीचर की नकल कर आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम संबोधित करते हुए वरिष्ठ शिक्षक आर के प्रजापति ने शिक्षक दिवस की महत्वता बताते हुए कहा कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में याद में मनाते हैं, और आज ही के दिन प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। विद्यालय के प्रधानाचार्य कनीज फातिमा ने बताया कि शिक्षक का बच्चों के जीवन में कितना महत्व है। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो माता-पिता के बाद बच्चों की उन्नति के लिए सदेव कार्य करता है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उपहार भेंट देकर सम्मानित किया।

उत्पीड़न के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस। सुलतानपुर

मजदूरों के सबसे बड़े मजदूर संगठन ने अपनी सभी यूनिटों के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश संगठन के निर्देश पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संगठन के 14 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन सौंपा। जिसमे मुख्य रूप से संविदा/आउटसोर्सिंग/निविदा कर्मचारियो के हो रहे मानसिक, आर्थिक शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध आज प्रदर्शन करते हुए सड़को पर अपनी ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। आज उ0प्र0 के सभी जिलों में आरएसएस के मुख्य संगठन ने मजदूरों की बीजेपी सरकार व उसके अधिकारियों द्वारा शोषण से तंग आकर व अपने अस्तित्व को बचाने के लिये संघर्ष का रास्ता चुन लिया है जिसमे बहुत दिन बाद अब संगठन ने पत्रकारों/श्रमजीवी पत्रकारों पर सरकार की उपेक्षा व सुरक्षा पर ही सवाल उठाते हुए उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा, बीमा व पेंसन की मांग भी उठाई है। तो वही सरकार की महिला सशक्तिकरण की खोखली दलीलों को खारिज करते हुए संघठित क्षेत्रो में काम करने वाली आधी आबादी महिलाओं को विश्व के सबसे कम मानदेय पर आठ-आठ घण्टे बेगारी लेने पर व कई बार आश्वासन के बावजूद भी न तो आंगनबाड़ियों को न ही आशाबहुओ को बीते 9 वर्षो में नियमित किया गया न ही अपने ही बनाये कानून समान कार्य का समान वेतन या न्यूनतम वेतन 18000 ही घोषित किया। यहाँ तक कि आयुष्मान बीमा ही दिया, हैरत की बात है कि स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ कहे जाने वाले 108 102 एम्बुलेंस कर्मियों के 10हजार कर्मियों को ठेका कम्पनी जीवीके ने बर्खास्त कर स्वास्थ्य सेवा की सरकारी पोल तक खोल दी फिर भी सर्वशक्तिमान योगी कुछ नही कर पाए ये सभी सरकार के सहयोगी संघठन भारतीय मजदूर संघ से जुड़े है फिर भी आपात सेवा कर्मी डर डर की ठोकरे कहा रहे है जिसका नतीजा है अब सरकार के संघठन ही सड़को पर उतर चुके है आगाह कर रहे है। ज्ञापन सौंपने वालो में जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, मंत्री दीपक मिश्रा विभाग प्रमुख लक्ष्मी नारायण मौर्या, आशा संघ अध्यक्ष किरण शुक्ल मंत्री गूंजा सिंह, अर्चना ,सुमन यादव, मीरा सिंह, संजीता, आगनबाड़ी अध्यक्ष रेखा मौर्या, राष्ट्रीय मंत्री चित्रासिंह, मंत्री कंचन सिंह, अनीतादेवी, प्रमिला, नीलम सिंह, संगीता, ई-रिक्सा अध्यक्ष विजय कश्यप, घनस्याम, कृष्णकुमार, जीवनदायनी संघ, राम नरेश मिश्रा, विभांशु, बबलू श्रीवास्तव, फल विक्रेता संघ मदन सोनकर, डब्लू सोनकर आदि मौजूद रहे।

शहीदाने कर्बला के 72 ताबूत की ज़्यारत 9 को

जन एक्सप्रेस/सुलतानपुर। शहर से चंद कदम दूर लखनऊ वाराणसी राज्यमार्ग स्थित अमहट कस्बे में दुनियां का इकलौता बहत्तर ताबूत नस्ब किया जाता है। जिसमें हज़. इमाम हुसैन अलै.के 72 जांनिसारों का नाम और उनकी शहादत का ज़िक्र होता है। 72 ताबूत की तैयारी से संबधित जानकारी देते हुए हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इमरान खान साहब ने बताया कि शहीदाने कर्बला के मैदान में हज़.मोहम्मद साहब सल.के नवासे हज़.इमाम हुसैन को जब यजीद मलऊन ने कर्बला के मैदान में शहीद किया था, उस वख्त उनके साथ 72 बहत्तर जांनिसारों को भी शहीद कर दिया गया था, मौ.इमरान साहब ने बताया कि 9 सितंबर को शाम से रात तक शब्बेदारी होगी। जिसमें मुल्क की मशहूर अंजुमनें शिरकत करेगी, 10सितंबर को सुबह जुलूस बरामद होगा। नौ सितंबर को शाम से ही 72 ताबूत की ज्यारत कराई जाएगी, उन्होनें बताया कि अंजुमन जीनतुल अज़ा रजि. अमहट के मेंम्बरान दो दिनों तक वॉलियंटर की भूमिका में रहते है, मुकामी व बाहर से आने वाले मोमनीनों के लिए खाने-पीने का इंतेजाम किया जाता है।

78 दिव्यांग बच्चों ने किया कैंप में प्रतिभाग विशेषज्ञ द्वारा बच्चों का किया गया परीक्षण

जन एक्सप्रेस। सुल्तानपुर

बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी के निर्देश के क्रम में दिव्यांग बच्चों के लिए कैंप का आयोजन मंगलवार को बीआरसी बल्दीराय में किया गया। जिसमें कुड़वार, धनपतगंज, व बल्दीराय कई ब्लॉकों से परिषदीय विद्यालय में अध्यनरत दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया।

आपको बताते चले की बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला समन्वयक समेकित शिक्षा श्याम सुन्दर यादव के नेतृत्व में एलिमको कानपुर की टीम के सहयोग से 47 ऑर्थोपेडिक 8 दृष्टबाधित और 28 मूकबधिर कुल लगभग दिव्यांग बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। टीम के राजेश कुमार, अशोक कुमार और आदर्श के सहयोग से 58 दिव्यांग बच्चों को 93 उपकरण हेतु चिन्हांकन किया गया। इस मौके पर विशेष शिक्षक सुभाष यादव, अखंड प्रताप सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह, सूर्य प्रकाश तिवारी, सरजू प्रसाद पाठक, कृष्ण मोहन चौबे, विवेक पांडे, संतोष यादव, अशोक, राकेश, देवेन्द्र एवं बीआरसी का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

डीएम ने मिड-डे-मील में बने भोजन को चख कर परखी गुणवत्ता

जन एक्सप्रेस/सुल्तानपुर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मंगलवार को प्राथमिक विद्यालय सुदनापुर, विकास खण्ड कूरेभार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पंजिका, क्लास रूम, पठन-पाठन, साफ-सफाई, फर्नीचर, रसोई आदि का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रसोई घर की साफ-सफाई, मिड-डे-मील इत्यादि का अवलोकन किया। उन्होंने मिड-डे-मील में मेन्यू के हिसाब से बने भोजन-दाल चावल को स्वयं चख कर उसकी गुणवत्ता को परखा तथा पेयजल की साफ-सफाई आदि का अवलोकन किया, जो सही पायी गयी। उन्होंने बिना यूनीफार्म में आये बच्चों से यूनीफार्म न बनवाने के विषय में चर्चा की। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित शिक्षकों को बच्चों के अभिभावक से वार्ता कर यूनीफार्म बनवाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक दिन खाना मानक मेन्यू के अनुसार ही बनाया जाय।

हापुड़ की घटना को लेकर बार एसोसिएशन ने फूंका पुतला

जन एक्सप्रेस। बल्दीराय/सुलतानपुर

हापुड़ कांड को लेकर बल्दीराय तहसील बार एसोसिएशन के आवाहन पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। अध्यक्ष मनोज सिंह और महामंत्री धुर्वराज पाडे के नेतृत्व में तहसील के समस्त अधिवक्ता तहसील परिसर पहुंचे और युपी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह के नेतृत्व में व्यापक धरना प्रदर्शन किया गया। सभी अधिवक्ताओं ने बल्दीराय तहसील से नहर चैराहा थाना मोड बल्दीराय रामलीला मैदान होते हुए तहसील परिसर में आकर प्रदर्शन को समाप्त किया और परिसर में ही प्रमुख सचिव के प्रतिमात्मक पुतले का दहन किया। बार एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हापुड़ के स्थानांतरण और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यूपी में लागू किए जाने की आवाज उठाई। इस अवसर पर अधिवक्ता राधेश्याम श्रीवास्तव, अनिल यादव, बद्री शुक्ला, श्रीकान्त, धर्मेन्द्र सिह, राम सुमिरन, द्वारिका यादव, अजय दुबे, अनफाल अहमद, प्रदीप पांडे, अफजल खान, अखिलेश पाठक, आनंद तिवारी, पवन दुबे, विकास मिश्रा, सर्वोदय सिंह कृपा शंकर पाठक, अविनाश तिवारी समेत बड़ी संख्या में तहसील के अधिवक्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पोर्टल प्रारम्भ, करें आवेदन

जन एक्सप्रेस। रायबरेली

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। सामूहिक विवाह कराने के लिए आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2.00 लाख तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा की दशा में समक्ष स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु न्यायालयी आदेश की छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक को अपना आवेदन विभागीय वेबसाइट smsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सभी संलग्नकों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली के कार्यालय में जमा करना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।

शिक्षक दिवस पर शिक्षक की बच्चियों ने बचाई जान

जन एक्सप्रेस। सुलतानपुर

शिक्षक ने अवैध शुल्क लेने से किया मना तब प्रधानाचार्य और कथित उपप्रधानाचार्य ने कमरे में बंद कर की मारपीट। वाकया श्री रामदेव पांडेय इंटर कालेज सरैया, सुल्तानपुर का है प्रधानाचार्य रघुनाथ द्विवेदी, देवेंद्र मिश्रा के साथ प्रधानाचार्य के कक्ष में बैठे थे। सहायक अध्यापक सतीश मिश्रा को अपने कक्ष में बुला कर अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए दबाव बनाया। सतीश मिश्रा ने जब अतिरिक्त शुल्क लेने से मना किया प्रधानाचार्य रघुनाथ द्विवेदी, देवेंद्र मिश्रा ने कमरे बंद कर मार पीट की। देवेंद्र ने पिस्टल निकाल कर जान से पर देने की धमकी दी। प्रधानाचार्य कक्ष से जान बचाकर बदहवास हालत में भागते हुए बाहर निकले। बच्चो की भीड़ ने अपने शिक्षक सतीश मिश्रा रोते हुए और चेहरे पर खून लगा देखा तो अक्रोषित होकर प्रधानाचार्य रघुनाथ द्विवेदी, देवेंद्र मिश्रा को पीटने लगे। बच्चों की भीड़ ने शिक्षक की गाड़ियां अति उत्साह में पलट दी। काफी समय तक बच्चों ने विद्यालय में उत्पात मचाया। पुलिस के आने पर बच्चों को की भीड़ शांत हुई। घायल प्रधानाचार्य और शिक्षक को सीएचसी कादीपुर लाकर इलाज किया गया। अध्यापक सतीश कुमार को कोतवाली में लाकर बैठाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सतीश मिश्रा का व्यक्तित्व अच्छा है। विद्यालय के सीसीटीवी कैमरे रिकार्डिंग देखी जाय तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित हुआ जागरूकता शिविर

जन एक्सप्रेस। रायबरेली

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में व तरुण सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के मार्गदर्शन व उमाशंकर कहार अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में आज आंगनवाड़ी केंद्र खित्री तल्ला में पोषण सप्ताह के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में उपस्थित लोगों को बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चोंग के स्वायस्य्या की रक्षा हेतु उचित पोषण के महत्त्व के विषय में जन जागरूकता पैदा करना है। आज के स्वस्थ बच्चे कल का स्वस्थ भारत है। इनके बेहतर स्वास्थ्य का देश के विकास, उत्पादकता तथा आर्थिक उन्नति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। उक्त शिविर में उपस्थित लोगों को पराविधिक स्वयं सेवकों पवन कुमार श्रीवास्तव सी0डी0पी0ओ0 शहर संध्या श्रीवास्तव द्वारा भी उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की गयी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अन्तर्गत पोषण के महत्व को समझाने के लिए हर साल राष्ट्री य पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोगों को अपने खानपान में उन चीजों को शामिल करने के लिए जागरुक किया जाता है, जिनके जरिए उनके शरीर को पोषण मिल सके, इम्युमनिटी मजबूत हो सके और शरीर लंबे समय तक सेहतमंद रहे। उक्त जागरुकता शिविर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नाहिद बानो, नसरीन बानो व पराविधिक स्वयं सेवक राहुल, मनोज कुमार प्रजापति उपस्थित रहे।

शिक्षकों के लिए आचार संहिता है, महान शिक्षाविद् डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व

जन एक्सप्रेस। रायबरेली

मंगलवार को न्यू स्टैण्डर्ड पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल त्रिपुला, रायबरेली में शिक्षक दिवस पर डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 136वीं जयन्ती नए परिदृश्य में मनायी गयी, जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने शिक्षकों की भूमिका में विद्यालय का कुशल संचालन किया। विद्यालय की इस नई पहल से विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व निवर्हन की प्रेरणा विकसित होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवलखन प्रजापति ने भारत विकास परिषद् की प्रांतीय संयोजिका डॉ0 अमिता खुबले, ऊषा त्रिवेदी, राकेश कक्कड़, नवलकिशोर बाजपेई आदि पदाधिकारियों के साथ डॉ0 सवर्पल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा-सुमन समर्पित किए। भारत विकास परिषद् के तत्वावधान में 'गुरुवंदन छात्र अभिनंदन' कार्यक्रम के अन्तगर्त विद्यालय के शिक्षक भगवती शरण त्रिवेदी जी को वर्ष 2022-23 का सवश्रेंष्ठ शिक्षक सम्मान, छात्र कृष रावत को सवोर्त्तम छात्र सम्मान एवं छात्रा वैभवी को खेल-कूद व प्रियंका को सांस्कृतिक कायर्क्रमों में सवश्रेंष्ठ छात्रा सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला में विद्यालय की संयोजिका संचिता त्रिवेदी के नेतृत्व में विद्यालय की छात्र-छात्राओं में- अनुष्का, श्रेयांश, शिवम, असजद, अर्चिता, अनुभव, आजम, अदिती, आनंद, आराध्या, श्लोक, स्नेहा, स्वस्तिका, शैली ने एक लघु नाटिका प्रस्तुत कर वतर्मान में शिक्षण कार्य की चुनौतियों को दशार्या और यह सिद्ध किया गया कि शिक्षण कार्य में चाहे जितनी चुनौतियां हो लेकिन शिक्षक सदैव अपने कतर्व्य का पालन करने के लिए कृतसंकल्पित रहते हैं। इसी क्रम में विद्यालय के शिक्षक अजय सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महान शिक्षाविद् डॉ0 सवर्पल्ली राधाकृष्णन अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से शिक्षा के जो मापदण्ड स्थापित किये वह शिक्षकों के लिए आचार संहिता है, उसका अनुसरण करके हमएक कुशल शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकते हैं।

मिशन वात्सल्य योजनार्न्गत जिला टास्क फोर्स की बैठक संपन्न

जन एक्सप्रेस। रायबरेली

जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की बैठक बचत भवन सभागार में की। बैठक का उद्देश्य कोरोना काल और सामान्य परिस्थितियों में हुई मृत्यु पर अनाथ हुए बच्चों को योजना का लाभ दिए जाने के विषय पर चर्चा करना था। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों की जांच करके उन्हें योजना का लाभ दिया जाए।इन बच्चों से समय समय पर बात करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे बच्चों के स्कूल और आवास का भ्रमण करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसे बच्चों को टेक्निकल शिक्षा भी दी जाए। जिन बच्चों पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है उसका समय समय पर काउंसलिंग करते रहे। बच्चों के लिए अलग से प्राइवेट अध्यापक की भी व्यवस्था कराई जाए।

श्री गणेश विद्यालय इंटर कॉलेज ऐहार में हर्षोल्लास से मनाया गया शिक्षक दिवस

जन एक्सप्रेस। रायबरेली

श्री गणेश विद्यालय इंटर कॉलेज ऐहार रायबरेली में शिक्षक दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश विद्यालय समिति ऐहार के सभापति एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपति शंकर बाजपेई एवं प्रधानाचार्य सुरेश कुमार मिश्रा एवं सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक रामकृष्ण बाजपेई द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा में माल्यार्पण सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम को गुरु वंदन एवं छात्र अभिनंदन के रूप में मनाया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य ने विद्यालय में 25 वर्ष से अधिक समय तक शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक दिलीप द्विवेदी को स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर कमलाकांत को उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित किया। इसी कड़ी में शिक्षणेत्तर कर्मचारी देवी शंकर प्रधान लिपिक, मनीष कुमार मिश्रा एवं अरुण कुमार पांडे लिपिक तथा विद्यालय के दफ्तरी राधेश्याम को 25 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण होने पर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओ तथा समस्त कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को स्मृति चित्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दिलीप द्विवेदी एवं संगठन के पदाधिकारियो ने मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य एवं सेवानिवृत शिक्षक को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं ट्रस्ट के सभापति ने विद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनसे सीखने की अपील की।

janexpressnews janexpresslive janexpresslive

लखनऊ एक्सप्रेस

www.janexpresslive.com/epaper | हिंदी दैनिक, जन एक्सप्रेस । | लखनऊ । बुधवार । 06 सितंबर 2023

तापमान

	अधिकतम	न्यूनतम
लखनऊ	39°C	28°C
कानपुर	40°C	30°C
देहरादून	28°C	23°C
नई दिल्ली	40°C	30°C

यदि योगी सरकार ईमानदार तो मंत्री पुत्र के विरूद्ध 120 बी का मुकदमा दर्ज कर हत्या की कराए न्यायिक जांच: अजय राय

* भाजपा अपने मंत्री और विधायकों के गुनाहों पर डालती है पर्दा

जन एक्सप्रेस । विश्वामित्र पांडेय

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने अपना पदभार ग्रहण करने के उपरांत पहली बार पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक संकल्प लेकर आये हैं और एक वचनबद्धता के साथ हैं कि जो कहेंगे वह डंके की चोट पर करेंगे।

सवालों के घेरे में लखनऊ पुलिस!

घटना के तीन से चार दिन बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती कार्यवाही के नाम पर पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करती है। हम लोगों के दबाव में एक नोटिस जारी कर कहती है कि मंत्री पुत्र से पूछ-ताछ की जायेगी।

केन्द्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर के घर पर बुल्डोजर कब चलेगा?: अजय राय

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने ध्वस्त कानून व्यवस्था पर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए भारत सरकार के मंत्री के घर पर हत्या एवं चलती ट्रेन में महिला सिपाही के साथ की गई बर्बरता की घटना को प्रमुखता से उठाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि आखिर केन्द्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर के घर पर बुल्डोजर कब चलेगा।

मंत्री के घर शराब और जुआ का दौर चल रहा था जबकि वह शराब बंदी के लिए अभियान चलाते हैं: अजय राय

अजय राय ने भारत सरकार के मंत्री कौशल किशोर के घर में उनके बेटे की पिस्टल से भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की निंदा करते हुए योगी सरकार की बहुप्रचारित कानून व्यवस्था की पोल खोली। उन्होंने कहा कि मंत्री के घर शराब और जुआ का दौर चल रहा था जबकि वह शराब बंदी के लिए अभियान चलाते हैं। उनके अपने ही घर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होना और उनके द्वारा अपने बेटे को बचाने का षंड़यंत्र करना निंदनीय कृत्य है। भारत सरकार के मंत्री झूठ बोलते हैं कि उनका बेटा मौका-ए वारदात पर मौजूद नहीं था वह तो दिल्ली में था। जबकि सीसीटीवी फुटेज में वह उपस्थित दिखता है।

अजय राय ने महिला सिपाही के साथ हुई बर्बरता को लेकर महिला सुरक्षा के दावों की खोली पोल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला सिपाही के साथ ट्रेन में दरिंदों द्वारा की गई बर्बरता का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार अपनी ही महिला आरक्षी को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है तो प्रदेश के आम जनमानस की सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेलवे की सुरक्षा के संदर्भ में किये जाने वाले तमाम दावों की हक़ीकत का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर इस महिला सिपाही की रेलवे विभाग सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई? उन्होंने कहा कि आज यह बेटी लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। कल जब मैं पीड़ित महिला आरक्षी का हाल चाल लेने के लिए ट्रामा सेंटर जा रहा था तो प्रदेश सरकार ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर मुझे वहां जाने से रोकने का भरसक प्रयास किया लेकिन हम वहां पहुंचे और चिकित्सकों से वार्ता कर महिला आरक्षी का हाल चाल लिया एवं उसके बेहतर इलाज हेतु उनसे बात-चीत की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पीड़िता के भाई से मिलने एवं बात-चीत करने नहीं दिया। यहां तक कि उनका फोन भी बंद करवा दिया। यह प्रदेश में कायम जंगलराज का ज्वलंत उदाहरण है।

मंत्री पुत्र के विरूद्ध 120 बी का मुकदमा दर्ज कर, कराई जाए जांच: अजय राय

उन्होंने कहा कि यदि योगी सरकार ईमानदारी की बात करती है तो मंत्री पुत्र के विरूद्ध 120 बी का मुकदमा दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की मौजूदा जज की देख-रेख में न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लखीमपुर खीरी में थार द्वारा किसानों की निर्मम हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना में भी केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपने बेटे को बचाने का षंड़यंत्र किया था। उन्होंने कहा कि यह सरकार लगातार अपने मंत्री, विधायक एवं अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है और उनको क्षमा मिल जाती है वहीं विपक्ष का कोई व्यक्ति किसी छोटे से मामले में भी फंस जायेगा अथवा कोई छोटा मुकदमा हो जायेगा तो उसका घर गिरा दिया जायेगा उस पर और इतने मुकदमें लाद दिये जायेंगे कि वह जीवन भर जेल में सड़ जायेगा।

मंत्री के बेटे विकास किशोर से देर रात तक थाने में पूछताछ, साजिश से किया इनकार

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

विनय श्रीवास्तव हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर से ठाकुरगंज थाने में मंगलवार देर रात दो घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान उसने स्वीकार किया गया पिस्तौल रखने में गलती की। उसे इस तरह से पिस्तौल घर में नहीं छोड़ना चाहिए था। वहीं उसने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात से साफ इनकार किया है। इस दौरान एसीपी चौक व इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ने 25 से अधिक सवाल किये। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे को ठाकुरगंज पुलिस ने विनय हत्याकांड में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। वह मंगलवार रात आठ बजे तीन साथियों के साथ पहुंचा। आधे घंटे बाद से एसीपी चौक सुनील शर्मा व इंस्पेक्टर ठाकुरगंज विकास राय ने पूछताछ शुरू की। मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर ने ठाकुरगंज थाने में मंगलवार रात साढ़े आठ बजे एसीपी चौक सुनील शर्मा और इंस्पेक्टर ठाकुरगंज विकास राय ने पूछताछ की।

मुख्यमंत्री ने अवध कॉलेजिएट की प्रधानाचार्या को अध्यापक पुरुस्कार से किया सम्मानित

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

मंगलवार को अवध कॉलेजियएट के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ ने अवध कॉलेजिएट विद्यालय की प्रधानाचार्या जतिंदर वालिया को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। यह उनके 30 वर्षो के उत्कृष्ट कार्य का प्रतिफल था कि उन्हें सम्मान किया गया। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 25000/ रुपए की नगद धनराशि उत्साहवर्धक के रूप में भी दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने शाल ओढ़ाकर एवम् बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्मृति चिन्ह भेंट कर के सम्मानित किया।

आर्यकुल कॉलेज में मनाया गया शिक्षक दिवस, डॉ. सशक्त सिंह ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया नमन

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

लखनऊ के बिजनौर स्थित आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉ. सशक्त सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण और आर्यकुल कॉलेज की परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित व मां सरस्वती की पूजा कर की। इसी के साथ आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉ. सशक्त सिंह ने सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को उनके द्वारा वर्षभर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए उनको प्रोत्साहित एवं उनको धन्यवाद प्रेषित किया। इस

दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक छात्र के जीवन को प्रकाशमय बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। हम शिक्षकों को उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों और मानदंडों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। डॉ. सशक्त सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज के लिए उनके आदर्श किसी गीता से कम नहीं।

छात्र की प्रथम शिक्षिका उसकी मां: डॉ. सशक्त सिंह

छात्र की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है। जो उसके जन्म से ही गुरु के सारे कर्तव्य निभाती है। पिता उसके द्वितीया और हम छात्र के तृतीय शिक्षक हैं। वैसे तो, इन तीनों की छात्र के जीवन में अलग-अलग भूमिका और महत्व होता है लेकिन इनका लक्ष्य एक समान है। उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता व शिक्षक तीनों मिलकर छात्र के बौद्धिक, आत्मिक, चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। उसे जीवन और संसार की शिक्षा देते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र व छात्राओं ने अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं का स्वागत चंदन का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर कर किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने भाषण, गीत, कविता व नृत्य से अपने शिक्षकों का मन मोह लिया। अनुराग कुमार, छवि, मानसी, सूरज शुक्ला, सक्षम, अनुराग त्रिपाठी, हर्षित तिवारी, रीना और राज ने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। वहीं, कार्यक्रम का संचालन वैष्णवी, ज्योति, प्रिया, हर्षवर्द्धन ने किया। इस अवसर पर आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेज के रजिस्ट्रार सुदेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार हर्ष नारायण सिंह, फार्मेसी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ.आदित्य सिंह, पत्रकारिता व शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर डॉ.अंकिता अग्रवाल, शिक्षा विभाग के एचओडी प्रणव पांडेय, और शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल एस.सी. तिवारी के साथ अन्य शिक्षक व स्टाफ मौजूद रहें।

घोसी उपचुनाव: 51 फीसदी पड़े वोट

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

घोसी विधानसभा उप चुनाव के लिए मंगलवार को हुए मतदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बनाम इंडिया के बीच कांटे का मुकाबला हुआ है। हालांकि भाजपा और समाजवादी पार्टी के तमाम प्रयास के बावजूद मतदान 51 प्रतिशत तक ही पहुंचा। भाजपा के समर्थित माने जाने वाले नोनिया चौहान, राजभर, निषाद और कुर्मी मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सपा के परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम और यादव समाज के साथ सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के के सजातीय ठाकुर मतदाताओं ने भी पूरे जोश से मतदान कर मुकाबले को न केवल रोचक बल्कि कांटे का बनाया। बरहाल यह माना जा रहा है कि जो भी दल दलित मतदाताओं में सेंध लगाने में जितना सफल रहेगा बाजी उसके के हाथ लगेगी। उप चुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से आशंका जताई जा रही थी कि उनसे जुड़े मुस्लिम और यादव मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से सत्तापक्ष पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उनके मतदाताओं को भयभीत करने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन मंगलवार को हुए मतदान में मुस्लिम, यादव और ठाकुर बहुल इलाकों में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। शुरुआती दौर में पहचान पत्र और आधार कार्ड के नाम पर मतदाताओं को परेशान करने की शिकायत मिली। लेकिन उसके बाद मतदान सामान्य व्यवस्था के तहत चलता रहा। हालांकि मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। सपा के वोट बैंक से जुड़ी अन्य जातियों ने जमकर मतदान किया। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उप चुनाव या रामपुर विधानसभा उप चुनाव जैसी स्थिति नहीं रहने से सपा मुकाबले में मजबूती से बनी रही। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के सजातीय नोनिया चौहान मतदाताओं के साथ राजभर और निषाद समाज के मतदाताओं ने भी पूरे जोश से मतदान किया। इन जातियों से जुड़ी बस्तियों के मतदान बूथों पर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जातीय समीकरण के लिहाज से उप चुनाव में पूरा दारोमदार राजभर, नोनिया चौहान और निषाद समाज के मतदाताओं पर है।

दलितों से वोट से तय होगी जीत

उप चुनाव में दलित मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। दोनों ही दलों की ओर से दलितों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। दलितों में खटीक और धोबी समाज का रुझान भाजपा की ओर दिखा। लेकिन दलित वर्ग में जाटव मतदाता सबसे अधिक हैं। जाटव मतदाताओं का दोनों ही दलों की ओर रुझान दिखा। दलितों का मत जिसे अधिक मिलेगा बाजी उसी के हाथ लगेगी।

वैश्य और ब्राह्मण मतदाता बंटे

स्थानीय लोगों का मानना है कि वैश्य और ब्राह्मण मतदाता सपा और भाजपा में बंट गए। विधानसभा क्षेत्र की अलग-अलग गांवों के अनुसार इन दोनों समाजों के वोट दारा सिंह और सुधाकर सिंह को मिले।

सेंधमारी का पूरा प्रयास

उप चुनाव में भाजपा ने जहां यादव, मुस्लिम और ठाकुर वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया। वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने मतदान के दिन तक राजभर, निषाद, ब्राह्मण, कुर्मी और वैश्य वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने की हर संभव कोशिश की।

मतदान के प्रति 2019 जैसा ही रुझान

घोसी विधानसभा उपचुनाव में इस बार भी मतदाताओं का मतदान के प्रति रुझान 2019 उप चुनाव की तरह ही रहा है। 2019 में हुए उप चुनाव में घोसी में 51.93 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार भी मतदान हुआ है। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में घोसी में 58.89 और 2022 विधानसभा चुनाव में 58.59 प्रतिशत मतदान हुआ था।

चन्द्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर में मनाया गया शिक्षक दिवस

जन एक्सप्रेस । पीयूष द्विवेदी

बीकेटी, लखनऊ। बख्शी का तालाब स्थित चंद्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय तथा कृषि संकाय के छात्र-छात्राओं ने धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। इस अवसर पर महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ फिदा हुसैन अंसारी ने छात्र-छात्राओं को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन

के जीवन तथा उनके द्वारा किए गए, कार्यों को गिनाया तथा चंद्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय सह - आचार्य डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने महाविद्यालय के शिक्षक डॉ हृदय नारायण तिवारी, डॉ योगेंद्र कुमार सिंह एवं सतीश पांडे की प्रशंसा की तथा बताया कि यह हमारे स्नातक गुरु रहे और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और आज भी हम इसे सीखते रहते हैं । डॉ सिंह ने कहा कि शिक्षक तीन पीढियां का जिम्मेदार होता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ फिदा हुसैन अंसारी, महामंत्री डॉ बैजनाथ रावत, प्राचार्य प्रो गजेंद्र सिंह ने शिक्षकों को सम्मानित किया।

कुत्तों के शवों के निस्तारण के लिए लगेगा प्लांट, दो घंटे में पचास कुत्तों का होगा एक साथ अंतिम संस्कार

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

शहर में मृत कुत्तों के निस्तारण की अभी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है मगर अब उनका निस्तारण सही तरीके से किया जाएगा। उसको लेकर एक प्लांट लगाया जाएगा। यह विद्युत शवदाह गृह की तरह काम करेगा। इसको लेकर प्रस्ताव भी पास हो गया है। जिस पर करीब चार करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंपनी चयन को लेकर इसी महीने टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। नगर निगम के पशुकल्याण अधिकारी डा. अभिनव वर्मा का कहना है कि अभी सभी आठों जोन में मिलाकर रोज करीब 100 से अधिक शिकायतें कंट्रोल रूम में मृत कुत्तों को उठाने को लेकर आती हैं। नगर निगम की टीम उनको उठाकर लाती है और फिर उनको शिवरी प्लांट पर ले जाकर खाली जगह में गड्ढा खोदकर दफनाया जाता है। अभी उनके किसी अन्य तरह से निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। अब नई व्यवस्था में मृत कुत्तों के लिए इंसीनरेटर लगाने की योजना पास हुई है। जिसके मृत कुत्तों का निस्तारण विद्युतशवदाह की तरह होने लगेगा। यह प्लांट सीएनजी गैस से चलेगा। बिजली से भी उसको चलाया जा सकेगा जो प्लांट लगाया जाएगा उसमें एक साथ 50 कुत्तों का निस्तारण किया जा सकेगा।

सीएम योगी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का दिया न्योता

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच प्रदेश सरकार के कामकाज सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच प्रस्तावित है। देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक विश्व स्तरीय टेंपल म्यूजियम बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। मंदिरों का यह अनूठा संग्रहालय 50 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने चार स्थानों पर जमीन तलाशी है। दिल्ली में हुई बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी चर्चा की गयी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने अयोध्या विजन के कार्यों की भी जानकारी ली। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कमिश्नर व डीएम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंगलवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी टेंपल म्यूजियम के निर्माण की अनुमति मिल गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री

अरविंद शर्मा भी मौजूद थे। इनके अलावा जिले से कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम नितीश कुमार बैठक में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री आवास पर शाम छह बजे शुरू हुई ये बैठक एक घंटा 10 मिनट चली। अधिकारियों ने अयोध्या में चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी पीएम के समक्ष प्रस्तुत की। बैठक में अयोध्या में टेंपल म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव पर पीएम व सीएम दोनों ने मुहर लगा दी है। डीएम नितीश कुमार ने बताया कि मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए नयाघाट से गुप्तारघाट के बीच जमीन देखी गई है। ब्रह्मकुंड गुरूद्वारा के पास भी एक जमीन चिन्हित की गई है। साथ ही नव्य अयोध्या योजना में भी जमीन देखी जा रही है। जहां जमीन चिन्हित की जाएगी वहां की मिट्टी की क्षमता जांचने के बाद काम शुरू होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि संग्रहालय में मंदिर के विभिन्न पहलुओं जैसे उसके डिजाइन, निर्माण आदि को प्रदर्शित करने वाली अलग-अलग दीर्घाएं होंगी। इनमें देश के प्रसिद्ध मंदिरों की विशिष्टताओं और वास्तुकला को चित्रों और भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा। संग्रहालय में मंदिरों के प्राचीन मॉडल भी होंगे। डीएम ने कहा कि इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और इसकी विरासत के बारे में जागरूकता लाना है।

जन एक्सप्रेस

सम्पादकीय

शिक्षक केवल सफ़ल होना नहीं बल्कि असफ़लता से भी रास्ता निकाल लेना सिखाता है

डॉ. राधाकृष्णन अक्सर कहा करते थे, शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है। जानकारी का अपना महत्व है लेकिन बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ छात्र उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। वे मानते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक शिक्षा को मिशन का रूप नहीं मिल पाएगा। आज शिक्षा को मिशन बनाना होगा। शिक्षा की पहुँच इस देश के अंतिम घर के अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए। इसके लिए केवल शिक्षकों को ही नहीं समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।

दुनिया सुनना नहीं, देखना पसंद करती है कि आप क्या कर सकते हैं और अपने अंदर छिपी इसी असीम शक्ति की पहचान करवाना, मैं कौन हूँ ओर क्या कुछ कर सकता हूँ इस भाव को परिणाम में बदलने के लिए प्रेरित करने की प्रेरणा है शिक्षक। आज शिक्षक दिवस है और हममें से कोई भी ऐसा नहीं, जिसके जीवन में इस शब्द का महत्व न हो। हम आज जो कुछ भी हैं या हमने जो कुछ भी सीखा या जाना है उसके पीछे किसी न किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग व उसे सिखाने की भूमिका रही है। इसलिए आज का दिन प्रत्येक उस व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का व उन सीखे हुए मूल्यों के आधार पर खुशहाल समाज निर्माण में अपनी भूमिका तय करने का दिन भी है। शिक्षक यानि गुरु शब्द का तो अर्थ ही अंधकार (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले जाने वाला है। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का श्री गणेश भी हो चुका है। पूरी शिक्षा नीति को देखने पर ध्यान आता है कि उसके क्रियान्वयन व सफ़ल तरीके से उसे मूर्त रूप देने का अगर सीधा-सीधा किसी का नैतिक दायित्व बनता है तो वह शिक्षकों का ही है। वर्तमान के आधार को मजबूत करते हुए, भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को चरितार्थ करने व भारत को आगे बढ़ाने के सपनों को अपनी आँखों में भर कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा व भाव जागरण का आधार भी शिक्षक है। जिंदगी में उत्साह व भारत के प्रति उत्तरदायित्व से भरी हुई पीढ़ियों का निरंतर निर्माण करते रहना, यही शिक्षकत्व की पहचान है और यही शिक्षक दिवस की सार्थकता भी। शिक्षक जो जीवन के व्यावहारिक विषयों को बोल कर नहीं बल्कि स्वयं के उदाहरण से वैसा करके सिखाता है। शिक्षक जो बनना नहीं गढ़ना सिखाता है। शिक्षक जो केवल शिक्षा नहीं बल्कि विद्या सिखाता है। शिक्षक केवल सफ़ल होना नहीं, असफ़लता से भी रास्ता निकाल लेना सिखाता है। शिक्षक जो तर्क व कुतर्क के अंतर को समझाता है। शिक्षक जो केवल चलना नहीं, गिरकर उठना भी सिखाता है। शिक्षक जो भविष्य की चुनौतीयों के लिए तैयार होना सिखाता है। शिक्षक जिसे समाज संस्कार, नम्रता, सहानुभूति व समानुभूति की चलती फिरती पाठशाला मानता है। कहा जाता है कि एक शिक्षक का दिमाग देश में सबसे बेहतर होता है। एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ छात्रों और दोस्तों ने उनका जन्मदिवस मनाने की इच्छा ज़ाहिर कि इसके जवाब में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व होगा। इसके बाद से ही पूरे भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण इस दिन इस महान शिक्षाविद् को हम सब याद भी करते हैं। डॉ. राधाकृष्णन ने 12 साल की उम्र में ही बाइबिल और स्वामी विवेकानंद के दर्शन का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र से एम.ए. किया और 1916 में मद्रास रेजीडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में काम किया। वह 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके बाद 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे और 1939 से 1948 तक वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आसीन रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। साल 1952 में उन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनने से पहले 1953 से 1962 तक वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसी बीच 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 'भारत रत्न' की उपाधि से सम्मानित किया।

एक्सप्रेस आलेख

वसुदेव ने भगवान की आज्ञा पाकर शिशु को छाज में रखकर अपने सिर पर उठा लिया। यमुना में प्रवेश करने पर यमुना का जल भगवान श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए हिलोरं, लेने लगा और जलचर भी श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उमड़ पड़े। गोकुल पहुंचकर वसुदेव सीधे नंद बाबा के घर पहुंचे। घर के सभी लोग उस समय गहरी नींद में सोये हुए थे पर सभी दरवाजे खुले पड़े थे। वसुदेव ने नंद की पत्नी यशोदा की बगल में सोई कन्या को उठा लिया और उसकी जगह श्रीकृष्ण को लिटा दिया। उसके बाद वसुदेव मथुरा पहुंचकर अपनी कोठरी में पहुंच गए। कोठरी में पहुंचते ही कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए और पहरेदारों की नींद खुल गई।

योगेश कुमार गोयल

भारतीय संस्कृति में जन्माष्टमी का महत्व

कंस को जैसे ही कन्या के जन्म का समाचार मिला, वह तुरन्त कारागार पहुंचा और कन्या को बालों से पकड़कर शिला पर पटककर मारने के लिए ऊपर उठाया लेकिन कन्या अचानक कंस के हाथ से छूटकर आकाश में पहुंच गई। आकाश में पहुंचकर उसने कहा, ''मुझे मारने से तुझे कुछ लाभ नहीं होगा। तेरा संहारक गोकुल में सुरक्षित है।''

प्रतिवर्ष भाद्रपक्ष कृष्णाष्टमी को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल मान्यता है कि इसी दिन मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था। इस वर्ष भगवान श्रीकृष्ण की 5250वीं जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 6 सितम्बर को मनाया जाएगा। हिन्दू पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी तिथि बुधवार 6 सितंबर को दोपहर 3.37 बजे शुरू होगी, जिसका समापन 7 सितंबर की शाम 4 बजकर 14 मिनट पर होगा। वैसे जन्माष्टमी का त्योहार आमतौर पर दो दिन मनाया जाता है, पहले दिन स्मार्त गृहस्थियों द्वारा तथा दूसरे दिन वैष्णव सम्प्रदाय द्वारा। गृहस्थ लोग इस बार 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे जबकि वैष्णव सम्प्रदाय में 7 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय संस्कृति में जन्माष्टमी का इतना महत्व क्यों है, यह जानने के लिए श्रीकृष्ण के जीवन दर्शन और उनकी अलौकिक लीलाओं को समझना जरूरी है। द्वापर युग के अंत में मथुरा में अग्रसेन नामक राजा का शासन था। उनका पुत्र था कंस, जिसने बलपूर्वक अपने पिता से सिंहासन छीन लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव के साथ हुआ। एक दिन जब कंस देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस! जिस देवकी को तू इतने प्रेम से उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का आठवां बालक तेरा संहारक होगा। आकाशवाणी सुन कंस घबरा गया और देवकी की ससुराल पहुंचकर उसने अपने जीजा वसुदेव की हत्या करने के लिए तलवार खींच ली। तब देवकी ने अपने भाई कंस से निवेदन करते हुए वादा किया कि उसके गर्भ से जो भी संतान होगी, उसे वह कंस को सौंप दिया करेगी। कंस ने देवकी की विनती स्वीकार कर ली और वसुदेव-देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया, जिसे कंस ने मार डाला। इसी प्रकार एक-एक कर उसने देवकी के सात बालकों की हत्या कर दी। जब कंस को देवकी के 8वें गर्भ की सूचना मिली तो उसने वसुदेव-देवकी पर पहरा और कड़ा कर दिया। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई, जब देवकी ने कृष्ण को जन्म लिया। उस समय घोर अंधकार छाया हुआ था तथा मूसलाधार वर्षा हो

कंस ने श्रीकृष्ण का वध करने के लिए अनेक भयानक राक्षस भेजे परन्तु श्रीकृष्ण ने एक-एक कर उन सभी का संहार कर दिया। बड़ा होने पर कंस का वध कर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता-पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया।

रही थी। तभी वसुदेव जी की कोठरी में अलौकिक प्रकाश हुआ। उन्होंने देखा कि शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान उनके सामने खड़े हैं। भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन पाकर वसुदेव और देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने वसुदेव से कहा, ''अब मैं बालक का रूप धारण करता हूं। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो, जहां अभी एक कन्या ने जन्म लिया है। मेरे स्थान पर उस कन्या को कंस को सौंप दो। मेरी ही माया से कंस की जेल के सारे पहरेदार सो रहे हैं और कारागार के सारे ताले भी अपने आप खुल गए हैं। यमुना भी तुम्हें जाने का मार्ग अपने आप देगी।'' वसुदेव ने भगवान की आज्ञा पाकर शिशु को छाज में रखकर अपने सिर पर उठा लिया। यमुना में प्रवेश करने पर यमुना का जल भगवान श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए हिलोरं, लेने लगा और जलचर भी श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उमड़ पड़े। गोकुल पहुंचकर वसुदेव सीधे नंद बाबा के घर पहुंचे। घर के सभी लोग उस समय गहरी नींद में सोये हुए थे पर सभी दरवाजे खुले पड़े थे। वसुदेव ने नंद की पत्नी यशोदा की बगल में सोई कन्या को उठा लिया और उसकी जगह श्रीकृष्ण को लिटा दिया। उसके बाद वसुदेव मथुरा पहुंचकर अपनी कोठरी में पहुंच गए। कोठरी में पहुंचते ही कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए और पहरेदारों की नींद खुल गई। कंस को जैसे ही कन्या के जन्म का समाचार मिला, वह तुरन्त कारागार पहुंचा और कन्या को बालों से पकड़कर शिला पर पटककर मारने के लिए ऊपर उठाया लेकिन कन्या अचानक कंस के हाथ से छूटकर आकाश में पहुंच गई। आकाश में पहुंचकर उसने कहा, ''मुझे मारने से तुझे कुछ लाभ नहीं होगा। तेरा संहारक गोकुल में सुरक्षित है।'' यह सुनकर कंस के होश उड़ गए। उसके बाद कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए। कंस ने श्रीकृष्ण का वध करने के लिए अनेक भयानक राक्षस भेजे परन्तु श्रीकृष्ण ने एक-एक कर उन सभी का संहार कर दिया। बड़ा होने पर कंस का वध कर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता-पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। तभी से भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की स्मृति में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। बाल्याकाल से लेकर बड़े होने तक श्रीकृष्ण की अनेक लीलाएं विख्यात हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी का आव्हान किया था, जिसके बाद हनुमान जी ने बलराम की वाटिका में जाकर बलराम से युद्ध किया और उनका घमंड चूर-चूर कर दिया था। श्रीकृष्ण ने नररकासुर नामक असुर के बंदीगृह से 16100 बंदी महिलाओं को मुक्त कराया था।

एक्सप्रेस कविता

कम ना समझो महिलाओं की शक्ति को, मां दुर्गा के प्रति इनकी भक्ति को। दुश्मनों का नाश करती मां भवानी अलौकिक अद्भुत है नारी हिंदुस्तानी। घर परिवार मुख्य धुरी है देश की नारी, उसे कभी मत समझो तुम बेचारी। घर हो या बाहर समान है उसकी शक्ति धर्म में उनकी कितनी है भक्ति।

बच्चों के प्रति असीम है आसक्ति। घर हो या ऑफिस बराबर की भूमिका निभाती समाज के विकास में भी महिलाएं गजब ऊर्जा दिखलाती, स्कूटर, ऑटो और बस चलाती रेल चला कर, हवाई जहाज उडाती। अद्भुत है नारी शक्ति बुजुर्गों का यह है कहना, महत्वपूर्ण रोल निभाती घर का मैदान हो या सेना, अद्भुत है यह नारी शक्ति अटूट है इनमें देशभक्ति। हे देश की नारी मां बहन बेटी हो हमारी तुम्हें है प्रणाम नमन।

संजीव ठाकुर

एक्सप्रेस ज्ञान

धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर, मुसीबत की नदी को सफ़लता पूर्वक पार कर जाता है।

आज का पंचांग

किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय, और सही नक्षत्र का होना जरूरी होता है, आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो की सही कार्य करने का है, और आज कब कौन सी दशा कौन से टाइम में चल रही है उसका समुचित विवरण हिन्दू कैलेंडर और हिन्दू पंचांग के अनुसार दे रहे है, आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। आज का दिन शुभ कार्य के लिए सही कार्य है या नहीं आज के चौघड़िया के अनुसार जानें। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई अन्य शुभ कार्य करने के लिए सोच रहे है तो पहले यहाँ सही समय देख लें, आपका कार्य शुभ और सफल होगा, यही हमारी ओर से शुभ मंगल कामना है।

तिथि:	सप्तमी 15:43 तक
नक्षत्र:	कृत्तिका 09:21
पक्ष:	कृष्ण
वार:	बुधवार
योग:	हरषाना, 22:24
सूर्योदय:	06:05
सूर्यास्त:	18:33
चंद्रमा:	वृषभ राशि में
राहुकाल:	12:19-13:52
विक्रमी संवत्:	2080
शक सम्वत:	1944
मास:	भाद्रपद
शुभ मुहूर्त:	कोई नहीं

जन एक्सप्रेस

चल रही बयार !

इस नाम से बोलना ।
चल रही बयार ।।
अपनी-अपनी बातों पर ।
हैं सारे तैयार ।।
रोज रोज कुछ नया ।
जाता मुद्दा मिल ।।
है सबका अधिकार ।
किस पर किसका दिल ।।
है हट कर तरकीब ।
रहे वो ऐसा मान ।।
खोया जनाधार जो ।
है आना आसान ?
जूझ रहे हैं मिल कर ।
सफल हो जुगाड़ ।।
ले चुके हैं करवट ।
दोगे झंडे गाड़ ।।

- कृष्णेन्द्र राय

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

नीले फूल से चेहरे की झुर्रियों को करें दूर

शरीर में पोषण तत्वों की कमी का असर आपकी स्किन पर साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा, धूप की यूवी किरणे और प्रदूषण त्वचा को डैमेज करने में सहायक होते हैं। इन समस्याओं के कारण आपका चेहरे पर कम उम्र में ही डलनेस और झुर्रियां दिखने लगती है। ऐसे में आपको स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन, कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर आप स्किन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में पाए जाने वाला अपराजिता का फूल त्वचा की समस्याओं को दूर कर का काम करता है। इसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। इसे ही बटरफ्लाई पी फ्लावर भी कहा जाता है। आगे आपको इस नीले फूल से त्वचा पर होने वाले फायदे और इसके इस्तेमाल के बारे में बताया गया है।

एंटीऑक्सीडेंट युक्त: अपराजिता के फूल में एंथोसायनिन व फ्लेवोनोइड्स जैसे कई एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं। इससे स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर होती है। बाहर का प्रदूषण त्वचा को डैमेज करने का काम करता है। लेकिन, ऐसे में एंटीऑक्सिडेंट त्वचा की सुरक्षा करते हैं और झुर्रियों को कम करने में सहायक होते हैं।

त्वचा को हाइड्रेट करें: इस फूल में मौजूद में तत्व स्किन के मॉइश्चर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्किन के रूखेपन को कम करते हैं, साथ ही लिपिड को नियंत्रित करते हैं। इसके फेस मास्क के उपयोग से त्वचा दिनभर हाइड्रेट रहती है। इससे त्वचा डल नहीं होती है और इसकी झुर्रियां तेजी से दूर होती हैं।

त्वचा को पोषण प्रदान करें: अपराजिता के फूल में विटामिन ए, सी और ई पाए जाते हैं, जो नेचुरल रूप से आपकी त्वचा की समसया को दूर करते हैं। पर्याप्त पोषक तत्व मिलने से त्वचा में चमक आती है और झुर्रियां तेजी से कम होने लगती है।

त्वचा की जलन को दूर करें: इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की जलन को दूर करने में सहायक होते हैं। इससे मुंहासों व जलन के कारण त्वचा में होने वाली इंफ्लेमेशन में आराम मिलता है। साथ ही, मुंहासों के बाद बनने वाली झुर्रियां कम होती हैं।

झुर्रियों को दूर करने के लिए अपराजिता का कैसे करें इस्तेमाल

- इसका मास्क बनाने के लिए आप चार से पांच अपराजिता के फूल ले लें।
- इन फूलों को पीस लें। इसके पेस्ट को बाउल में रखें और इसमें शहद और करीब एक चम्मच गुलाब जल की मिला दें।
- इस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें।
- इसके बाद चेहरे को साफ कर, इस पेस्ट को करीब 20 से 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें।
- इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से साफ करें।
- कुछ ही दिनों में आपको चेहरे पर फर्क नजर आने लगेगा।

एक्सप्रेस विशेष

सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पद्म विभूषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक

आर. के. सिन्हा

पाठक जी ने कहा कि यहां कोई गंदगी नहीं फैलेगी। हम 500 से 800 रुपये में कई तरह के शौचालय बना देंगे। बात तय हो गयी और सुलभ शौचालय की पहली प्रदर्शनी गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी मैदान में लगी और उसका उद्घाटन सीमांत गांधी द्वारा हो गया।

स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं और एक सुलभ शौचालय की स्थापना की है। स्वच्छता और सिर पर मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए काम को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं और इसका उद्घाटन आपसे करवाना चाहते हैं। सीमांत गांधी ने कहा कि क्या यह संभव है कि प्रदर्शनी गांधी शांति प्रतिष्ठान के अंदर में ही लग जाएगी। क्या आप रजी अहमद जी से मिले हैं?

बात 1968-1969 की है। मैं उन दिनों पटना के अंग्रेजी दैनिक सर्चलाइट और हिन्दी दैनिक प्रदीप में द्विभाषीय कार्यालय संवाददाता था। पटना के गर्दनीबाग मुहल्ले के रोड नं. 4 ए के क्वार्टर नं.-15 में अपने पिताजी के साथ उनके सरकारी आवास में रहता था। प्रतिदिन सुबह 10 बजे के आसपास पिताजी द्वारा टूटी-फूटी हालत में दी गई साइकिल से कार्यालय जाता था, क्योंकि 11 बजे प्रदीप के संपादक जी की और 11:30 बजे सर्चलाइट के सम्पादक जी की एडिटोरिएल बैठक होती थी। एक दिन मैं सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में जल्दी -जल्दी साइकिल का पैडल मारता हुआ सर्चलाइट प्रेस की ओर चला जा रहा था। रोड नं.-1 के रेलवे फाटक के पास एक बुलंद आवाज सुनाई पड़ी। %पहले इधर आइये। इधर आइये। मेरे साथ एक कप चाय पीकर जाइयेगा।% मैंने पलट कर देखा तो गर्दनीबाग थाने के इंस्पेक्टर श्री पन्ना लाल मेहरा जी एक नं. फाटक के बगल वाले इंस्पेक्टर क्वार्टर के बाहर बैठकर जाड़े की धूप का आनन्द लेते हुए अपने पोर्टेबल टाइपराइटर पर फटाफट कुछ टाइप किए जा रहे थे। शायद किसी केस का सुपरविजन रिपोर्ट टाइप कर रहे थे। मैंने जब अपनी साइकिल उनके क्वार्टर के गेट के अन्दर लगाई तो उन्होंने कहा कि क्या श्रीमान जी आप इसी तरह रोज चले जाते रहिएगा। यहां रुक कर एक कप चाय पीकर तो जाया करिये। उन्होंने कहा मैं चाय भी पिलाऊंगा और आपको खबर देते रहूंगा। उन्होंने आवाज लगाई पाठक जी। अरे ओ, पाठक जी। मैंने सड़क के उस पार में देखा कि झोपड़ीनुमा चाय की दुकान से एक आदमी झांका। मेहरा जी ने कहा कि %दो गिलास बढ़िया चाय भेजो। फिर हमलोग बातचीत में लग गये। तीन-चार मिनट के बाद एक नवयुवक लाल गमझा लपेटे हुए और एक बनियान पहने हुए दो गिलास चाय लेकर आया और उनके सामने टेबुल पर रख दिया। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो लगा कि ये तो बिन्देश्वर पाठक हैं। उस समय वे डॉ. बिन्देश्वर नहीं थे। उन्हें कोई नहीं जानता था। मैंने उन्हें इसलिए पहचान लिया था कि वे मेरे बड़े भाई के साथ पढ़ते थे और कभी-कभी मेरे घर पर आते रहते थे । मैंने उनसे पूछा कि आप यहां? उन्होंने कहा कि हां यह होटल मेरे गांव के चाचा जी का है। कभी-कभी यहां मैं आता रहता हूं और चाचा जी की मदद कर देता हूं । यहां नहाने-धोने की सुविधा होती है। फिर यहीं से तैयार होकर कालेज चला जाता हूं। मैं यह जानकारी के रूप में बता रहा हूं कि किसी व्यक्तित्व की कैसी परख है। पाठक जी दुकान पर चाचा जी की चाय बेचते थे और समोसा, बंगला निमकी और गुलाब जामुन भी वहां बहुत बढ़िया बनता था। इसी कारण से पाठक जी की दुकान पर हम लोगों का आना-जाना नियमित था। कभी-कभी मैं आज भी जब उस इलाके से गुजरता हूं तो पाठक जी की दुकान और मेहरा जी का याददास्त सामने आ जाती है। अतः मैं अपने कुछ संस्मरण झलकियों के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके कुछ महीनों के बाद सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान पटना आये तो गांधी मैदान के उत्तर पूर्व कोने पर अनुग्रह नारायण सामाजिक शोध संस्थान से सटे पूर्व गांधी शांति प्रतिष्ठान में ठहरे। प्रदीप के संपादक राम सिंह भारतीय जी ने मेरी यहां ड्यूटी लगाई कि मैं दोपहर के सम्पादकीय बैठक के तुरंत बाद प्रतिदिन गांधी शांति प्रतिष्ठान जाया करूं और खान अब्दुल गफ्फार खान के पास आधे-एक घंटे बैठ कर इनके जो भी संस्मरण निकाल सकूं या दिनभर कोई विशेष व्यक्ति उनसे मिलने आए तो उनका खान साहब से जो भी वार्तालाप हो उसका समाचार बना सकूं । मैं यह काम प्रतिदिन करूं । मैं गांधी प्रतिष्ठान जाने लगा और धीरे-धीरे मेरी खान साहब से टीयूनिंग भी अच्छी बन गई। खान साहब के पास जब भी जाता और प्रणाम करता तो बैठक के बीच में ही अपनी लम्बी कमीज की जेब से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकालकर मेरे हाथ में रख देते। एक दिन मैं जब खान साहब से मिलने पहुंचा और अपनी साइकिल को खड़ा कर ताला लगा ही रहा था कि मुझे बिन्देश्वर पाठक जी मिल गए। मैंने पूछा क्या हाल है पाठक जी। उन्होंने कहा, भाई मैं बड़ी परेशानी में हूं । मैंने कहा, आपकी परेशानी क्या है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं ? बिन्देश्वर जी ने कहा, आप तो जान ही रहे हैं कि मैंने सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की है और कम खर्चे में शौचालय कैसे बनाया जा सकता है इस पर एक प्रदर्शनी लगाना चाहता हूं। अगर उस प्रदर्शनी का उद्घाटन खान साहब कर देंगे तो उसकी प्रेस कवरेज अच्छी हो जाएगी। उससे हमारी संस्था को बड़ा लाभ और बल मिलेगा। मैंने पूछा आप खान साहब से मिले? पाठक जी ने कहा, खान साहब के लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। खान साहब जय प्रकाश नारायण के घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते हैं।

फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण पर पड़ेगा दुष्प्रभाव, फसल अवशेष ना जलाने का लें संकल्प: जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह

जन एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी

फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने नित नए प्रयास करते हुए किसानों को जागरुक कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि कई किसान भाई जानकारी के अभाव में फसल अवशेष जैसे धान की पराली, गन्ने की पत्ती आदि जला दे रहे है, इससे फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ने के साथ अन्य कई प्रकार की हानियां हो रही है।डीएम ने फसल अवशेष जलाने से होने वाली हानि बताते हुए कहा कि आपके स्वयं की खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मिट्टी में रहने वाले केचुएं मर जाते है। फसलों के लिए उपयोगी जीवाणु मर जाते है।

फसल अवशेष में उपलब्ध पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाता है। पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जो लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। विशेषकर अस्थमा के मरीजों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाड़े के मौसम में पराली के धुएं से धुंध जैसा बन जाता है, जिससे पौधों में प्रकाश से पोषण के द्वारा भोजन करने में हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। फसलोंत्पादन पूरी लागत लगाने के बाद भी वातावरण की धुंध के कारण उत्पादन कम होता है। किसान भाई फसल अवशेष जलाने के बजाए उसे मिट्टी में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मृदा में केचुआ जीवाणओं की संख्या बढ़ती है, जो फसलों के लिए लाभ दायक है।

बीएसए-डीआईओएस की अगुवाई में विद्यालयों में चल रहा जागरूकता अभियान

खीरी में फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य को होने वाली क्षति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु बीएसए, डीआईओएस की अगुवाई में प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर विद्यालय में छात्रों की समाएं आयोजित कर फसल अवशेष प्रबंधन की आवश्यकता विषय पर परिचर्चा की जा रही तथा छात्रों में इस विषय पर निबंध, चित्रकला जैसी प्रतियोगिता आयोजित कर छात्रों को प्रेरित किया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर परिचर्चा/प्रतियोगिता में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तथा कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों भी शामिल हो रहे।

डीएम ने फसल अवशेष जलाने से रोकने को बनाई त्रिस्तरीय समितियां

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने फसल अवशेष जलाये जाने से रोकने के लिए जनपद, तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर सेल गठित है। प्रत्येक स्तर पर गठित समिति द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में पराली जलाने की घटना घटित न हो, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

कृषि विभाग से फ्री प्राप्त करें डी कंपोजर, फसल अवशेष का करें प्रबंधन, बनाएं खाद

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक किसान यंत्र क्रय कर सकते है। स्वयं का तथा आसपास के किसानों को फसल प्रबन्धन में सहयोग कर सकते है। कृषि विभाग द्वारा डी-कम्पोजर नि:शुल्क दिया जा रहा है, जिसका प्रयोग करके फसल अवशेष को जल्द से सड़ाकर खाद बनायी जा सकती है। फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए विभिन्न कृषि यंत्र जैसे-मल्चर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्राचापर आदि उपलब्ध है। जो ग्राम पंचायत, गन्ना समिति तथा पंजीकृत किसान समितियों के पास उपलब्ध है जहाँ से किराये पर लेकर फसल अवषेष को मिट्टी में मिल से कार्य आसानी से खाद बना सकते है।

पराली फसल अवशेष जलाना अपराध: डीएम

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अपनी ग्राम पंचायत में जिन किसानों के द्वारा हार्वेस्टर/रीपर से फसल की कटाई की जा रही या गन्ने की पत्ती का अवशेष उपलब्ध है, उनको प्रेरित करके खेत में ही प्रबन्धन करायें। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में पराली फसल अवशेष जलाना अपराध है। फसल अवषेष जलाने पर 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये रू. 2500/- प्रति घटना, 02 एकड़ से 05 एकड़ के लिये रू. 5000/-प्रति घटना, 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू. 15000/- प्रति घटना जुर्माना किया जायेगा।

तहसील स्तरीय समिति

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, ईओ नगरीय निकाय (सम्बन्धित तहसील) के सदस्य है। यह समिति तहसील क्षेत्र में फसल अवषेष प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों की सघन समीक्षा कर फसल अवशेष जलाये जाने सम्बन्धी घटनाओं को रोकने की रणनीति बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

जनपद स्तरीय समिति

एडीएम अध्यक्ष एवं एएसपी, डीडी कृषि जिला कृषि अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य बनाया गया। एडीएम की अगुवाई वाली यह सेल फसल कटाई से रबी की बुवाई तक आवश्यक मानीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी तथा प्रत्येक दिन अनुश्रवण करते हुए रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण विभाग), अपर मुख्य सचिव (कृषि), उप्र को प्रेषित करेगी।

कुटीर उद्योग पर लगाम लगा पाना आबकारी महकमे के लिये दूर की कौड़ी

जन एक्सप्रेस। अख्तर अली

निघासन-खीरी। तराई बेल्ट निघासन में आबकारी महकमे की ताबड़तोड़ छापेमारी से अवैध कच्ची शराब के धंधे में गिरावट दर्ज हुई है। कार्यवाई से मचे हड़कम्प में जहां पुराने शराब व्यवसाइयों ने अपने धंधे बदलने शुरु कर दिये हैं वहीं मदिरा के शौकीनों ने मेडिकल स्टोरों पर आसानी से मिलने वाली मार्फीन ड्रग्स का सहारा पकड़ लिया है। निघासन के गांजरी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। नदी, पोखर,तालाबों की संख्या जहां अधिक है वहीं झाड़ व जंगल से आच्छादित क्षेत्र की बहुतायत है। इसी का फायदा उठाकर कच्ची शराब बनाने के कुटीर उद्योग पर लगाम लगा पाना आबकारी महकमे के लिये दूर की कौड़ी है। निघासन क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार यादव संग आबकारी टीम ने सीमित संसाधनों के बावजूद दौलतापुर, मसुरहा, दलराजपुर, रामनगर, रमुआ पुर, पुरैना, कड़िया, खैरहनी, टांडा आदि दर्जन भर गांवों में शराब के बड़े कारोबारियों पर कार्यवाई करते हुये धंधा बदलने पर मजबूर किया है। गांव दौलता पुर के कैलाश, लक्ष्मी, मसुरहा के चुन्ना, केदारी, टांडा के पंचम ने शराब निष्कर्षण का धंधा छोड़ खेती करना मुनासिब समझा है। क्षेत्र के गांव लालबोझी, पुरैना, मदनापुर, दलराजपुर, डांगा, मुर्गहा के अधिकांश व्यवसाइयों ने हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल प्रदेशों में मजदूरी करने का ठिकाना खोज लिया है। स्थाई रूप से वाहन का न होना व उंगलियों की गिनती का आबकारी स्टाफ कच्ची शराब के व्यवसाय में कितनी और गिरावट दर्ज करायेगा यह अभी भविष्य के गर्त में है।

फास्ट फॉरवर्ड

जल जीवन मिशन के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन

जन एक्सप्रेस/मनोज कुमार मिश्रा/बिजुआ-खीरी। ब्लॉक बिजुआ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मूड़ा सवारान में जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम का आयोजन गांव के पंचायत भवन में किया गया जहां पर तमाम ग्रामवासियों के बीच मिशन के कर्मचारियों ने जागरूक करते हुए स्वक्षता और हर घर जल के बारे में डेमो करके बताया साथ ही यह भी बताया की यदि हम लोग साफ सफाई से रहेंगे तो बीमारियां दूर भागेगी और जल को लेकर हर घर नल जल योजना चलाई जा रही है जिसमें सभी को शुद्ध जल का लाभ मिलेगा जिससे बीमारियां कम होगी। इस कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान आरती देवी,प्रधान पति रंजीत यादव, मुकेश कुमार पंचायत सदस्य,सुनीता सक्सेना सहित ग्रामवासी मौजूद रहे।

आज मनाई जाएगी जन्माष्टमी

जन एक्सप्रेस/लखीमपुर खीरी। 06 सितम्बर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा।06 सितम्बर बुधवार को अष्टमी तिथि रात्रि 07:57 बजे से 07 सितम्बर को रात्रि 07:51 बजे तक,06 सितम्बर को रोहिणी नक्षत्र दोपहर 02:39 बजे से 07 सितम्बर को दोपहर 03:07 बजे तक रहेगा। 06 सितम्बर को मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि,रोहिणी नक्षत्र तथा बुधवार दिन मिल रहा हैं, इसलिए 06 सितम्बर बुधवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जयन्ती योग मनायी जाएगी।गृहस्थों के लिए 06 सितम्बर बुधवार को वृत भी किया जायेगा।07 सितम्बर को उदया तिथि की अष्टमी तिथि तो है,लेकिन रात्रि में अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र तथा बुधवार दिन नहीं मिल रहा हैं फिर भी औदायिक तिथि को मानने वाले वैष्णवजन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव एवं वृत 07 सितम्बर बृहस्पतिवार तथा गोकुल में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 07 सितम्बर बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा।

हापुड़ की घटना को लेकर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन

जन एक्सप्रेस/अख्तर अली/निघासन खीरी। बार काउंसिल आफ उत्तरप्रदेश के आवाह्न पर तहसील निघासन के वकीलों ने फूंका पुतला। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सर्वेश कुमार गुप्ता की अगुवाई में मगंलवार को तहसील कैम्पस से सिविल कोर्ट तक वकीलों ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला जिसमे हापुड़ डीएम और एसपी और सी ओ के खिलाफ जमकर नारे बाजी की सिविल कोर्ट से वापस आकर तहसील कैंपस के गेट पर मुख्य सचिव उत्तरप्रदेश और पुलिस महानिदेशक का पुतला फूंका साथ ही साथ वकील नारेबाजी करते रहे।आफिस के सामने धरना दिया।संघ के मंत्री हरिनंदन लाल यादव,अंकेक्षक मो नईम संयुक्त मंत्री हरिओम बाथम कार्यकरिणी सदस्य मायाराम चौधरी व शशिकांत पांडे सहित वकील डीके सिंह,ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव,रुपेश श्रीवास्तव,पंकज जयसवाल,रामकृष्ण चतुर्वेदी, पूर्व सयुक्त मंत्री आशीष कश्यप विवेक,श्रीवास्तव, श्यामबाबू यादव,रमेश कुमार,सुबोध कुमार पाण्डेय,उमाकांत जयसवाल, अख्तर अली मो इजहार,रवि गुप्ता अरुण गुप्ता रामप्रताप मौर्य,लवकुमार तिवारी लक्ष्मी नारायण,सोनेलाल,दीपचंद गुप्ता,जितेंद्र सिंह सोनेलाल लोधी आनन्द लोधी बच्चालाल,वीरेंद्र भदौरिया,डीपी सिंह,सर्वेशकुमार मिश्र प्रदीप कश्यप सहित सभी वकील में मौजूद रहे।

छह सितंबर को खीरी आएंगी कमिश्नर, करेंगी जनता दर्शन

जन एक्सप्रेस/लखीमपुर खीरी। जनपद में आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों का गुणवत्तापूर्वक प्रभावशाली ढंग से निराकरण, अनुश्रवण एवं समन्वय के लिए आयुक्त, लखनऊ मंडल डॉ रोशन जैकब 06 सितंबर को प्रात: 11 बजे से लेकर अपरान्ह 02 बजे के मध्य कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दर्शन कर जनता की समस्याओं को सुनेगी। आयुक्त के जनता दर्शन में आमजन की दैनिक जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याएं यथा बिजली, पानी, सड़क, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, जल निकासी, दैवी आपदा, वरासत, सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा, भूमि विवाद, विभिन्न प्रकार की पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन आदि के मामलो की सुनवाई की जाएगी। इस दिवस का आयोजन प्रभावी ढंग से एवं उच्च कोटि की संवेदनशीलता के साथ आम जनमानस की मूलभूत समस्याओं के सफल समाधान के दृष्टिगत किया जाएगा।

उप जिलाधिकारी ने बिशनपुरी गोशाला का किया औचक निरीक्षण

जन एक्सप्रेस। पलिया कलां खीरी

उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह के द्वारा क्षेत्र में लगातार हर बिंदुवार जाँच से क्षेत्र में शांति बनी हुई है आज दिनांक5 सितंबर को अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल बिशनपुरी का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी पलिया संगीता यादव पशु चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रीय तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे आश्रय स्थल में आश्रित पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी तथा निर्धारित समस्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने तथा मृत पशुओं के शवों का विहित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया और आश्रय गौशाला में पशुओं के हरे चारे के लिए गौशालय की साफ सफाई की जांच कर गौशाला के पशुओं के बेहतर रख रखाओ को भी निर्देशित किया।

नाबालिग छात्रा के साथ छात्र ने किया दुष्कर्म

जन एक्सप्रेस। आशीष कुमार तिवारी

गोला गोकर्णनाथ खीरी। कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ एक नाबालिग छात्र ने दुष्कर्म किया। इसका वीडियो भी अपने दोस्त से बनवा लिया। इस मामले में छात्रा ने पहले तो रेप का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी। बाद में दोनों पक्षों में शादी की बात पर समझौता होने पर पीड़ित छात्रा के परिजनों ने तहरीर वापस ले ली थी।बताते हैंबात नहीं बनी किशोरी के परिजनों ने दोबारा फिर तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है फिलहाल रेप का आरोपी पुलिस हिरासत में है।कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग छात्रा के साथ कोतवाली क्षेत्र के ही दूसरे गांव निवासी नाबालिग छात्र ने कुछ महीने पहले गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया। बताते हैं जिसका वीडियो उसके एक साथी ने बना लिया। कुछ दिनों बाद यह वीडियो वायरल होने पर जानकारी छात्रा के परिजनों को लगी तो उन्होंने आरोपी छात्र के खिलाफ रेप की तहरीर पुलिस को दी। छात्र व छात्रा अलग-अलग जाति के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला छेड़छाड़ में दर्ज कर मामले की छानबीन में जुड़ गई है पुलिस ने किशोरी के 61 के बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है इस संबंध में कोतवाल सुनील कुमार दुबे का कहना है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है जबकि पुलिस क्षेत्रधिकारी प्रवीण यादव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

पंपिंग सेट की मरम्मत करने गए पूर्व प्रधान का शव खेत में मिला

जन एक्सप्रेस। हरदोई

मल्लावां। पंपिंग सेट की मरम्मत के लिए जाने की बात कहकर रविवार को घर से निकले पूर्व प्रधान का शव सोमवार को चकरोड किनारे स्थित खेत में पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गए। शव के सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। एसपी राजेश द्विवेदी ने भी फोरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का जायजा लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के नरायनमऊ गांव निवासी गंगाराम (60) पूर्व प्रधान थे। वह पंपिंग सेट की मरम्मत का काम भी करते थे। रविवार की सुबह वह करवा निवासी संतोष सिंह के पंपिंग सेट की मरम्मत करने के लिए घर से निकले थे। साथ में उसका भतीजा पप्पू भी था। देर रात तक गंगाराम वापस नहीं आए, तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। सोमवार सुबह करवा गांव के निकट चकरोड किनारे मिश्री लाल के खेत में गंगाराम का शव पड़ा मिला। खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने शव देखकर गंगाराम के परिजनों को सूचना दी।

सूचना

मैने अपने पुत्र अतीउल्ला पुत्र जकरुल्ला निवासी वार्ड नम्बर (5)झाला सिंगाही नगर पंचायत सिंगाही को उसके गलत चाल चलन व दुर्व्यवहार से परेशान होकर उससे सबन्ध विच्छेद करते हुए अपनी सारी चल अचल सम्पति से बेदख़ल कर दिया यह अपने कृत्यों का स्वयं जिम्मेदार होगा।

19 को विराजेंगे विध्नहर्ता-सुखकर्ता श्रीगणेश, पत्रिका का हुआ विमोचन

जन एक्सप्रेस। हरदोई

वंशीनगर के 12वें श्रीगणेश महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार को गजानन सेवा समिति की पत्रिका का विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष व जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सहित समिति के पदाधिकारियों ने विमोचन किया। गजानन सेवा समिति के 12वें श्रीगणेश महोत्सव की व्यवस्थाओं को जुटाया जा रहा है। 19 सितंबर को विध्नहर्ता-सुखकर्ता श्रीगणेश वंशीनगर के महोत्सव में विराजेंगे। पत्रिका का विमोचन विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से समिति पदाधिकारियों के साथ किया।

खंभारखेड़ा चीनी मिल में शरदकालीन गन्ना बुवाई का हुआ शुभारंभ

जन एक्सप्रेस। शाजिफ हुसैन

लखीमपुर खीरी। बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड खंभारखेड़ा मिल क्षेत्र के ग्राम पिपरामरोड़ा में कृषक प्रवेश सिंह पुत्र राम नरेश द्वारा शरदकालीन गन्ना बुवाई का शुभारंभ किया गया। जिसमें कृषक द्वारा को.लख.14201 प्रजाति का गन्नाउ ट्रेंच विधि से बोया गया। मौके पर चीनी मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक (गन्ना) डॉ0 अनिल कुमार त्रिपाठी, सहायक महाप्रबंधक (गन्ना) राजेन्द्र सिंह, उप प्रबंधक (गन्ना) कमल कुमार, ज्ञानेंद्र दीक्षित (सुपरवाइजर) व अन्य कृषकगण आदि उपास्थित रहे।उपस्थित कृषकों को डा अनिल त्रिपाठी ने ट्रेंच विधि दूरी 4 फीट से बुवाई करने की सलाह दी यथा बुवाई के समय बीज शोधन, भू*खंभारखेड़ा चीनी मिल में शरदकालीन गन्ना बुवाई का हुआ शुभारंभ।बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड खंभारखेड़ा मिल क्षेत्र के ग्राम पिपरामरोड़ा में कृषक प्रवेश सिंह पुत्र राम नरेश द्वारा शरदकालीन गन्ना बुवाई का शुभारंभ किया गया। जिसमें कृषक द्वारा को.लख.14201 प्रजाति का गन्नाउ ट्रेंच विधि से बोया गया। मौके पर चीनी मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक (गन्ना) डॉ0 अनिल कुमार त्रिपाठी, सहायक महाप्रबंधक (गन्ना) राजेन्द्र सिंह, उप प्रबंधक (गन्ना) कमल कुमार, ज्ञानेंद्र दीक्षित (सुपरवाइजर) व अन्य कृषकगण आदि उपास्थित रहे। उपस्थित कृषकों को डा अनिल त्रिपाठी ने ट्रेंच विधि दूरी 4 फीट से बुवाई करने की सलाह दी तथा बुवाई के समय बीज शोधन, भूमि शोधन एवं संतुलित उर्वरकों के संबंध में विधिवत जानकारी दी गई।मि शोधन एवं संतुलित उर्वरकों के संबंध में विधिवत जानकारी दी गई।

साहित्य ही समाज को सही दिशा दे सकता है: नवीन द्विवेदी

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

साहित्य सदैव उद्देश्य पूर्ण होना चाहिये, क्योंकि साहित्य समाज को सही दिशा दे सकता है, यह विचार संस्सथान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी ने अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी के अवसर पर अपने उद्बोधन में व्यक्त किए गए। अन्नपूर्णा साहित्य संगम ने साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन शहर के जागेश्वर निवास तरीनपुर रोड निकट हरदोई चुंगी पर किया गया। संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी के संरक्षण में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महफूज़ रहमानी ने की, तथा संचालन राम किशोर श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। सुमन मिश्रा ने वाणी वंदना के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तदोपरांत महफूज रहमानी, अशोक मिश्र, राम किशोर श्रीवास्तव, यूनुस पैंतेपुरी, केपी मिश्र, डॉ सतीश चंद्र वर्मा, नफीस सीतापुरी, एपी गौतम, गीता किशोर श्रीवास्तव, रियाजुद्दीन रियाज, मालती देवी वर्मा, सुमन मिश्रा, सुरैया निकहत, रौनक सीतापुरी, आलोक कुमार, बृजेंद्र मिश्र आदि ने काव्य पाठ कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अंत में राष्ट्र गान के साथ सभा का समापन किया गया। राम किशोर श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त कर समापन की घोषणा की।

आईजीआरएस शिकायत पोर्टल निस्तारण पर सीतापुर के 14 थानों का प्रदेश में प्रथम स्थान

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री चक्रेश मिश्र द्वारा जनपद के समस्त थानो को जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रो की गुणवत्तापूर्ण जांच कर संलिप्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जनसमस्याओ के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। दिये गये निर्देशो के अनुपालन के क्रम में जनपद के समस्त थानो द्वारा प्राप्त ऑनलाइन प्रार्थना पत्रो का शीघ्रातिशीघ्र संतोषजनक निस्तारण कराया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रदेश स्तर पर जनपद सीतापुर के 14 थानो को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। ढ्ढत्ररू ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर विगत माह अगस्त में जनपद के महिला थाना, इमलिया सुल्तानपुर, रामपुर मथुरा, सिधौली, मछरेहटा, तंबौर, पिसावां, रामपुरकलां, खैराबाद, मानपुर, संदना, कोतवाली नगर, तालगांव, कमलापुर को प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त हुई है।



इंडियन बैंक द्वारा राजकीय इन्टर कॉलेज में कंप्यूटर लैब की स्थापना

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

देश के प्रमुख एवं जिले के अग्रणी बैंक इंडियन बैंक द्वारा आज जिलाधिकारी अनुज सिंह की गरिमामय उपस्थिति में राजकीय इन्टर कॉलेज सीतापुर में एक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, अंचल प्रमुख इंडियन बैंक सीतापुर अभिलाषित कौशल, जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक सीतापुर एवं प्राचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर उपस्थित रहे। अंचल प्रमुख इंडियन बैंक अभिलाषित कौशल ने कहा कि जिले के अग्रणी बैंक होने के कारण हमारा जिले के सर्वांगीण विकास हेतु दायित्व और अधिक बढ़ जाता है, हम न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में हमारी भूमिका का सफल क्रियान्वयन करने का प्रयास करते है, जिलाधिकारी के सुझाव पर इस तरह के सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस कंप्यूटर लैब से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।

'मनुष्य जीवन में शिक्षक का स्थान सबसे ऊंचा है और रहेगा'

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

शिक्षा का क्षेत्र समाज में सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन में शिक्षक का स्थान सबसे ऊंचा है और रहेगा, क्योंकि गुरू को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संज्ञा दी गयी है। गुरु एक ऐसा साधक है जो राष्ट्रहित के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर निरंतर राष्ट्रनिर्माण की साधना करता है। जीवन में गुरु का मार्गदर्शन मिलना वरदान के समान होता है। गुरु की उपस्थिति ही सभी समस्याओं का समाधान है। उक्त बातें सीता ग्रुप ऑफ एजूकेशन के शास्त्री सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में 325 शिक्षकों को सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक आश मौर्या ने कही। उन्होंने कहा कि जीवन का जयगान तभी संभव है जब आप अपने गुरु की छत्रछाया तले पनपते है। यदि आप अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं रह सकते तो आपको शिष्य कहलाने का कोई अधिकार नही है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एबीवीपी अवध प्रांत के आमंत्रित सदस्य रूपेश अवस्थी ने कहा कि गुरु अंधेरे में उजाला देने वाले उस दीपक के समान होते है जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अंधकार एवं अन्याय का अंत करना होता है। विशिष्ट अतिथि सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी एबीवीपी ऋषभ गुप्त ने कहा गुरु का अस्तित्व अडिग होता है, जिनसे ज्ञान की अविरल गंगा का उद्गम होता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक आशा मौर्या विशिष्ट अतिथि रूपेश अवस्थी व ऋषभ गुप्त द्वारा दीप प्रज्वलन, मां शारदे, भारत माता व राधा कृष्णन के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया। कालेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। अतिथियों का सम्मान संस्था के प्रधानाचार्य आरके वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, वाइस प्रिंसिपल आरजे वर्मा, आदर्श जायसवाल, अवनीश अवस्थी, अंशु गुप्ता द्वारा बैज अलंकरण, माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन अनूप सूरज व आभार प्रदर्शन संस्था के चेयरमैन आरके वाजपेयी ने किया।

मॉर्निंग वॉक को निकली सिपाही की पत्नी से बाइक सवार बदमाशों ने छीने बाले

जन एक्सप्रेस/उरई। सुबह शहर के चुर्खी जालौन बाईपास पर मॉर्निंग वॉक के लिए सिपाही की पत्नी के कान के बाले बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिए। जब तक महिला ने शोर मचाया तब तक बाइक सवार बदमाश मौके से भाग गए। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। पीड़ित सिपाही की पत्नी संतोषी निवासी पटेल नगर ट्यूबवेल संख्या 12 के निकट कोतवाली उरई ने बताया कि रोज की तरह वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तभी जैसे ही वह चुर्खी जालौन बाईपास के पास पहुंची, तभी पहले से ही घात लगाए खड़े बुलट बाइक सवार बदमाशों ने उसके बगल में गाड़ी लगाकर उसके कान के बाले छीन लिए। जब तक वह शोर मचाती तब तक बदमाश मौके से भाग गए।सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जेल चौकी इंचार्ज सोबरन सिंह ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला की बात सुन मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वही इस मामले को लेकर शहर कोतवाल जितेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है।

गांव में पसरी गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाया आरोप

जन एक्सप्रेस | सिरसा कलार

महेवा ब्लॉक के अभैदेपुर में पसरी गंदगी की मार झेल रहे ग्रामीण लामबंद हो गए। जिन्होंने गांव की साफ सफाई व पानी को लेकर ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

महेवा ब्लॉक के अभैदेपुर गांव में पसरी गंदगी व बूंद बूंद पानी की मार झेल रहे ग्रामीण मंगलवार को लामबंद हो गए। जिन्होंने ग्राम प्रधान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस दौरान मौजूद ग्रामीण पवन सिंह, जितेंद्र सिंह, उमा सिंह, संदीप सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान हेमलता तिवारी पर गम्भीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के बीचों बीच बड़ी माता मंदिर है।

जहां पर सुबह-सुबह लोग पूजा करने जाते हैं, जिन्हें कीचड़ युक्त रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो कीचड़ में गिरने के बाद बगैर पूजा अर्चना किए ही घर लौट जाते हैं।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जन सुनवाई में भी कई बार मंदिर का रास्ता सही कराने की मांग की गई, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध न ली। दूसरी तरफ गांव में नालियां पूरी तरह चोक पड़ी है, और गांव में सफाई कर्मचारी तैनात है, लेकिन किसी ग्रामीण ने अभी तक किसी भी सफाईकर्मचारी को गांव में सफाई करते हुए देखा तक नहीं है।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में केवल चार सरकारी हैंडपंप सही है। गांव की आबादी 3200 से ज्यादा है तथा गांव में लगभग 32 से ज्यादा सरकारी हैंडपंप लगे हुए है। बताया कि प्रत्येक माह ग्राम निधि से हैंडपंप रीबोर के लिए पैसे निकलते है, लेकिन कोई भी हैंडपंप सही नही होता है। पांच माह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी हैंडपंप रीबोर नही हुआ है। जब भी ग्राम प्रधान हेमलता से ग्रामीणों ने हैंडपंप सही करवाने के लिए कहा तो बजट न होने की बात बोलकर ग्रामीणों को वापस कर दिया जाता है। जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनप रहा है और उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने का मन बना लिया है।

नहर में बहते शव को देखकर मचा हड़कंप

जन एक्सप्रेस/सिरौलीगौसपुर-बाराबंकी। शारदा सहायक नहर में बहते शव को देख कर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बदोसरांय पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली बदोसरांय क्षेत्र में शारदा सहायक डबल नहर में मंगलवार को दोपहर में सिरौलीगौसपुर पुल के पास एक अज्ञात करीब 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बहता हुआ दिखाई दिया। नहर में बहते शव को देख पुल पर दर्जनों राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद शव बहता हुआ कसरैलाडीह झाल में जाकर फंस गया। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची बदोसरांय पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और उसकी पहचान कराने का प्रयास किया। किन्तु कोई पहचान न होने पर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। इस सम्बन्ध में कोतवाली प्रभारी गजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को निकलवाकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है।

फास्ट फॉरवर्ड

एक बजे रात तक चला रेस्क्यू, गुड्डू मृत अवस्था में बरामद

जन एक्सप्रेस/बाराबंकी। थाना फतेहपुर अंतर्गत काजीपुर दो मोहल्ले में दानिश अंसारी की 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई थी। मामले में एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें तेजी से बचाव कार्य में लग गई। जिसमें देर रात 1 बजे तक चले बचाव कार्य में घर में मौजूद सभी 17 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। जिसमें देर रात 12 बजे के करीब आफताब आलम उर्फ गुड्डू का शव मलबे में दबा हुआ मिला। जिसे पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में 4 मौतें हो गई है। वहीं 8 लोगों का उपचार लखनऊ केजीएमयू ट्रामा सेंटर में चल रहा है। इमारत क्यों गिरी, इसको लेकर रहस्य बरकरार है। कुछ लोगों का कहना है कि सिलेंडर के फटने से घटना हुई है। तो कुछ लोग बैटरी के फटने से घटना का होना बता रहे है।

शिकायत निस्तारण में बाराबंकी लखनऊ जोन में प्रथम, जनपद के 20 थाने प्रदेश में अव्वल

जन एक्सप्रेस/बाराबंकी। जनपद के आइजीआरएस प्रभारी डॉ अखिलेश नारायण सिंह की सक्रियता से पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण में जनपद को लखनऊ जोन में प्रथम व 20 थानों को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। यह ऐसा पहली बार नहीं है, जब आईजीआरएस प्रभारी एडिशनल एसपी की सक्रियता से जनपद के थानों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे पहले भी जनपद के थानों ने आइजीआरएस निस्तारण प्रक्रिया में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मंगलवार को आई जानकारी के मुताबिक फिर एक बार एएसपी की लगातार की गई मानिटरिंग सफल हुई और लखनऊ जोन में बाराबंकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ साथ ही 20 थानों को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। जिनमें कुर्सी, सफदरगंज, सतरिख, टिकैतनगर जैदपुर, कोतवाली नगर, जहांगीराबाद, फतेहपुर, कोठी, रामनगर, रामसनेहीघाट, असंद्रा, मसौली, हैदरगढ़, बड्डूपुर, घूंघटेर, महिला थाना, बदोसराय, देवा, दरियाबाद शामिल हैं। इन 20 थानों में से दरियाबाद ने सबसे अच्छा प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

आक्रोशित अधिवक्ताओं ने फूंका डीजीपी व मुख्य सचिव का पुतला

जन एक्सप्रेस/रामनगर-बाराबंकी। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर किए गए बर्बरता व लाठी चार्ज के विरोध में दूसरे दिन तहसील रामनगर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार दीक्षित की अगुवाई में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च कर मुख्य सचिव व डीजीपी का पुतला फूंक कर नाराजगी जताई। इस दौरान हाईवे पर जाम ना लगे और कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। यहां रामनगर बार एसोसिएशन महामंत्री अशोक उपाध्याय ने बताया की हापुड़ में महिला अधिवक्ता के साथ बीच सड़क पर सिपाही ने अभद्रता और छेड़छाड़ की गई। इसके बाद भी पुलिस ने फर्जी ढंग से अधिवक्ता व उनके पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। इतना ही नहीं शिकायत पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्रता की। जब तक अधिवक्ताओं पर फर्जी तरीके से लिखे गए मुकदमा वापस करने व संबंधित लोगो के ऊपर कारवाई नहीं की जाती है। तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर बार एसोसिएशन रामनगर के वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर मिश्रा पूर्व महामंत्री शिवप्रकाश अवस्थी, गौरी शंकर तिवारी, रामकुमार सोनी, सुरेश चंद्र मिश्रा, जयप्रकाश अवस्थी, शिवकुमार सिंह, रामचंद्र शुक्ल, कमलापति तिवारी, लवकेश शुक्ला, अपूर्व शुक्ला, उपाध्यक्ष कुलदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी, अवनीश मिश्रा, अरुण कुमार सिंह, परमहंस मिश्र, संदीप दीक्षित, मोहम्मद कासिम, अनिल वर्मा, आलोक श्रीवास्तव, अनूप पांडेय सहित सैकड़ो अधिवक्ता उपस्थित रहे।

सपा विधायक ने मृतक परिवारों को की 50 हजार की आर्थिक सहायता

जन एक्सप्रेस/रामनगर-बाराबंकी। बदोसराय थाना क्षेत्र में मार्च माह होली त्यौहार में दुर्घटना में मृतक चार परिवारों के परिजनों को मंगलवार को विधायक रामनगर फरीद महफूज किदवई ने 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद के रूप में चेक दिया। यह सहायता रामनगर विधायक और प्रतिनिधि लल्लन वर्मा के प्रयास से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वयं प्रदान किए है। बता दें कि बदोसराय कोतवाली क्षेत्र में होली के दिन सुबह एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क पर पैदल जा रहे चार किशोर को रौंद दिया था। दिल दहला देने वाले इस हादसे में तीन किशोर की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि चौथे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया था। एक साथ चार मौतों से परिजन सदमे में थे। यहां विधायक ने कहा कि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है लेकिन फिर भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में जितनी मदद हम से बन पड़ी है, वह हमने की है। वर्तमान सरकार में बैठे लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। इस अवसर मोहम्मद सबाह, राजेंद्र यादव, अंशुमन यादव, रहीम पूर्व प्रधान, शिवकुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष विजय यादव, जिला पंचायत सदस्य इंतकाम आलम नोमानी, सिविल मियां,पंकज यादव प्रधान तारापुर, अब्दुल सलाम, हाजी मुस्ताक, सतीश यादव, राकेश सिंह बीके सिंह अलादीन प्रधान आदि लोग उपस्थित रहे।

आज डाले जाएंगे वोट, रिक्त सीट पर उपचुनाव

जन एक्सप्रेस/सिरौलीगौसपुर-बाराबंकी। जिला पंचायत क्षेत्र तृतीय के लिए बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए मंगलवार को राजकीय इंटर कालेज सिरौलीगौसपुर से उपजिलाधिकारी विश्वामित्र सिंह की निगरानी में पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। विकास क्षेत्र सिरौलीगौसपुर में 35 एवं रामनगर के 38 बूथों पर बुधवार को वोट डाले जाएंगे। यहां से जिला पंचायत सदस्य रहीं शहनाज़ बानों की मृत्यु के बाद रिक्त हुई इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में 15 ग्राम पंचायतों के कुल 41500 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव मैदान में भाजपा एवं सपा सहित कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड रहे हैं। जिनके भाग्य का फैसला मतदान के जरिए जनता करेगी।

बच्चों ने केक काटकर मनाया शिक्षक दिवस

जन एक्सप्रेस/रामसनेहीघाट-बाराबंकी। शिक्षा क्षेत्र बनीकोडर के विभिन्न सरकारी तथा गैर शैक्षणिक संस्थानों में मंगलवार को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रपति डा. एस राधाकृष्णन को याद करते हुए शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। रामार्पित महाविद्यालय गाजीपुर कोटवा सड़क के निदेशक प्रांजल सिंह ने बताया कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र का निमार्ण करता अगर एक बार भी कड़ी टूट जाये तो समझो कि राष्ट्र टूट जायेगा। कृति पब्लिक स्कूल भगवानपुर, जानकी प्रसाद मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटवा में प्रबंधक चंद्र शेखर वर्मा ने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डा. एस. राधाकृष्णन से उनके एक छात्र ने जब 5 सितंबर के दिन उनका जन्म दिन मनाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि उनके जन्म दिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाये। जिसके बाद से 5 सितंबर 1962 से भारत में टीचर्स डे मनाया जा रहा है।

पत्रकार की सूझबूझ से एक बुजुर्ग की बची जान

जन एक्सप्रेस | कालपी

गृहकलह से परेशान बुजुर्ग युमना नदी में जा रहा था कूदने

कोतवाली के यमुना पुल से एक बुजुर्ग आत्महत्या करने की फिराक में यमुना ब्रिज की रेलिंग के उस पार बैठा था। उसी समय लक्ष्मी बाई पार्क में टहलने गए पत्रकार अमित कुमार यादव को जब इस बात की सूचना मिली, तो तत्काल प्रभाव से वह वहां मौके पर पहुंच गए । और समझा बुझा कर बुजुर्ग की जान बचा ली । गौरतलब हो कि गृहकलह से परेशान बुजुर्ग मोहनलाल पुत्र भागीरथ अहिरवार उम्र 60 बर्ष निवासी कागजीपुरा का बताया गया। जिसके दो पुत्र टेकचंद, राकेश एवं दो बेटियां है। मोहनलाल मंगलवार को सुबह यमुना पुल के ऊपर बार बार चक्कर काट रहा था। मॉर्निंग वॉक करते लोगों ने जब उसे संदिग्घ अवस्था में देखा तो उन्होने इस बात की सूचना पत्रकार अमित कुमार यादव को दी। जो पास में ही लक्ष्मी बाई पार्क में व्यायाम कर रहे थे। अमित यादव ने जब मौके पर जाकर देखा तो बुजुर्ग पुल की रेलिंग कूद कर यमुना नदी की तरफ लटका हुआ था। समय व्यर्थ ना करते हुए अमित यादव तुरंत बुजुर्ग के पास पहुंचे और समझा बूझकर उसे रेलिंग से खींच कर रोड की तरफ ले आए। बुजुर्ग ने कई बार हाथ छुड़ाकर यमुना में कूदने का प्रयास किया। लेकिन राहगीरों की मदद से जैसे तैसे पत्रकार उसे पुल के इस पार ले आए। पत्रकार ने अपने फोन द्वारा तत्काल कोतवाली प्रभारी शिवकुमार राठौर को इस बात की सुचना दी। जहां उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह की मौजूदगी में बुजुर्ग की सुपुर्दगी दी। कालपी पुलिस ने बुजुर्ग को अच्छी तरह से समझा बूझाकर संतुष्ट कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही बेटे को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बुजुर्ग को अब परेशान ना किया जाए। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहना।

लाइन ठीक करते समय झुलसा लाइनमैन, हालात गंभीर

जन एक्सप्रेस/कुठौंद। थाना के ग्राम बरियापुर निवासी हरिशंकर बिजली विभाग में लाइन मेन के पद पर कार्यरत है। मंगलवार को लाइन मेन ईटों सब स्टेशन से सिंगटौली फीडर के मध्य बिजली की लाइन खराब होने पर उसे सट डाउन लेकर ठीक कर रहा था। तभी किसी ने अचानक से लाइन को चालू कर दिया। जिससे हरिशंकर को तेजी के साथ करंट लग गया। तेजी के साथ करंट लगने से लाइन मेन ऊपर से जमीन पर गिर पड़ा। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में उसे मेडिकल कालेज ले जाया गया। जहां नाजुक हालत होने पर चिकित्सक ने झांसी के लिए रेफर कर दिया।

G20 उत्तर रेलवे आज़ादी का अमृत महोत्सव

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य अभियंता/सेतु कर्मशाला, उत्तर रेलवे चारबाग, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर निम्नलिखित कार्य हेतु अनुभवी एवं स्थापित सक्षम ठेकेदारों द्वारा ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है।

1	**निविदा सं.** : 17/डब्लू/बीडब्लूएस/सीबी/2023-24 **कार्य का नाम** : एलकेओ-सीएनबी अनुभाग में पूल सं. 108 डाउन (1x45.7 मीटर ओ डब्लू जी), 109 डाउन (1x45.7 मीटर ओ डब्लू जी के एबेटमेंट पर रिवेटिंग/ एचएसएफजी बोल्टिंग द्वारा स्टील गार्डर की असेंबली और साइड स्लीव लॉन्चिंग, और बीबीके-ऐबाईसी अनुभाग के दोहरीकरण के संबंध में पूल सख्या 382 ए (1x30.5 मीटर ओ डब्लू जी), 382 बी (1x30.5 मीटर ओ डब्लू जी) और 433 (1x30.5 मीटर ओ डब्लू जी) एबेटमेंट और पीयर्स पर रिवेटिंग/एचएफएफजी बोल्टिंग द्वारा स्टील गार्डर की असेंबली और एंड लॉन्चिंग और आरसीसी बॉक्स पुशिंग केएम 2/4-5 (एनसीआर) के लिए आर ओ आर-4 की साइट पर अनुमोदन लॉन्चिंग योजना के अनुसार क्रेन के साथ सुरक्षा स्क्रीनप्ले व्यवस्था का निर्माण, लॉन्चिंग और डी लॉन्चिंग, जिसमें साइट के पास फैब्रिकेशन यार्ड का विकास, सड़क क्रेन की व्यवस्था करना शामिल है और एसएच-एमकेजी स्वतंत्र बाईपास लाइन कार्य के संबंध में सभी क्रॉसिंग सहित अन्य विविध कार्य
2.	**अनुमानित लागत** : रु. 5,11,01,220.22
3.	**बोली सुरक्षा राशि** : रु. 4,05,600.00/-
4.	**कार्य की समापन अवधि** : स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि से 12 माह
5.	**निविदा डालने की प्रारम्भिक तिथि** : 15.09.2023
6.	**निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं निविदा खुलने की तिथि तथा समय:** निविदा 29.09.2023 को 15.00 बजे तक जमा किए जा सकेंगे एवं निविदा उसी दिन खोली जायेगी।
7.	**न्यूनतम पात्रता की शर्तें:**
अ	**तकनीकी** : (ए) निविदाकार ने पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा या पर्याप्त रूप से पूरा किया हो, जिस महीने में निविदा आमंत्रित की गयी थी, उससे पहले के महीने के अन्तिम दिन को समाप्त करना होगा। तीन समान कार्य जिनकी लागत, निविदा की विज्ञापित मूल्य के **30 प्रतिशत** के बराबर राशि से कम न हो। **या** दो समान कार्य जिनकी लागत, निविदा की विज्ञापित मूल्य के **40 प्रतिशत** के बराबर राशि से कम न हो। **या** एक समान कार्य की लागत, निविदा के विज्ञापित मूल्य के **60 प्रतिशत** के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
ब	**वित्तीय** : निविदाकर्ता का न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार **V/N** (वी/एन) या **'V'**(वी) जो भी कम हो जहाँ **V** (वी) = निविदा की विज्ञापित मूल्य करोड़ रूपये में। **N** (एन) = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गयी है। औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल संविदात्मक भुगतान के औसत के रूप में की जायेगी, लेखा परीक्षित बैलेन्स शीट के अनुसार। तथापि, यदि पिछले वर्ष का तुलन-पत्र अभी तक तैयार/लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र पर विचार किया जाएगा।
8.	**एक समान कार्य** : रनिंग ट्रैक में गर्डरो थ्रू गर्डरो, प्लेट गर्डरो, एफओबी इत्यादि का फेब्रीकेशन, सप्लाई, असेंबली, इरेक्शन, लान्चिंग/रिगर्डरिंग इत्यादि।
9.	**वेबसाइट का विवरण एवं कार्यालय का नाम जहाँ निविदा का विवरण देखा जा सकता है** : www.ireps.gov.in कार्यालय उप मुख्य अभियन्ता/से. कर्म., उत्तर रेलवे चारबाग, लखनऊ।

नोट:- 1. ठेकेदारों को ई-निविदा सिस्टम में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। 2. समस्त नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है। 3. मैनुअल निविदायें स्वीकृत नहीं की जायेगी। 4. निविदा प्रपत्र की लागत जो निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट किया गया है। 5. बोली सुरक्षा राशि का भुगतान सिर्फ नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे या बैंक गारंटी जैसा कि निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट किया गया है, द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

सं.: 17/डब्लू/बी.डब्लू.एस/सी.बी./2023-24 दिनांक: 01.09.2023 2744/2023

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय का हुआ शुभारंभ

जन एक्सप्रेस | कालपी

पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करना सबसे बड़ा पुनीत धर्म है। इसलिए सभी लोग को जरूरतमंदों की सहायता के लिए अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। आयुर्वेदिक औषधालय के रूप में जो कार्य शुरू हुआ है, वह प्रेरणादायक है यह उदगार वरिष्ठ समाजसेवी कैलाश स्वरूप बाजपेई ने व्यक्त किये।

नगर के मोहल्ला गणेशगंज में बड़ेरिया फार्मा के प्रो. अतुल कुमार गुप्ता के तत्वाधान में उनके पूज्य पिता स्व.सुरेन्द्र नाथ गुप्ता (कक्का जी) की याद में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सुरेंद्रनाथ आयुर्वेदिक औषधालय का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता शरद श्रीवास्तव तथा जाने-माने उद्योगपति राजकुमार पतारा ने बताया

कि औषधालय खुलने से कालपी की जनता एवं क्षेत्र के मरीज लाभान्वित होंगे। जनता को इसका फायदा मिलेगा।

नव स्थापित औषधालय के संचालक अतुल गुप्ता सिंटू ने अवगत कराया की धर्मार्थ हेतु डॉक्टरों द्वारा निशुल्क जांच, निशुल्क परामर्श व रोगियों को निम्न दरों पर औषधियों का लाभ मिलेगा। इस मौके पर कैलाश स्वरूप बाजपाई, कल्लू ठाकुर, अमित पांडेय, मनोज पांडेय, रविन्द्र नाथ गुप्ता, भारत सिंह यादव, जयवीर सिंह यादव एडवोकेट, सुनील गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के अवसर पर औषधालय में आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. कंचन सिंह, डॉ. आफताब आलम के द्वारा मरीज का इलाज किया गया। चिकित्सालय में सुबह तथा शाम को दो-दो घंटे मरीज का उपचार किया जाएगा तथा जांच में छूट प्रदान की जाएगी।

कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक का निधन

जन एक्सप्रेस | माधौगढ़

रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी निवासी हवलदार जगरूप सिंह कुशवाहा पूर्व सैनिक थे। बताया गया कि उन्होंने सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध में भाग लिया था। जो लंबी बीमारी से पीड़ित थे, और बीमारी के चलते उनका मंगलवार को निधन हो गया। जिनके निधन की सूचना पाते ही पूर्व सैनिकों में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने उन्हें राष्ट्रध्वज के साथ अंतिम सलामी दी। इस दौरान पूर्व सैनिकों में टीम के कैप्टन अखिलेश नगायच के साथ हवलदार योगेंद्र सिंह सेंगर,

हवलदार वेद कुमार द्विवेदी, हवलदार राघवेंद्र सिंह सेंगर, हवलदार रविंद्र सिंह राठौर, हवलदार सुनील कुमार विश्वकर्मा, सूबेदार उदय पाल सिंह, नायब सूबेदार राधेश्याम दोहरे, हवलदार सुनील सिंह गुर्जर, हवलदार राजकुमार वर्मा, हवलदार जितेंद्र, सरदार सिंह, हवलदार अमर सिंह, हवलदार दीपेश सिंह राजावत, हवलदार जितेंद्र कुमार गुबरेले सहित भारी संख्या में पूर्व सैनिक और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा किशोर

जन एक्सप्रेस/कालपी। कदौरा क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर में बकरी चराते समय किशोर की लाठी हाईटेंशन लाइन से छू गई। जिससे वह करंट की चपेट में आकर घायल गया। जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर निवासी सोहित 10 वर्ष पुत्र नृपत मंगलवार की दोपहर घर से बकरी चराने गया था। तभी समीप से निकली हाईटेंशन लाइन से उसकी लाठी छू गई। जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और गम्भीर रूप से झुलसकर वहीं गिर गया। घटना देख मौजूद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों ने परिजनों को जानकारी दी। मौके पर पंहुचे परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां पर इलाज चल रहा है।

आईएएस मृदुल चौधरी ने संभाली जिले की कमान कोषागार कार्यालय पहुंच किया कार्यभार ग्रहण

जन एक्सप्रेस | महोबा

नवागंतुक डीएम ने कोषागार कार्यालय पहुंच कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मंगलवार को अधिकारियों-कर्मचारियों से बैठक करके वार्ता कर महोबा की भौगोलिक वर्तमान स्थिति के बारे में जाना। जिले में संचालित विकास कार्यों एवं योजना, परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। डीएम ने कहा कि जिला महिला/पुरूष चिकित्सालय में मरीजों के इलाज को लेकर व्यवस्थाओं को और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। शासन द्वारा चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही जनसमस्याओं का गुणवत्ता पूर्वक त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि महोबा को विकास के रास्ते पर और आगे लेना जाना तथा शासन की योजनाओं पर सरकार की मंशानुसार काम करना मेरी प्राथमिकता होगी।

परियोजना प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ पद से स्थानांतरित होकर महोबा आये 2014 बैच के आईएएस मृदुल चौधरी ने मंगलवार को सीधे कलक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने नवागत जिलाधिकारी मृदुल चौधरी को गुलदस्ता एवं पुष्प भेंट किये। यहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर वह कोषागार पहुँचे। यहां विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों से जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। और फिर उपस्थित सभी अधिकारियों का एक एक कर परिचय प्राप्त किया।

गौरतलब है कि आईएएस मृदुल चौधरी जनपद महोबा में पूर्व में भी ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रह चुके हैं।

मनरेगा निदेशक ने जानी विकास कार्यों की जमीनी हकीकत

जन एक्सप्रेस | बाराबंकी

मनरेगा की जमीनी हकीकत देखने निदेशक मनरेगा अपनी तीन आयुक्त की टीम सहित मंगलवार को रामनगर ब्लाक के कन्हौली गांव पहुंचे। सर्वप्रथम यहां टीम ने अमृत सरोवर में सौंदर्यीकरण व पौधरोपण सहित कराए जा रहे अन्य विकास कार्यों की सच्चाई जानी। फिर चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें निस्तारण करने का आश्वासन दिया। लगभग दो घंटे चले गांव के निरीक्षण में डीसी मनरेगा, बीडीओ एडीओ व ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रामनगर ब्लाक की ग्राम पंचायत कन्हौली में प्रोजेक्ट के तौर पर कराए जा रहे विकास कार्यों की सच्चाई को नजदीक से देखने मनरेगा निदेशक अन्य अधिकारियों के साथ मंगलवार को यहां पहुंचे। निदेशक मनरेगा भारत सरकार धर्मवीर झा, प्रोग्राम ऑफिसर किरण चरन पांणी व किरन पी माली, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा लखनऊ दिनेश कुमार यादव सहित श्रम उपायुक्त बृजेश कुमार त्रिपाठी ने ग्राम मलौली

में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों से विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन मनरेगा मजदूरी व बकरी पालन के बारे में सघनता से जानकारी दी। जिसमें ग्राम प्रधान महेंद्र नाथ गुप्ता ने आधार बेस पेमेंट की जानकारी कर 100 दिन पूर्ण करने वाले मजदूरों का बेवरा जाना। जिन जॉब कार्ड धारकों के आधार सीट नहीं थे उनकी समस्या का निदान बताया गया। यहां लोगों ने अधिकारियों से बताया कि पंजाब नेशनल बैंक सहादतगंज से केवाईसी होने में दिक्कत हो रही है। वहीं रोजगार सेवक व मेट से इस महीने हुए कार्यों की जमीनी हकीकत को परखा। यह ग्रामीणों ने टीम से पीएम आवास दिलाने व जॉब कार्ड बनवाने सहित अन्य मांग की है। जिस पर तत्काल टीम ने ग्रामीणों की बताई गई समस्या को बीडीओ को जल निस्तारण के निर्देश दिए है। इससे पूर्व बीडीओ अमित कुमार त्रिपाठी ने मनरेगा निदेशक को गांव में कराए गए विकास कार्यों की एक तस्वीर भेंट की। इस मौके पर जेई आरईडी पी के गौतम, एपीओ राघवेंद्र पांडेय,एडीओ पंचायत राम आसरे, जेई एमआई प्रमोद तिवारी, बीडीओ पूरे डलई ज्ञानेंद्र कुमार, सचिव विजय कुमार, ऋषभ पांडेय, अखिलेश दुबे, विनय चतुर्वेदी, दयानंद, बीना चतुर्वेदी, तकनीकी सहायक सर्वजीत सिंह राजेंद्र प्रसाद व बड़ी संख्या में अन्य ब्लाक कर्मचारियों का क्षेत्र है।

शीघ्र शुरू होगा मेडिकल कॉलेज का सैटलाइट सेंटर डीएम ने शीघ्र संचालन शुरू करने के लिए किया निरीक्षण

❋ डीएम ने सभी जरूरी मानकों को पूरा करने के लिए किया निर्देशित

जन एक्सप्रेस। बलरामपुर

जनपद मुख्यालय पर केजीएमयू का सैटलाइट सेंटर बनकर तैयार हो चुका है और इसे शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के शीघ्र संचालन के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने निरीक्षण किया और सभी मानको को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया।

सैटेलाइट सेन्टर को प्रारंभ किए जाने के लिए उन्होंने विभिन्न मानकों को पूर्ण किए जाने का जायजा लिया। उन्होंने जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, चिकित्सकों के कक्ष आदि का निरीक्षण किया। कार्यदाई संस्था को सेटेलाइट सेंटर का संचालन हेतु सभी आवश्यक मानक पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया गया।

इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा सैटलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज में तब्दील किए जाने हेतु मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए कॉलेज के लिए जमीन अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाए जाने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील कुमार, सीएमएस संयुक्त जिला चिकित्सालय व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

विद्यालय से कटहल के हरे पेड़ काटकर उठा ले गए चोर

जन एक्सप्रेस। अयोध्या

थाना महाराजगंज के अंतर्गत प्रा. बालिका विद्यालय मड़ना शिक्षा क्षेत्र पूराबाजार में स्थित दो कटहल के हरे पेड़ चोरी से काटकर उठा ले जाने के संबंध में पीड़ित अनंत राम सिंह ने थाने में दी तहरीर , तहरीर में कहा गया है कि पीड़ित ग्राम मड़ना थाना महराजगंज तहसील सदर जिला अयोध्या का स्थाई निवासी है। पीड़ित के गाँव में संचालित प्राथमिक बालिका विद्यालय मड़ना शिक्षा क्षेत्र पूराबाजार तहसील सदर जिला अयोध्या में दो फलदार कटहल के पेड़ करीब 25 वर्ष पुराने थे। 31 अगस्त 2023 को उपरोक्त दोनो हरे पेड़ो को बिना अनुमति चोरी से गाँव की प्रधान मनता यादव पत्नी अरविन्द कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि ओम काश यादव तथा प्रधान पति अरविन्द कुमार यादव ने कटवा कर गाँव के राम धीरज पुत्र रामआसरे व हृदयराम पुत्र के के हाथ लकड़ी बेच दिया है। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रधानाध्यापक से सम्पर्क कर कार्यवाही व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहने पर प्रधानाध्यापक टाल मटोल कर रहे है और बातचीत कर मामले को रफादफा करने पर आमादा है जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्यालय की संपत्ति की चोरी में प्रधानाध्यापक भी संलिप्त है यदि त्वरित कार्यवाई की जाय तो दोनो पेड़ो की बेची गयी लकड़ी बरामद हो सकती है। विपक्षीगण ने चोरी करके सरकारी सम्पत्ति कटहल की लकड़ी काटकर बेच दिया है जो कानून अपराध है।

नगर पालिका के डोर-टू-डोर वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

जन एक्सप्रेस। बलरामपुर

नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान शुरू किया गया है । इस अभियान के तहत नगर पालिका के वाहन सभी 25 वार्डों में जाकर कूड़ा कलेक्शन करेंगे। इस कूड़ा कलेक्शन वाहन को जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।

बताते चलें कि इस नई डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को 35 विशेष सफाई कर्मियों की टीम के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र को साफ

सुथरा एवं स्वच्छ रखने के लिए शहर के सभी वार्डों में एक-एक सफाई नायक तथा आठ सफाई कर्मियों की टीम लगाई जाएगी। साथ ही साथ चारों मुख्य मार्ग व मुख्य बाजार के लिए पांच अलग-अलग सफाई की टीम लगाई जाएगी।

इसके अलावा दो स्पेशल सफाई की टीम भी तैयार की गई है। जो इमरजेंसी कार्यो के लिए रिजर्व में रखी जाएगी। तीन सफाई टीमें सरकारी भवनों, बैंक, होटल आदि से निकलने वाले प्रतिदिन कूड़ा लेने के लिए लगाई जाएगी। इसके साथ ही 25 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा लेने के लिए सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति की गई है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजमणि वर्मा, सुरेश गुप्ता व अन्य संबंधित अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

हापुड़ कांड के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया पुतला दहन

जन एक्सप्रेस। अयोध्या

बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या के तत्वाधान में हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज के विरोध में बार एसोसिएशन अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में हजारों अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मुख्य सचिव, डीजीपी व एडीजीपी का बार एसोसिएशन कार्यालय के सामने पुतला दहन किया गया, प्रशासन के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी, इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष पंडित कालका

प्रसाद मिश्र ने कहा कि बार काउंसिल के अगली रणनीति का इंतजार, कल के आंदोलन पर बार काउंसिल की रणनीति का इंतजार,

पुतला दहन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से, महामंत्री सूर्य नारायण सिंह, विजय कुमार द्विवेदी, जितेंद्र श्रीवास्तव, विपिन कुमार मिश्रा सोमनाथ तिवारी, विजय बहादुर सिंह मानवेंद्र दुबे, उपेंद्र कुमार मिश्रा, हिमांशु श्रीवास्तव, हिमांशु वर्मा, मनीष कुमार पांडेय, राजीव कुमार शुक्ला, अखंड यादव, कप्तान सिंह, विरेंद्र कुमार शर्मा, शैलेंद्र त्रिपाठी, अमन श्रीवास्तव प्रमोद शंकर पांडेय , अजय वर्मा, वी के शर्मा, राकेश वैद्य रघुवंश वर्मा मनोज कुमार सिंह, रोहित मल्होत्रा, प्रदीप गुप्ता लाल जी गुप्ता, रवीन्द्र पांडेय, साहित्य सैकड़ो की संख्या में अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।

'देश बचाओ-देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा का पूरे महानगर व अयोध्या विधानसभा में करेंगे स्वागत'

जन एक्सप्रेस। अयोध्या

समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिषेक यादव के नेतृत्व में चल रही देश बचाओ-देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा के संबंध में तैयारी शुरू कर दी है, महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम ने बताया कि यात्रा का आगमन 8 सितंबर दिन शुक्रवार सुबह 10 बजे सहादतगंज से शुरू होगा जिसका स्वागत महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय द्वारा किया जायगा। यात्रा सहादातगंज, उसरू रायबरेली रोड, नाका, पंडित दीन दयाल नगर, देवकाली चौराहा, शहनावां चौराहा, तकपुरा, व अयोध्या विधासभा अध्यक्ष रक्षा राम यादव के नेतृत्व में दर्शननगर चौराहा, कुढ़ाकेशवपुर तिराहा सूर्य कुण्ड, पाराखान चौराहा, रामपुर हलवारा, सारायरसी, राजेपुर, मुड़ाडीहा, पूरा बाजार, कुड़की, ताहीरपुर, बाकड़गंज, जाएगी जहां जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण व प्रभारीगण स्वागत करेगें। साइकिल यात्रा के संबंध में 6 सितंबर को महानगर कार्यालय में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है जिसमें सायकिल यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी।

रोते-बिलखते रहे लोग, दुकानों पर चलता रहा बुलडोजर

जन एक्सप्रेस। मिल्कीपुर- अयोध्या

कुमारगंज थाना क्षेत्र के गिरजा मोड पर लगभग 20 वर्षों से सड़क के किनारे अस्थाई तौर से दुकान बनाकर अपनी जीविका चला रहे दुकानदारों के आशियाने को कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर ध्वस्त करा दिया ।कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आनन फानन में की गई इस कार्यवाही से सभी दुकानदारों और उनके परिवार सदमे में है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्रभावित दुकानदार सांसद, विधायक, कुलपति वा कृषि मंत्री से गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। जमीन के जिस बात पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है उसकी नवियत के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है ।यक्ष प्रश्न यह है कि जब कृषि विश्वविद्यालय की बाउंड्री लाइन बनी हुई है तो सड़क के किनारे उसकी जमीन कहां से आ गई जिस पर आज तक किसी कुलपति ने कोई कार्यवाही नहीं की और आज एकाएक इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया । कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सड़क के किनारे के जिस जमीन को अपना बताया जा रहा है उसी के चौराहे पर

पूर्व कुलपति डॉ आर एस कुरील द्वारा गेट नंबर दो लगवाया गया था और तब पीडब्ल्यूडी की आपत्ति पर कृषि विश्वविद्यालय को अपना गेट हटवाना पड़ा था । कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की यह कार्यवाही लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है।कस्बा कुमारगंज निवासियों ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि दुकानदारों पर की गई है यह कार्रवाई कस्बा कुमारगंज के कई बड़े व्यापारियों एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की साठ गांठ से हुआ है उनका कहना है कि कुमारगंज बाजार में कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी बड़े तथा संपन्न ग्राहक के रूप में माने जाते हैं इन ग्राहकों के इसी भाग में रुक जाने से कस्बा कुमारगंज के बड़े व्यापारियों में बहुत पहले से खलबली मची थी उनका धंधा चौपट हो रहा था । और इस कार्यवाही से सबसे बड़ा लाभ इन्हीं व्यापारियों को होने जा रहा है। विगत सोमवार की शाम 8 बजे जब ध्यास्तिकरण की कारवाही चल रही थी तो बुलडोजर की चपेट मे आने से कृष्ण देव नाम का व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका मेडिकल कॉलेज अयोध्या में इलाज चल रहा है। विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी आरके सिंह ने बताया की यह जमीन विश्वविद्यालय की है कर्मचारियों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी इसलिए दुकानदारों को हटाने की कार्यवाही की गयी है।

सीमावर्ती गांवों में आधार अपडेशन के लिए संचालित होगा अभियान

जन एक्सप्रेस। बहराइच

देश के सीमावर्ती जनपदों में अनाधिकृत रूप से रह रहे अथवा प्रवासियों (माइग्रेट) द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनवाने तथा इसके माध्यम से भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के प्रयास किये जाने के प्रकरण सामने आए हैं। ऐसे प्रयासों पर प्रभावी अंकुश के लिए प्रदेश के 08 सीमावर्ती जनपदों के चयनित 22 विकास खण्डों में दस्तावेज़ों को अपडेट किये जाने का कार्य किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड मिहींपुरवा व नवाबगंज में व्यस्क निवासियों के आधार में दस्तावेज़ अपडेट कराया जाना है।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि सीमावर्ती विकास खण्डों में 18 वर्ष से अधिक आयु के (व्यस्क) निवासियों के आधार में दस्तावेज अपेडट किये जाने हेतु डोर-टू-डोर सर्वे हेतु ग्रामवार टीम का गठन किया जायेगा।

प्रत्येक टीम में एक आशा अथवा आंगनबाडी कार्यकत्री, एक लेखपाल अथवा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी तथा एक पुलिस आरक्षी सम्मिलित किये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों के लिए गठित टीम में ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के स्थान पर सम्बन्धित नगरीय निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जायेगा। डीएम ने बताया कि गठित टीमों को आधार सर्वे के प्रशिक्षण हेतु सीमावर्ती विकास खण्डों मिहीपुरवा व नवाबगंज में 04-04 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित किया जायेगा। मास्टर ट्रेनर्स को यूआईडीएआई द्वारा आधार में दस्तावेज अपडेट करने के कार्य, पते का प्रमाण (पी.ए.ओ.)/पहचान का प्रमाण (पी.ओ.आई.) के रूप मे निवासियों से देखे जाने वाले दस्तावेजों तथा डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान प्रपत्रों को भरे जाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स गठित टीमों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर सर्वे की व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगे।

प्रशिक्षण के पश्चात दस्तावेज अपडेशन हेतु डोर-टू-डोर सर्वे हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में निर्धारित स्थानों पर 10 आधार नामांकन किट्स को कैम्प मोड में संचालित किया जायेगा। सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा कैम्प मे पीओआईपीओए हेतु मान्य दस्तावेजों की अद्यतन सूची तथा आधार सेवाओं के लिये निर्धारित शुल्क का विवरण उपलब्ध/प्रदर्शित किया जायेगा। टीम द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान परिवार का विवरण निर्धारित प्रपत्र-बी में भरा जायेगा। सम्बन्धित एसडीएम द्वारा इस कार्य की साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जाएगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र में निवासित कोई भी व्यस्क व्यक्ति छूटा नहीं है।

डेंगू व मलेरिया से बचाव को लेकर नगर पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई, फॉगिंग शुरू

जन एक्सप्रेस/रुपईडीहा,बहराइच। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर वैश्य की अगुआई में शहर के बस स्टैंड अस्पताल रोड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डेंगू व मलेरिया से बचाव हेतु दवा का छिड़काव किया गया। बारिश व जल जमाव के बीच मंडरा रहे डेंगू, मलेरिया समेत अन्य मच्छर जनित रोगों के खतरे से बचाव को लेकर नगर पंचायत में साफ सफाई और फॉगिंग का कार्य शुरू किया गया है । गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसको लेकर नपा काफी अलर्ट मोड में है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर वैश्य ने लोगों से अपील की वे अपने घरों में कूलर, टंकी, फ्रीज के नीचे वाली ट्रे,गमले आदि को अच्छी तरह साफ करें तथा सूखने के बाद ही पानी भरें। इसके अतिरिक्त घर पर छत के ऊपर किसी प्रकार के कबाड़, पुराने टायर, मटके को भी साफ कर ढक कर रखें। ताकि किसी भी परिस्थिति में घर के परिसर में जल जमाव नहीं हो।

जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए की अपील

जन एक्सप्रेस। बहराइच

जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपदवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी नागरिकों से अपील की है कि 11 से 16 सितम्बर तथा 09 से 14 अक्टूबर 2023 तक संचालित होने वाले सघन मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय चरण में छूटे हुए 0-5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराकर बच्चों को 11 जानलेवा बीमारियों (टीबी, पोलियो, डायरिया, निमोनिया, काली खांसी, गलाघोंटू, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, खसरा एवं रूबेला आदि) से सुरक्षा कवच प्रदान करें।

डीएम मोनिका रानी ने बताया कि जनपद में 07 से 12 अगस्त, 2023 तक संचालित हुए प्रथम टीकाकरण अभियान की भांति 11 से 16 सितम्बर 2023 तथा 09 से 14 अक्टूबर 2023 तक संचालित होने वाले द्वितीय एवं तृतीय चरण में भी रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन जिला अस्पताल सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं टीकाकरण हेतु निर्धारित सत्र स्थल पर यह सभी टीके निःशुल्क लगाये जायेंगें।

डीएम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपने 0-5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सत्र स्थल पर ले जाकर उनका टीकाकरण अवश्य करवायें। यह टीके पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण हेतु आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व एएनएम द्वारा आपको नियत टीकाकरण सत्र स्थल की सूचना भी उपलब्ध करायी जायेगी। डीएम ने बताया कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर सभी गर्भवती महिलाओं की जांच निःशुल्क की जाती है। नजदीकी आशा या आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सम्पर्क कर सकते हैं।

फास्ट फॉरवर्ड

नेपाल के सीमावर्ती गावों में मिलेगी मुफ्त डीटीएच की सुविधा

जन एक्सप्रेस/बहराइच। भारत सरकार के दूरदर्शन विभाग के प्रसार भारती द्वारा जनपद बहराइच के सीमावर्ती विकास खण्डों मिहीपुरवा व नवाबगंज में भारत-नेपाल सीमा पर 0-10 कि.मी. की परिधि मे अवस्थित ग्रामों में निःशुल्क डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) डिश सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि विकास खण्ड स्तर पर सम्बन्धित बीडीओ एवं ग्राम स्तर पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्राम स्तरीय नोडल नामित करते हुए लाभार्थियों के नाम आनलाईन पोर्टल पर 07 सितम्बर 2023 तक प्रत्येक दशा मे फीड किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। डीएम ने बताया कि आनलाईन पोर्टल पर नाम दर्ज हो जाने के तत्पश्चात चरणबद्ध तरीके से प्रसार भारती द्वारा डी.टी.एच. की सुविधा दी जायेगी। योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थियों का ही चयन किया जाएगा जिनके पास टीवी है परन्तु डीटीएच की सुविधा उनके घर पर नहीं है। योजना के तहत ब्लाक मिहींपुरवा व नवाबगंज हेतु कुल 1464 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीएम ने बताया कि डीटीएच की सुविधा प्राप्त होने पर सैटेलाइट चैनलों के जरिये सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों का सम्पर्क बाहरी दुनिया से हो सकेगा।

एकल विद्यालय की बहनों को शिक्षण सामग्री का हुआ वितरण

जन एक्सप्रेस/गोसाईंगंज-अयोध्या। भारत शिक्षा लोक परिषद द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रो में संचालित शिक्षा के क्षेत्र में एकल विद्यालय जो गांव के गरीब वर्ग के बच्चों को और जो विद्यालय नही जा जाते उनको अनिवार्य शिक्षा देने का काम करते जिसके द्वारा गांव गांव में 1 आचार्य या आचार्या का चयन किया गया इसी कड़ी में आज मया ब्लाक के संच दिलासीगंज क्षेत्र में संचालित 30 विद्यालय के आचार्यो को शिक्षण समार्गी का वितरण किया गया। एकल अध्यक्ष दिनेश जायसवाल मीडिया प्रभारी ने कहा कि एकल का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। मेरे सभी आचार्य समाज सेवा से ओत प्रोत होकर अपने अपने गांव गांव में कार्य करती है। जायसवाल ने बताया कि आचार्यो को सिर्फ नाम मात्र का मान धन मिलता है इसके अलावा ये गांव के अन्य पंचमुखी शिक्षा माध्यम से कार्य कर रही है, आचार्यो में पूजा राव वन्दना, दीपाली शुक्ला, रामानन्द आचार्य ने बतया की हमे इस अभियान से जुड़ कर बहुत अच्छा लग रहा, नेहा, शिवम, शालिनी देवी, आदि लोग रहे।

बीकापुर में अधिवक्ताओं ने फूंका प्रमुख सचिव और डीजीपी का पुतला, जताया आक्रोश

जन एक्सप्रेस/बीकापुर-अयोध्या। बार एसोसिएशन बीकापुर के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का पुतला फूक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पैदल मार्च करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी अधिवक्ताओं ने लगाऐ। विगत दिनों हापुड़ के अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बरतापूर्वक किए गए लाठीचार्ज और अधिवक्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों से प्रदेश के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। हापुड़ की घटित घटना से अब तक सरकार द्वारा तथा पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में आज बीकापुर बार एसोसिएशन के सैकड़ो की संख्या में अधिकताओं ने प्रमुख सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका। अध्यक्ष आबाद अहमद के नेतृत्व में प्रमुख सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका गया। अध्यक्ष आबाद अहमद ने कहा बार काउंसलिंग के आवाहन पर अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया की हापुड़ की जो घटना घटी है और उसकी जांच हो रही है उसमें पुलिस प्रशासन का कोई भूमिका नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हापुड़ की घटना की जांच किसी सक्षम न्यायिक अधिकारी द्वारा कराई जाए। अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने मीडिया को यह भी बताया की जो फर्जी और मनगढ़ंत तरीके से अधिवक्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको खारिज किया जाए। और जिन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठियां से अधिवक्ताओं को पीटा है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा बार काउंसलिंग के आवाहन पर जैसा आदेश होगा उसे हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव और डीजीपी का पुतला दहन के दौरान अध्यक्ष आबाद अहमद, मंत्री ब्रह्मा नंद मिश्र, सुशील पांडे, आलोक सिंह, पुष्पेंद्र मिश्र, अखिल यादव, राम सिंह यादव, बृजेश यादव, मनोज यादव, तुलसीराम तिवारी, उपाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे, अजय भारती, लालमणि पांडे, पंडित ओमप्रकाश तिवारी, अवधेश पांडे, राम अवध यादव राम तेज वर्मा, मो0शुएब, समेत सैकड़ो अधिवक्ता शामिल रहे।

अयोध्या को जल्द मिलेगी मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात

जन एक्सप्रेस/अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर विवाद का हल निकलने के बाद अयोध्या में विकास कार्यों की गति तेज हो गयी है। योगी सरकार राम नगरी में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता समय समय पर जाहिर करती रही है। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) भी शहर में आधुनिक सुविधाओं वाले कॉम्प्लेक्स तैयार कराने में जी जान से जुटा हुआ है। अमानीगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के रूप में छह मंजिल वाले बिल्डिंग में चार फ्लोर पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है, इसमें कुल 78 दुकानें होंगी। वहीं दो मंजिलों पर पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। यहां चार पहिया और दो पहिया वाहन खड़े किये जा सकेंगे। निर्माण कार्य करा रहे एडीए के अवर अभियंता इंजीनियर प्रमोद कुमार ने बताया कि अमानीगंज के पास जलकल विभाग में निर्माण कार्य जनवरी 2022 से ही शुरू है। यहां एक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसकी लागत 12 करोड़ 67 लाख 66 हजार 671 रुपए है।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अधिकृत की गई जमीन 33 वर्ग मीटर है, जिसकी चौड़ाई 230 वर्ग मीटर हैं। इस मल्टी लेवल पार्किंग में चार पहिया वाहन की 20 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। इसके अलावा 10 मोटरसाइकिल भी यहां पार्क हो सकेंगी। दुकानों की बात करें तो यहां टोटल 78 दुकानें बन रही हैं। इसमें किचन रेस्टोरेंट के अलावा एक ओपन रेस्टोरेंट का भी निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। प्रमोद कुमार के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 95 फीसदी पूरा हो चुका है।

बराव गांव में चयन के बाद गीता देवी बनी नई कोटेदार

जन एक्सप्रेस/तारुन-अयोध्या वकोटेदार की मौत के बाद ग्राम पंचायत बराव में शांतिपूर्ण माहौल में हुआ नए कोटेदार का चयन हुआ, चयन उपरांत गीता देवी नई कोटेदार बराव बनी है। मंगलवार को विकासखंड तारुन के ग्राम पंचायत भराव के पंचायत भवन पर ग्रामीणों की गहमागहमी के दौरान कोटा चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। तारुन ब्लॉक के एडीओ आईएसवी सुरेश कुमार, एडीओ सहकारिता अमित सिंह, एडीओ मायाराम वर्मा, सचिव अंशु सिंह, पंकज वर्मा, अरविंद वर्मा, अर्जुन वर्मा, और ग्राम सचिव महेंद्र वर्मा सहित कर्मचारी की देखरेख में चयन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। वहीं इस संबंध में देर शाम सचिव महेंद्र वर्मा ने बताया कि ग्राम सभा के सरकारी कोटे के कोटेदार रहे हरिराम की मौत के बाद रिक्त हुई थी। जिस पर माननीय जिलाधिकारी की निर्देश पर मंगलवार को चयन प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान रजनी महिला स्वयं सहायता समूह की किरन कुमारी एवं शीला के अलावा रोशनी स्वयं सहायता समूह की गीता देवी पत्नी प्रेमनाथ ने दावेदारी पेश किया । किंतु नियमानुसार रजनी समूह में अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागीदारी कम होने के कारण दोनों की दावेदारी को निरस्त करना पड़ा और इसके उपरांत अकेली दावेदार बची रोशनी समूह की गीता देवी का चयन बतौर कोटेदार सर्व सम्मति से औपचारिक रूप से घोषणा की गई। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चौकी प्रभारी रामपुर भजन अभिनंदन पांडेय पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे।

अधिकारियों ने किया तारुन ब्लॉक का औचक निरीक्षण, मिली खामियों को दूर करने के दिए निर्देश

जन एक्सप्रेस/तारुन-अयोध्या। श्रम आयुक्त मनरेगा सविता सिंह और प्रशिक्षु आईएएस पूजा साहू ने ब्लॉक तारुन का किया औचक निरीक्षण, क्षेत्र में भी किया भ्रमण मंगलवार को तारुन ब्लॉक कार्यालय के मनरेगा सेल का श्रम आयुक्त मनरेगा सविता सिंह और प्रशिक्षु आईएएस पूजा साहू ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के कार्यालय पहुंचते ही मनरेगा सेल से जुड़े कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। अधिकारियों ने अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार एवं लेखाकार वीरेंद्र वर्मा से मनरेगा की फाइलों को मंगाकर गहन अवलोकन करते हुए मिली खामियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। इसके उपरांत ग्राम पंचायत ऊंच गांव में कराए गये खड़ंजा निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण श्रम आयुक्त मनरेगा और प्रशिक्षु आईएएस ने किया। खरंजा कार्य पर मिट्टी कम दिखाई दी तो मौके पर मौजूद तकनीकी सहायक दृगपाल मौर्या को मिट्टी और डालने का निर्देश दिया गया। वही इसके अलावा तालाब की खुदाई करने के लिए तकनीकी सहायक को निर्देशित भी अधिकारियों ने किया है। मौके पर किए गये कार्य की फाइल को श्रम आयुक्त मनरेगा अपने साथ अवलोकन के लिए ले गई। इस दौरान अवर अभियंता आरईएस आलोक वर्मा, तकनीकी सहायक दालसिंगार सिंह सहित ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

बाघ ने खेत में किया सुअर का शिकार

* धान में स्प्रे करने पंहुचा किसान बाघ देख वापस लौटा
* आबादी के निकट बाघ की चहलकदमी से मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंका

जन एक्सप्रेस । पीलीभीत

पूरनपुर। जंगल से निकलकर हरदोई ब्रांच नहर पर डेरा जमाए बाघ देर रात शिकार का पीछा करते हुए आबादी के निकट पहुंच गया। बाघ ने धान के खेत में जंगली सूअर को निवाला बनाया। धान के खेत में स्प्रे करने पहुंचा किसान तालाब के पास बैठे बाघ को देख वापस लौट आया। आबादी के निकट बाघ की मौजूदगी से किसान बेहद परेशान है।

3 जून को पीटीआर की माला रेंज से निकाला बाघ हरदोई ब्रांच नहर की झाड़ियों में रहने का आदी हो चुका है।बाघ जंगल वापस लौटने के बाद पुनः हरदोई ब्रांच नहर की पटरी पर पहुंचकर दहशत कायम किए हुए हैं। सोमवार सुबह जंगल से निकला बाघ रिहायशी इलाके में चहल कदमी करते हुए हरदोई ब्रांच नहर की पटरी पर पहुंच गया था। सोमवार देर रात बाघ जंगली सूअर का पीछा करते हुए मटैना कॉलोनी नंबर 6 के निकट धान के खेत में पहुंच गया। बाघ की दहाड़ सुनकर ग्रामीण सहम गए। बाघ आबादी के निकट धान के खेत में शुगर को मौत के घाट उतारने के बाद अवध किशोर पांडे के खेत के पास मौजूद तालाब में खींच ले गया। मंगलवार सुबह कॉलोनी नंबर 6 निवासी बिट्टू पांडे धान की फसल में कीटनाशक की स्प्रे करने पहुंचा तो खेत में सुअर के अवशेष पड़े थे ।पास के ही तालाब के किनारे बाघ की मौजूदगी देख किसान वापस लौट आया। जानकारी पर दर्जनों लोग मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों के शोर शराबा करने पर बाघ शिकार को छोड़कर हरदोई ब्रांच नहर के किनारे धान के खेत में जाकर बैठ गया।मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। दियोरिया रेंज के वन दरोगा मंगली प्रसाद व माला रेंज के वन दरोगा प्रकाश वीर टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टीम ने बाघ के पग मार्ग ट्रेस किए। शाम उप प्रभागीय वनाधिकारी मयंक पांडे ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। ग्रामीणों से वर्ता कर शीघ्र बाघ को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने का आश्वासन दिया। देर रात तक टीम बाघ निगरानी में लगी रही।

> पीटीआर व सामाजिक वानिकी की संयुक्त टीम बाघ की निगरानी में लगी हुई है। बाघ को जंगल में खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों को समूह बनाकर खेत में जाने की सलाह दी गई है।
> -कपिल कुमार
> प्रभारी क्षेत्रीय वनाधिकारी पूरनपुर

मचान पर सो रहा किसान बाल बाल बचा

कॉलोनी नंबर 6 निवासी गुड्डू ने आबादी के निकट ही खेत में सब्जी की फसल लगा रखी है। फसल की रखवाली के लिए किसान ने खेत में ही मचान बना रखा है। देर रात किसान फसल की रखवाली के लिए मचान पर सो रहा था ।शिकार का पीछा करते हुए बाघ मचान के पास पहुंच गया। बाघ की दहाड सुन किसान की नींद खुल गई। बाघ के वापस लौटने पर किसान ने दबे पांव घर भाग कर जान बचाई।

मटैना कॉलोनी मे पीट पीटकर की गई थी बाघिन की हत्या

दियोरिया रेंज के मटैना कॉलोनी नंबर दो में 24 जुलाई 2019 में जंगल से बाहर निकली बाघिन ने दस लोगों पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। एक किसान की हमले में मौत हो गई थी। गुस्साए ग्रामीणों ने बाघिन की लाठी डंडों से पीट पीटकर कर हत्या कर दी थी। मामले की जांच के लिए शासन से टीम गठित की गई थी ।लापरवाही पर वन दरोगा को सस्पेंड किया गया था। इन दिनों घटनास्थल के आसपास बाघ का मूवमेंट बना हुआ है। अधिकारियों के शीघ्र संज्ञान न लेने पर घटना की पुनरावृति से इनकार नहीं किया जा सकता है।

बैकफुट पर आया पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान से बोला सॉरी गलती हो गई

* प्रधान ने पंचायत सचिव पर अभद्रता का आरोप लगाकर दी थी आत्मदाह की चेतावनी
* पूरनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मोहनपुर जसी का मामला

जन एक्सप्रेस । पीलीभीत

पूरनपुर। सोमवार की शाम ग्राम पंचायत मोहनपुर जसी के प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें प्रधान ने पंचायत सचिव पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इससे आहत होकर प्रधान ने मंगलवार को ब्लाक परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। हालांकि मामला एसडीएम के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसकी भनक पर पंचायत सचिव बैकफुट पर आ गया। उसने प्रधान ने माफी मांगी, बोला गलती हो गई। बताते हैं कि कार्रवाई से बचने के लिए पंचायत सचिव ने माफी मांगकर बचने का तरीका निकाला। मामला पूरनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मोहनपुर जसी का है। बताते हैं कि क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों की मनमानी चलती है। वह प्रधानों को कतई नहीं समझते हैं। सचिवों की अक्सर मनमानी उजागर हाती है। ग्राम प्रधानों और अन्य व्यक्तियों द्वारा इनकी शिकायतें भी होती है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से मनमानी करने वाले सचिवों पर कार्रवाई नहीं होती। एक दिन पहले सोमवार को ग्राम पंचायत मोहनपुर जसी के पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली का मामला सामने आया था। ग्राम प्रधान शिवपाल सिंह ने पंचायत सचिव पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। करीब 41 सेकेंड के इस वीडियो में प्रधान द्वारा कहा कि वह किसी काम से ब्लाक में पंचायत सचिव सुधीर कुमार के कमरे पर गए। आरोप है कि सचिव ने उनसे अपशब्द कहे। इससे आहत होकर प्रधान ने मंगलवार को ब्लाक परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। वीडियो वायरल होने पर जिम्मेदार अधिकारियों में खलबली मच गई। एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला तक मामला पहुंचा तो उन्होंने हकीकत जानना शुरू कर दिया। इसकी भनक पर पंचायत सचिव ने देर रात प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। इधर मंगलवार को मामले में नया मोड़ आ गया। पंचायत सचिव ने ग्राम प्रधान से माफी मांगी। बोला गलती हो गई ऐसा दोबारा नहीं होगा। माफी मांगने से मामला रफा-दफा हो गया। चर्चा है कि पंचायत सचिव पर कार्रवाई होना तय हो गया था।

> सचिव और प्रधान के मामले की जानकारी खंड विकास अधिकारी से की गई थी। उन्होंने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बताया जाता है कि सचिव ने अपनी गलती की माफी मांग ली है।
> -राजेश कुमार शुक्ला, एसडीएम

फास्ट फॉरवर्ड

शनिदेव धाम पर धार्मिक अनुष्ठान बांटे गए रुद्राक्ष

जन एक्सप्रेस/प्रयागराज। श्रृंगवेरपुर स्थित शिवरतन का पुरवा बिजलीपुर स्थित शनिदेव धाम सिद्धपीठ मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। कथावाचक देवव्रत महाराज की अगुवाई में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया गया। आयोजन प्रमुख शनिदेव धाम के अध्यक्ष संजय तिवारी रहे। ओम नमः शिवाय जप मंत्र के 21 लाख संपन्न होने के बाद नर्मदेश्वर महादेव भगवान को समर्पित रुद्राक्ष का वितरण आम जनमानस श्रद्धालुओं भक्तों के बीच किया गया। आचार्य देवव्रत महाराज ने रुद्राक्ष और तुलसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहनने को लेकर भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए, दोनों एक साथ धारण किया जा सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में डूबने से महिला की मौत

जन एक्सप्रेस/हजारा(पूरनपुर)। संदिग्ध परिस्थितियों में अर्ध विक्षिप्त महिला की शारदा नदी में डूब जाने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया ।शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हजारा थाना क्षेत्र के गांव नहरोसा निवासी एक मानसिक विक्षिप्त महिला नहरोसा व राणाप्रताप नगर गांव के निकट बह रही शारदा नदी में डूबने से महिला की मौत हो गई ।काफ़ी संख्या में ग्रामीण नदी के तट पर पहुंच गए ।पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया ।महिला की पहचान गीता देवी (52) के रुप में हुई ।मृतक गीता के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ।ग्रामीणों ने बताया की मृतक गीता देवी के पति मझले की एक माह पहले मौत हो गई थी ।महिला दो तीन साल से मानसिक रोग से ग्रस्त हैं ।मृतका के मायके वाले बिजौरिया पलिया कलां जिला लखीमपुर खीरी से हजारा थाना पर पहुंचकर मृतका के ससुरालियों व उसके जेठ के लड़कों पर जानबूझकर मारने का आरोप लगाया है ।उधर हजारा थानाध्यक्ष परमेंद्र कुमार ने बताया कि शव पीएम को भेज दिया गया है ।मायके वाले अगर तहरीर देते हैं तों जांचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

चेकिंग अभियान के दौरान तीन वाहनों के काटे चालान

जन एक्सप्रेस/पीलीभीत। मंगलवार को परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में 4 सितंबर से 6 सितंबर के मध्य स्कूली वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मंगलवार को एआरटीओ वीरेंद्र सिंह एवं टीएसआई द्वारा स्कूली वाहनों की चेकिंग का संयुक्त अभियान चलाया गया। जिसमें चेकिंग के दौरान चार ऐसे वाहन जो निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हैं किंतु निर्धारित क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों का परिवहन करते पाए गए ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें ठेका चौकी में सीज कर दिया गया। इसी प्रकार के तीन अन्य वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई अमल में लाई गई। ये वाहन शहर के लिटिल एंजेल स्कूल, बेनहर स्कूल एवं सेंट एलॉयसिस स्कूल के बच्चों का परिवहन करते पाए गए। पूर्व में भी स्कूली बच्चों को असुरक्षित वाहनों से परिवहन होते पाए जाने पर विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही की गई है साथ ही विभिन्न विद्यालयों को ई रिक्शा, ईको, टेंपो आदि वाहनों से स्कूली बच्चों के परिवहन पर रोक लगाने हेतु पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं।

चाका ब्लॉक का औचक निरीक्षण खामियां मिलने पर मंडलायुक्त नाराज

जन एक्सप्रेस/ प्रयागराज। मंडलायुक्त के औचक निरीक्षण में कई खामियां मिलीं। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने चेतावनी दी। साफ शब्दों में कहा कि लापरवाह कर्मचारी कार्यशैली में सुधार नहीं लायेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने चाका ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। अचानक मंडलायुक्त के पहुंचने से ब्लॉक दफ्तर में हड़कंप मच गया। उपस्थित पंजिका देखने पर कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। गैर हाजिर कर्मचारियों के एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। मंडलायुक्त ने परिसर की साफ सफाई और पत्रावलियों के ठीक ढंग से रख रखाव के लिए भी कहा। मुलाकाती रजिस्टर गायब मिला। यहां के कर्मचारी मांगे जाने के बावजूद मुलाकाती रजिस्टर भी नहीं दिखा सके। नाराज मंडलायुक्त ने यहां के कर्मचारियों को कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया।

ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस

* शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों ने शिक्षकों का सम्मान कर अपना प्रेम दिखाया: पूजा छाबड़ा

जन एक्सप्रेस । पीलीभीत

आज ज्ञान इण्टरनेशनल स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शिक्षक दिवस को लेकर सभी बच्चे बड़े ही उत्साहित नजर आये। शिक्षक दिवस पर सभी विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुये उनके प्रति अपना प्रेम दिखाया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कक्षा-11 व 12 के विद्यार्थियों ने शिक्षकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरूआत विद्यार्थियों ने समूह गायन के साथ की। सभी विद्यार्थियों ने गुरू को ईश्वर का दर्जा देते हुए उनके लिए अपने विचार प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में बच्चों ने नाट्यमंचन कर शिक्षा के महत्व को बताया। विद्यालय के प्रबन्धक देवेन्द्र सिंह छाबड़ा ने बच्चों का धन्यवाद करते हुए बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को उनके माता-पिता और शिक्षकों के प्रति आभार और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को बताया है कि गुरू ही एक मात्र वह पथ प्रदर्शक है जो बच्चों को सही राह पर चलना सिखाता है।

विद्यालय की प्रधानाचार्य पूजा छाबड़ा ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए सभी बच्चों को अपना आर्शीवाद दिया एवं उनको कहा कि जीवन में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्होंने बताया कि गुरू की कोई उम्र नहीं होती है। इस शिक्षक दिवस पर हमने जिससे भी कुछ प्रेरणा ली उसका आभार व्यक्त करें। शिक्षक दिवस शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने और छात्रों के जीवन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाने का मौका प्रदान करता है। इस अवसर पर सभी शिक्षक बच्चों द्वारा पाये गये सम्मान से अत्यन्त प्रसन्न नजर आये।

स्कूलों के बच्चों को शिक्षकों को दिया उपहार, लिया आर्शीवाद

* पूरनपुर समेत ग्रामीण क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस
* भारत के पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन को किया नमन, समाज में शिक्षकों की बताई गई भूमिका

जन एक्सप्रेस । प्रशांत शर्मा

पूरनपुर। नगर समेत देहात क्षेत्र के स्कूल व कालेजों में मंगलवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षकों ने बच्चों को पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन के बारे में जानकारी दी। उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। बच्चों ने भी शिक्षकों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया और आर्शीवाद लिया। कई स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। पूरनपुर बीआरसी पर विजय वीरेंद्र सिंह ने कार्यालय के समस्त स्टाफ को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं। बीआरसी क्षेत्र के कई परिषदीय स्कूलों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। शिक्षकों ने सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन के चित्र का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। उनके जीवन पर प्रकाश डाला। रंपुरा फकीर के उच्च प्राथमिक स्कूल में इंचार्ज शिक्षक रईस अहमद ने शिक्षकों की अहमियत पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उपलब्धियों को बताईं। कहा कि सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए संस्कारमय शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। धुरिया पलिया के कंपोजिट स्कूल के इंचार्ज शिक्षक एवं ब्लाक व्यायाम शिक्षक अर्जुन सिंह गंगवार ने , कहा कि समाज में गुरु का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। डूडा कालोनी नंबर आठ में शिक्षक इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। बुधेली के कंपोजिट स्कूल में इंचार्ज शिक्षक रामलड़ैते ने छात्रों को डा. राधाकृष्णन के मार्ग पर चलने के लिए बच्चों को प्रेरित किया।

'अब जनपद भर में सुनाई देगा हिंदू महासभा का शोर जल्द किया जाएगा जिले का गठन'

जन एक्सप्रेस । पीलीभीत

आज हिंदू महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा, जिला महामंत्री प्रवीन मोहन अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष मयंक जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। इसी बीच बैठक में हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा द्वारा बताया गया कि अखिल भारत हिंदू महासभा का जनपद का गठन बहुत ही जल्द किया जाएगा और सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को संगठन के प्रति जागरूक कर संगठन में जोड़कर हिंदू महासभा को मजबूत बनाएं। साथी इस बैठक का संचालन अखिल भारत हिंदू महासभा के महामंत्री प्रवीण मोहन अग्रवाल ने किया और यह बैठक अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला उपाध्यक्ष मयंक जायसवाल के उर्मिल बारात घर में संपन्न हुई।

हेड कांस्टेबल को एसपी ने किया निलंबित

* एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में मची खलबली
* इंस्पेक्टर व पुलिसकर्मियों पर जल्द गाज गिरना तय

जन एक्सप्रेस । पीलीभीत

पूरनपुर। धनेगा के एक घर से बरामद गोवंश के मांस व पकड़े गए आरोपियों को लाखों वसूलने के बाद छोड़ देने के मामले में तत्कालीन गड़ढवाखेड़ा चौकी इंचार्ज अजीत कुमार के बाद पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने हेड कांस्टेबल राम विनय सिंह को भी निलंबित कर दिया। मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकार सदर को सौंपी गई है। समस्त प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव कर रहे हैं। तस्करों को संरक्षण देने वाले जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। थाना सेहरामऊ उत्तरी की गढ़वा खेड़ा चौकी क्षेत्र के तत्कालीन इंचार्ज अजीत कुमार ने 29 अगस्त को क्षेत्र के गांव धनेगा के एक घर में दबिश दी। दबिस के दौरान घर से गोवंश का मांस व पांच आरोपियों को मौके से पकड़ लिया था। बताया जा रहा है कि बरामद मांस व आरोपियों को चौकी पर लाने के बाद मामले की सूचना इंस्पेक्टर को दी गई थी। देर रात इंस्पेक्टर भी चौकी पर पहुंचे थे। चौकी इंचार्ज ने आरोपियों से बरामद मांस को चौकी परिसर में ही गड्ढा खोदकर दवा दिया था। पकड़े गए चार आरोपियों से सांठगांठ कर लाखों रुपए लेने के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। एक आरोपी का एनडीपीएस एक्ट में चालान कर मामले को दबा दिया। चार दिन तक इंस्पेक्टर व तत्कालीन चौकी इंचार्ज पूरे मामले को झुठलाते रहे। रविवार रात जानकारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी चौकी पर पहुंचे थे। पदाधिकारीयों ने चौकी परिसर में गड्ढा खोदकर गोमांस को बरामद कर लिया था। मामला उजागर होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने गढ़वा खेड़ा तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर अजीत कुमार को लाइन हाजिर करने के बाद सस्पेंड कर दिया था। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने मंगलवार चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल राम विनय सिंह को निलंबित कर दिया। कार्रवाई से थाना पुलिस में खलबली मची हुई है। आरोपियों को संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अभी तक कार्रवाई से बचे हुए हैं।

प्रयागराज में नक्सली कनेक्शन की तलाश में एनआइए का छापा

जन एक्सप्रेस । प्रयागराज

* शिवकुटी समेत कई मोहल्लों में सघन तलाशी, कई युवकों को उठाया

नक्सली कनेक्शन को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शहर के शिवकुटी समेत कई इलाके में छापेमारी की। कई घंटे वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान कुछ संदिग्ध युवकों को उठाया भी गया है। बताया जा रहा है कि नक्सली गतिविधियों को लेकर कुछ दिन पहले रितेश विद्यार्थी नामक युवक को पकड़ा गया था। उसके भाई सत्येश विद्यार्थी समेत अन्य की तलाश की जा रही थी। सोमवार की रात एनआइए की टीम प्रयागराज पहुंची। इसके बाद शिवकुटी समेत शहर के अन्य भी कई मोहल्लों में सर्च आपरेशन चलाया गया। सत्येश की पत्नी सोनिया आजाद की तलाश कई घंटे की गई।

सीमा आजाद के घर पहुंचे अमिताभ ठाकुर

एनआइए की छापेमारी की सूचना पाकर पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर प्रयागराज पहुंचे। वे सीमा आजाद के घर पहुंचे और सीमा आजाद से बातचीत की।

चंदौली निवासी सत्येश का कैमूर में मूवमेंट

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, सत्येश चंदौली का निवासी है। कैमूर क्षेत्र में उसका मूवमेंट रहता है। खुफिया विभाग को मिले इनपुट के बाद एनआइए सक्रिय हुआ है। एनआइए टीम ने कई जगह छापा मारा है। छापेमारी की कड़ी में प्रयागराज को भी शामिल किया गया। सूत्रों के अनुसार प्रयागराज शहर के शिवकुटी मोहल्ले के मेंहदौरी में भी सत्येश रहता है।

बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से दिन दहाड़े हुई दो लाख रूपये की लूट

* पल्सर बाइक से पहुंचे बदमाशों ने बिल्डिंग मैटेरियल्स की दुकान को बनाया निशाना
* पीड़ित की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस में जांच में जुटी

जन एक्सप्रेस । जौनपुर

जौनपुर केराकत कोतवाली अंतर्गत मंगलवार को नए कोतवाल रामजनम यादव के चार्ज लेते ही बदमाशों ने उन्हें तगड़ी सलामी दे डाली। बदमाश थाना परिसर से महज दो सौ मीटर दूर स्थित एक बिल्डिंग मैटेरियल्स की दुकान से दिन दहाड़े दो लाख रूपये लूट ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दुकानदार सुबाष यादव की तहरीर पर कोतवाली थाना पुलिस ने दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि मनियरा गांव के सुबाष यादव की गांव के मोड़ के पास जरायत पट्टी पुरवा में विशाल नाम से बिल्डिंग मैटेरियल्स की दुकान है। दुकानदार के अनुसार ग्राहकों से उन्हें लगभग दो लाख रूपये मिले थे जिसे वे अपने गल्ला बॉक्स में रखे थे। दोपहर में बैंक में जमा करने जाना था। बैंक जाने से पहले वे लघुशंका के लिए दुकान के पीछे चले गए। उसी दौरान दो युवक पल्सर मोटरसाईकिल से उनकी दुकान पर पहुंचे और गल्ला बॉक्स से नोटों की गड्डियाँ निकाल कर जाने लगे। दुकानदार सुबाष ने बताया कि जब दोनों बदमाश बाइक पर बैठकर जाने लगे तब उनकी नजर पड़ी। भागते समय पीछे बैठे बदमाश के पास से एक गड्डी जमीन पर गिर गई तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके दुकान में लूट हो गई। सुबाष के अनुसार ज़ब तक वे चिल्लाते और उनके पास पहुंचते तब तक पीछे बैठा बदमाश नोट की गिरी गड्डी उठाकर बाइक से सिहौली चौराहे की ओर भाग गए।

निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में भुगतान न होने से नाराज श्रमिकों ने परिसर खाली करने से किया मना

* बालाजी कार्यदायी संस्था का 3 करोड का भुगतान लटका, दो निर्माण कंपनियां आपस में भिड़े
* कंक्रीट सप्लायरों व श्रमिकों का लाखों रुपए बकाया, एजेन्सी को जबरन रोका
* बालाजी के अधिकारियो को श्रमिकों ठेकेदारों ने किया घेराव

जन एक्सप्रेस । संतोष कुमार दीक्षित

जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यदायी संस्था बालाजी का तीन करोड़ से अधिक बकाया फंसा है। संस्था भुगतान के लिए वह मेडिकल कॉलेज परिसर में जमी हुई है। और ठेकेदारों व श्रमिको का भी लाखों रुपए का भुगतान लटका हुआ है। जिससे अधिकारियों का घेराव कर परिसर खाली करने से जबरन रोक दिया। उधर बिना टेंडर के दूसरी कंपनी काम भी शुरू कर दिया है। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में अब नए निर्माण एजेंसी ने काम शुरू किया है। वहीं इसके पूर्व बालाजी को काम की जिम्मेदारी 2016 से दी गई थी। बीच मे 3 साल का बजट ना होने के कारण काम रूक गया था ।फिर कोरोना काल के चलते भी समस्याओं का सामना करना पड़ा । महंगाई के चलते रेट रिवाइज के लिए भी कार्यदायी संस्था ने शासन से अनुरोध किया। इस बीच उन्होंने करीब 60 फ़ीसदी भवनो का निर्माण पूरा किया और मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू हो गई। लेकिन शासन की नजर मे संस्था मे खामिया कमियां देखी और शासन ने बालाजी एजेन्सी से काम करने के बजाय बाहर का रास्ता दिखा दिया। और नई निर्माण एजेंसी को बिना टेंडर के काम सौंप दिया। एसबीआईपीएल यानी बाला जी कार्यदायी संस्था का अप्रैल से करीब तीन करोड़ का भुगतान नही किया गया है। कंपनी की ओर से बिल भी सबमिट कर दी गई ,लेकिन भुगतान फसा है और बालाजी के पीछे स्थानीय कंक्रीट सप्लायर व लेबर ठेकेदारों का बकाया है। जिसके लिए वह बालाजी के अधिकारियो का घेराव कर भुगतान की मांग की और परिसर खाली करने से जबरन रोक दिया। बालाजी की ओर से हवाला दिया गया कि इस समय उसके यहां कोई साइट पर लेबर नहीं है सिर्फ 4 से 5 स्टाफ है और उनका भुगतान होते ही सबका भुगतान कर वह परिसर खाली कर देंगे। रेट रिवाइज बालाजी के ही टेंडर अनुरोध पत्र पर हुआ, टेंडर विस्तार हुआ, लेकिन शासन ने अचानक बिना टेंडर की दूसरी कंपनी को काम दे दिया और कंपनी सवा महीने में धीमी गति से काम कर रही है।

> हमारा 3 करोड़ का भुगतान अभी नहीं हुआ है बिल हमने सबमिट कर दिया है और लोकल श्रमिकों का बकाया है उनका भी भुगतान करना है। जिस दिन सबका भुगतान हो जाएगा उसे दिन हम परिसर खाली कर देंगे। बगैर टेंडर के दूसरी कंपनी को काम दिया गया है जो उचित नहीं है।
> -विशाल गुप्ता, एमडी, बालाजी निर्माण एजेन्सी

बजरंग बाण का पाठ करके उदय निधि स्टालिन का फूंका पुतला

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

गोल चौराहा पर बीते दिन महान स्वतंत्रता संग्राम सैनानी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के सामने पहले स्टालिन के सनातन हिन्दू धर्म विरोधी विचारों के विनाश के लिए बजरंग बाण का पाठ किया गया फिर उसका पुतला दहन किया गया। सनातन वैदिक रामराज परिषद के तत्वावधान में सभी सनातन धर्मियों ने एकजुट होकर उदय निधि स्टालिन का पुतला फूका एवं बजरंग बाण का पाठ किया। सनातन वैदिक रामराज परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्र ने सनातन धर्म विरोधी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रक्रिया देते हुए कहा है कि सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से है वर्तमान में भी सनातन ही सृष्टि का आधार है और सृष्टि के अंत तक भी सनातन ही रहेगा क्योंकि इस धर्म की उत्पत्ति स्वयं नारायण से है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं । इसके उन्मूलन की कामना करने वालों का विनाश निश्चित है। सायं काल 5 बजे गोल चौराहे पर सनातन धर्मियों ने एक जुट होकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष उदय निधि का पुतला दहन किया। सनातन वैदिक रामराज परिषद के वरिष्ठ सदस्य बीपी सिंह जी ने कि अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि तमिलनाडु की सरकार विधर्मियों के हाथ में है वहां पर सनातन धर्म को निशाना बनाकर जो बयान दिए जा रहे हैं उनका विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि किदवई नगर विधानसभा से विधायक श्री महेश त्रिवेदी जी ने अपने व्यक्तव्य में कहा कि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी एवं सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस दौरान अजय मिश्रा राजीव अग्निहोत्री अनूप अवस्थी प्रमोद शुक्ला बीपी सिंह विनय मिश्रा, बृजेश दीक्षित कृष्ण रंजन तिवारी अभिषेक दिक्षित दिनेश टंडन महेश तिवारी राहुल सिंह चंदेल कुलदीप तिवारी केशव दुबे श्याम सिंह चंदेल राजेन्द्र गुप्ता आदित्य मिश्र रजनी कांत हनुमान पाल आदि उपस्थित रहे।

अज्ञात वाहन की टक्कर से वेल्डिंग कारीगर की मौत, साथी घायल

* आसीवन थाना क्षेत्र के लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर बीती रात हुआ हादसा

जन एक्सप्रेस । उन्नाव

आसीवन थाना क्षेत्र के आवागोझा में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बीती रात एक बाइक में टक्कर मार दी जिससे पर सवार दो युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मियांगंज सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने वेल्डिंग कारीगर को मृत घोषित कर दिया। उसके साथ रहे युवक को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसीवन थाना क्षेत्र के मकबूलखेड़ा निवासी आनंद (19) पुत्र मनोज कुमार वेल्डिंग कारीगर था और अपने चाचा की ही दुकान पर काम करता था। बीती शाम दुकान से घर जाने के बाद उसने खाना खाया इसके बाद आवागोझा में किराए पर रहने वाले साथी रामदास के साथ उसके घर किसी काम से गया था। वहां से वापस लौटते समय देर रात लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर आवागोझा में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मियांगंज सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने आनंद को मृत घोषित कर दिया। रामदास को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी। आनंद की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक छह भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी मौत पर मां शारदा, भाईयों हर्षित, अर्पित व बहनों रजनी, अंकिता और आरती समेत परिजन रो रोकर बेहाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसओ आसीवन संदीप मिश्र ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है जबकि उसका साथी घायल हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

फास्ट फॉरवर्ड

सड़क हादसों में चार घायल, दो जिला अस्पताल रेफर

जन एक्सप्रेस/नवाबगंज/उन्नाव। अजगैन कोतवाली क्षेत्र में हुए अलग अलग सड़क हादसो में बुजुर्ग समेत चार लोग घायल हो गए। सीएचसी पहुंचाए गए घायलों में दो की नाजुक हालत देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर एकघरा निवासी रामश्री पत्नी रामपाल की कोरारी गांव माखी निवासी नन्द का देहांत हो गया था। मंगलवार दोपहर वह वहां से ऑटो से लौट रही थी। इस दौरान स्थानीय बाईपास के समीप ओवरटेक करते समय दो ऑटो आपस में टकराकर पलट गए। हादसे में रामश्री समेत ऑटो चालक रामजी (26) पुत्र विष्णु निवासी बरबटपुर थाना माखी व राहुल पुत्र स्व. राम निवासी भौली घायल हो गए। एक अन्य हादसे में सरायजोगा निवासी राजकुमार (60) पुत्र मेडीलाल अपनी नातिन को शुक्लागंज पीपरखेड़ा उसके घर छोड़कर मंगलवार दोपहर बाइक से लौट रहा था। लखनऊ कानपुर हाइवे पर भल्लाफार्म मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों हादसों के घायलों को सीएचसी लाया गया। जहां घायल राजकुमार व ऑटो रामजी की नाजुक हालत देख डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

बच्चों ने केक काट कर मनाया शिक्षक दिवस

जन एक्सप्रेस/नवाबगंज/उन्नाव। विकासखण्ड के जंसार ग्राम पंचायत के मजरा महतवानी गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कम्पोजिट के छात्रों ने देश के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। छात्रों द्वारा समूचे विद्यालय को गुब्बारों और फूलों से सजाकर केक काटा गया और सभी बच्चों मे वितरित किया। इस दौरान शिक्षक दिलीप कुमार अवस्थी, अमित शर्मा, चन्द्र कुमार सहित छात्र छात्राएं मौजूद रही।

युवक ने फंदे से लटक कर किया जान देने का प्रयास

जन एक्सप्रेस/उन्नाव। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते युवक ने फंदे से लटककर जान देने का प्रयास किया। समय रहते ग्रामीणों ने उसे फंदे से उतार कर सीएचसी पहुंचाया। जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के तालिबपुर रहली गांव निवासी रिखनाथ (22) पुत्र रामनाथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। रक्षाबंधन पर दिल्ली से गांव आया था। सोमवार देर रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद रिखनाथ ने गांव के ही मदन के खेत में खड़े आम के पेड़ में फंदे से लटक कर जान देने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे फंदे से उतारा और सीएचसी में भर्ती कराया। जहां डाक्टरो ने गंभीर हालत देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

बाइक चुराकर ले जा रहे युवक को पकड़ कर पुलिस को सौंपा

जन एक्सप्रेस/उन्नाव। बारासगवर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी कर ले जा रहे युवक को गाड़ी मालिक ने धर दबोचा। वाहन स्वामी ने उसके पुलिस को सौंपते हुए कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी है। बारासगवर थाना क्षेत्र के परौरी गांव निवासी उमेश कुमार पुत्र बृजमोहन ने पुलिस को दी गयी तहरीर मे बताया कि वह मंगलवार किसी काम से धानीखेड़ा गया था। बाइक खड़ी कर वह अपना काम निपटाने लगा। इसी दौरान उसने बाइक गायब देखी तो उसके होश उड़ गए। खोजबीन शुरू करने पर उसे एक युवक जयराजमऊ की ओर उसकी बाइक ले जाता नजर आया जिसे उसने बाइक समेत पकड़ लिया। बाइक स्वामी के मुताबिक आरोपी जयराजमऊ का ही रहने वाला अंकित पुत्र अमरेंद्र सिंह है। उसने पुलिस को घटना की तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कानून कार्रवाई की मांग की है।

नगर में मंगलवार को मनाया गया हलछठ का पर्व

जन एक्सप्रेस/शुक्लागंज, उन्नाव। हलछठ को लेकर नगर में कई दिनों से महिलाएं खरीददारी कर रही थी। मंगलवार को पर्व मनाया गया। जहां सुबह से बेटे की लंबी उम्र के लिये महिलाओं ने व्रत रखा। जिसके बाद कई प्रकार के अनाजों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि पुत्र प्राप्ति के लिये महिलाएं यह पूजा अर्चना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार हल छठ या हल षष्ठी भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ही मनाई जाती है। इसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जिसमें हलषष्ठी एक नाम है। इसके अलावा ललही छठ या फिर ललई छठ भी इसे ही कहते हैं। इस पर्व को भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम को समर्पित किया गया है। अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ इस दिन माताएं पूरे मन से पूजन करती हैं। माना जाता है कि जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनके पुत्र के जीवन पर आए संकट दूर होते हैं।

दुर्गा मन्दिर में कन्या पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन

जन एक्सप्रेस/शुक्लागंज, उन्नाव। राजधानी मार्ग स्थित श्री दुर्गा मंदिर में मंगलवार सुबह ग्यारह बजे ब्रम्हलीन श्री मदन केशव आमडेकर गुरू जी का अभिषेक आचार्यों द्वारा कराया गया। जिसके बाद कन्या पूजन हुआ। वहीं कन्या पूजन के विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। जहां नगर के अलावा कानपुर, लखनऊ, मुम्बई के अलावा प्रदेश व अन्य जिलों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद चखा। भंडारा देर रात तक चलता रहा। मंदिर अध्यक्ष आदित्य सिंह साधू ने बताया कि 5 सितंबर वर्ष 1983 में श्री मदन केशव राव आमडेकर का ब्रम्हलीन हो गये थे। उसी को लेकर 39 सालों से लगातार भंडारा कराया जा रहा है। इस मौके पर गुरु जी के पौत्र महेश मुकुंद आमडेकर, विजयकरन सिंह, चक्रपाणि मिश्रा, जगन्नाथ कुशवाहा, शिवकुमार कुशवाहा, बब्बू मिश्रा, प्रदीप शुक्ला, सुशील सिंह, सुशील दीक्षित, अमित गुप्ता, विशाल द्विवेदी, राजू वर्मा, जय प्रजापति, समन्वय जौहरी, मनोज सिंह, राहुल यादव समेत मंदिर के सेवक मौजूद रहे।

शातिर को दो किलो गांजे संग दबोचा

जन एक्सप्रेस/शुक्लागंज, उन्नाव। एसपी के निर्देश पर चलाये गये अभियान के दौरान मंगलवार को गंगाघाट कोतवाली के दरोगा हरीनिवास शर्मा, का0 गिरीश कुमार, राघवेन्द्र गुर्जर, रजनीश चौधरी, अम्बरीश कुमार संदिग्धों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी पोनी रोड स्थित शिव बाबा लॉन के पास से एक संदिग्ध को रोक लिया और उसकी तलाशी ली। जहां उसके पास से 2 किलो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम कानपुर बांसमण्डी कोपरगंज थाना रायपुरवा निवासी साहिल पुत्र जाबिर बताया। जिस पर पुलिस उसे पकड़ कर कोतवाली लाई और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर कोर्ट भेजा है।

सुधा इंटरनेशनल स्कूल व मृदुल योग ट्रेनिंग संस्थान में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस

जन एक्सप्रेस । बिल्हौर

बिल्हौर तहसील क्षेत्र में शिक्षक दिवस धूमधाम से शिक्षण संस्थानों में मनाया गया वहीं पर कई स्कूलों में केक काटकर बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए घिमऊ स्थित सुधा इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों ने एकत्रित होकर केक काटकर अपने शिक्षकों का मुह मीठा कराया वहीं पर शिक्षकों ने बच्चों को भी पुरस्कार स्वरूप पेंसिल व पेन वितरित किए। मृदुल योग ट्रेनिंग संस्थान सम्बद्ध महर्षि दयानंद एजुकेशन ग्रुप बिल्हौर में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रपति डा. एस राधाकृष्णन को याद करते हुए शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। संस्थान में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में बोलते हुए संचालक मृदुल कटियार ने डा. एस. राधाकृष्णन के विचारों व आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेने की छात्राओं से अपील की उन्होंने कहा कि शिक्षक गाईड होते हैं, वे वही है जो हमें उन रास्तों पर चलना सिखाते हैं जिन पर चलने से हमारा उत्थान होता है, उन्होंने कहा कि टीचर्स डे का मतलब केवल उस दिन को मनाया जाना नहीं बल्कि अपनी टीचर्स की बातों को मानकर अच्छा बनना है, वहीं प्रद्युम्न कटियार एडवोकेट ने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डा. एस. राधाकृष्णन से उनके एक छात्र ने जब 5 सितंबर के दिन उनका जन्म दिन मनाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि उनके जन्म दिन के शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाए, इसीलिए लिए 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जा रहा है। वहीं अरुण कुमार ने कहा डा. एस. राधाकृष्णन का सपना था कि शिक्षक हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले व्यक्ति ही हो, शिवम कटियार ने कहा छात्र छात्राओं को अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए इस अवसर पर उक्त संस्थान में छात्र-छात्राओं ने अपने विचार रखे इस मौके पर एकांश कटियार, अमृता कटियार, विक्रम, रिया, श्रेया, सुखसागर, प्रिवी, अंकित कुमार, राधा पाल सहित दर्जनों छात्र-छात्राएं शामिल हुई।

जिलाधिकारी ने शिक्षकों को शाल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

शिक्षक दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में परिषदीय शिक्षकों का सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा शिक्षकों को शाल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षको से अपने कर्तव्य एवं दायित्व्यों का सही तरीके से निर्वहन करते रहने की अपेक्षा की। सम्मान समारोह में 60 शिक्षको को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एमएलसी अरुण पाठक, जिलाधिकारी विशाल जी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर सुरजीत कुमार सिंह, जिला समन्वय उषा दिवाकर, बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी संगठन के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद परवेज आलम सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

थाने की जीप में डंपर ने मारी टक्कर दरोगा समेत तीन पुलिस कर्मी घायल

* लखनऊ कानपुर हाइवे पर मंगलवार सुबह हुआ हादसा

जन एक्सप्रेस । उन्नाव

नवाबगंज। लखनऊ कानपुर हाइवे सोहरामऊ थाना अंतर्गत आशाखेड़ा तिराहे के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर थाने की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी पर सवार दारोगा समेत तीन पुलिस कर्मी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकलने में सफल रहा। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। सोहरामऊ थाने में तैनात दारोगा सुरेंद्र(57), कांस्टेबल सतीश चौधरी (25) व होमगार्ड रोहित कुमार (50) पुलिस जीप से मंगलवार भोर पहर हाईवे पर गश्त कर रहे थें। इसी दौरान पीछे से आए डंपर ने जीप में टक्कर मार दी। हादसे में जीप का पिछला हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। उस पर सवार तीनों पुलिस कर्मी घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसआई सुरेंद्र की हालत चिंताजनक देख उन्हें कानपुर हैलट रेफर किया गया है। एसओ अवधेश कुमार ने बताया कि डंपर चालक हादसे के बाद गाड़ी छोड़ कर भाग निकला। डंपर को कब्जे में ले लिया गया है।

बाबा बलखंडेश्वर महादेव को मिला पूर्व का स्वरूप समिति ने चांदी की परत को शिवलिंग से हटाया

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

इस समय बड़े बड़े मंदिरों में शिव लिंग को चांदी से ढकने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। जिसको देखते हुए अब छोटे मंदिरों में भी भक्तो द्वारा भोले बाबा ढके जा रहे है। बाबा बलखंडेश्वर महादेव विकास सेवा समिति व वैदेही सेना के लोगो ने बैठक कर यह निश्चित किया गया कि यह शिव लिंग प्राण प्रतिष्ठा से परिपूर्ण है। जिसका जल, द्रव्य, बेल पत्र ,दूध, अक्षत, चंदन, आदि से प्रतिदिन पूजन होना आवश्यक है। किंतु चांदी से ढकने की वजह से शिवलिंग की साफ सफाई व विधवत पूजन ,स्पर्श, नही हो पा रहा है। इस लिए समिति ने निर्णय लिया कि शिवलिंग को किसी भी धातु से ढकने की जो कुप्रथा चल रही है। इसको किसी तरह दूर किया जाए।जिले में गोकुल बाबा मंदिर ,लखनऊ में बुध्देश्वर मंदिर में भी शिव लिंग को चांदी से ढक दिया गया है।जो सनातन धर्म के विरुद्ध है। स्थानीय बाबा बलखंडेश्वर मंदिर के शिव लिंग को लग भग चार वर्ष पहले चांदी से स्थानीय कमलेश अवस्थी द्वारा ढक दिया गया था। जो आज समिति के निवेदन पर उन्होंने हटा दिया है।अब कमलेश अवस्थी द्वारा चांदी के नाग देवता बनवाया जाएगा।

पक्षी विहार घूमने आए युगल से मोबाइल व नगदी लूटने का आरोप

जन एक्सप्रेस । उन्नाव

* पुलिस बोली लूट नहीं मारपीट का था मामला

पक्षी विहार रिंग रोड पर घूम रहे पुरुष व महिला मित्र के साथ छेड़छाड़ कर मोबाइल व रुपये लूट लिये। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया बाद में छोड़ दिया। अजगैन कोतवाली के पक्षी विहार पर्यटन केन्द्र की झील के किनारे बनी रिंग रोड पर सोमवार की शाम करीब पांच बजे लखनऊ के आलमबाग निवासी पुरुष व महिला मित्र बाइक से घूम रहे थे। तभी बाइक का टायर पंचर हो गया। दोनों पैदल बाइक लेकर आ रहे थे। बताते हैं कि अचानक वन विभाग कार्यालय की तरफ से शराब के नशे में तीन लोग आये और उनको रोक कर लड़की से छेड़छाड़ करने लगे। इसका विरोध जब दोनों ने किया तो मार पीट कर मोबाइल व तीन हजार रुपये छीन कर भाग गये। पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली पर दी थी। पुलिस ने बीती रात दो लोगो को उठाया और सुबह छोड़ दिया। इस संदर्भ में जब अपराध निरीक्षक डीडी सिंह से बात की गई तो बताया कि अमित और मोनू नाम के दो लोगो को पकड़ा गया था। मारपीट का मामला था।

रतिराम पुरवा गांव की टूटी सड़क की मरम्मत के लिए डीएम को दिया प्रार्थना पत्र

जन एक्सप्रेस । बिल्हौर



बिल्हौर तहसील क्षेत्र में सैकड़ो सड़के टूटी पड़ी हुई है लेकिन जिम्मेदार कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं औरंगपुर सांभी गांव सभा के खंड रतीराम पुरवा गांव जाने वाली सड़क टूटी-फूटी है जहां पर पैदल निकलना मुश्किल है। यहां तक की गड्ढो में साइकिल सवार अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं और नालियों का पानी सड़क पर भरा रहता है जिसके कारण ग्रामीणों के बच्चे आने-जाने में आए दिन गिरकर चोटिल होते रहते हैं कई बार इन गड्ढो के कारण ग्रामवासी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं सड़क का पर स्कूल जाने के लिए बच्चे और ग्रामीणों को इन गड्ढो से मुकाबला करना पड़ता है ग्रामीणों में महेश चंद, राघवेंद्र ,अतुल, देवेंद्र कुमार, आशीष कुमार, हर्षित पाल, आकाश पाल ,शिखर पाल, अवधेश कुमार, कुंवर सिंह, विकास कश्यप, राहुल कश्यप आदि सैकड़ो लोगों ने जिलाधिकारी को तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी वहां झांकने तक नहीं गया है। बिल्हौर नगर पालिका के सभासद हितेश भदोरिया ने बताया आए दिन बच्चे गिरकर चोटिल होते हैं कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र दिया है लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि आया तक नहीं आया है।

संदिग्ध हालातों में फंदे से लटका मिला युवक का शव

* परिजन बोले पत्नी से छेड़छाड़ के बाद आरोपी पक्ष की पिटाई से था आहत
* सदर कोतवाली के दोस्तीनगर गांव में मंगलवार सुबह की घटना

जन एक्सप्रेस । उन्नाव

सदर कोतवाली क्षेत्र के दोस्ती नगर में एक युवक का शव संदिग्ध हालातों में मंगलवार सुबह घर के अंदर दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। बेटे का शव ने मां की चीख पुकार सुन पड़ोसी वहां पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने पड़ोस के एक परिवार पर मारपीट करने और उसी से आहत होकर यह कदम उठाने की बात कही है। हलांकि अभी तक पुलिस को ऐसी कोई तहरीर नहीं दी गयी है। सदर कोतवाली दोस्तीनगर गांव निवासी सुनील (27) पुत्र स्व. नन्हकू प्रसाद रैदास दही थाना क्षेत्र स्थित एक चर्म निर्यातक इकाई में मजदूरी करता था। गांव में उसके दो



मकान हैं जिनमें एक में वह अपनी पत्नी रीता देवी व बच्चों अभिनैना व शालू के साथ रहता था जबकि दूसरे मकान में उसकी मां कैलाशा बड़े बेटे विनोद के साथ रहती है। रक्षा बंधन पर सुनील अपनी पत्नी व बच्चों को मायके दही थाना क्षेत्र के लगलेसरा गांव छोड़ आया था। मंगलवार सुबह उसकी मां कैलाशा जब उसे जगाने पहुंची घर के अंदर बेटे का शव दुपट्टे के फंदे से लटका देख उसकी चीख निकल गयी। यह खबर फैलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गयी। पति की मौत की सूचना पाकर पत्नी भी रोती बिलखती ससुराल पहुंच गयी। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम हाउस पर मिली पत्नी ने बताया कि रक्षा बंधन से तीन दिन पूर्व घर के सामने रहने वाले एक युवक ने रात को सोते समय उसके साथ छेड़छाड़ की थी। मामले की शिकायत पुलिस से करने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सुलह समझौता करा दिया था। रक्षाबंधन वाले दिन जब पति उसे मायके छोड़ कर वापस लौटा आरोपी की भाभी, उसकी भतीजी और एक रिश्तेदार ने सुनील को जमकर मारा पीटा। फिर मामले की शिकायत चौकी पुलिस से की गयी लेकिन प्रधान प्रतिनिधि ने इस मामले में सुलह के प्रयास शुरू किए। मृतक के भाई विनोद का आरोप है कि पुलिस आरोपी पक्ष के बजाय पीड़ित पक्ष को बार बार चौकी बुला कर परेशानी कर रही थी। इस सब से ऊब कर भाई ने फांसी लगा कर जान दे दी। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि अभी तक परिजनों की ओर इस प्रकार के लिखित आरोप नहीं लगाए गए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सोलह कलाओं से परिपूर्ण लीलाधर श्रीकृष्ण के अवतरण का उत्सव है

जनमाष्टमी

भगवान विष्णु के दसावतारों में परमावतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण जो चंचल, चपल, नटखट और सोलहकलाओं से संपन्न है, और गोपियो के संग रास रचाने के साथ ही अपने महान कूटनीति के लिए भी जाने जाते हैं मधुसूदन श्रीकृष्ण। एक तरफ अपनी मोहिनी सूरत और रूप सुंदरता के कारण मोहन कहे जाते हैं तो दूसरी ओर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने विराटरूप का दर्शन करा के अपने अतुल्य बल को दर्शाते हैं भगवान कृष्ण। उसी श्री कृष्ण के धरतीलोक पर आने का महोत्सव है कृष्णजन्माष्टमी। श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव या ये कहें कि उनके जन्म की वर्षगाँठ है जन्माष्टमी, जिसे पूरे भारतवर्ष के साथ विदेशों में भी बहुत भव्यतापूर्वक मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी हमें दुख मे सुख की अनुभूति कराने वाला पर्व है, यह बात श्रीकृष्ण के जन्म के समय चरितार्थ होती है, कि एक तरफ कंश के आततायी और क्रूरता से पीड़ित देवकी ने जब कृष्ण को जन्म दिया तो उन्हे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई । और जब कृष्ण का गोकुल मे प्रवेश हुआ तो पूरी धरती नंदलाल के जन्मोत्सव के आनंद मे खोकर और लीलाधर की लीला में फँसकर, कंस के अत्याचारों और क्रूरता को भूल गए और उन्हें परमानंद की अनुभूति हुई । ये पर्व मानव जीवन को दुख और उदासी दूर कर उमंग, उत्साह और परम सुख और आनंद का अनुभव और दर्शन कराता है ।

अज्ञान के घोर अंधकार मे दिव्य प्रकाश

नंदलाल के जन्म का समय ही अति उत्तम और अद्भुत है, यह भाद्रपद मास ही भद्र अर्थात कल्याण करनें वाला है, कृष्णपक्ष तो कृष्ण से ही संबन्धित है , अष्टमी तिथि पक्षके बीचोबीच संधि -स्थलपर पड़ती है। रात्रि योगीजनों को प्रिय है। निसीथ यतियोका संध्याकाल और रात्री के दो भागो की संधि है। श्रीकृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है - अज्ञान के घोर अंधकार मे दिव्य प्रकाश। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म 'अजन्मा का जन्म' है। वह अजन्मा होकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, सर्वशक्तिमान होने पर भी कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। भगवान गर्भ में नहीं आये, वसुदेव और देवकी के मन में आये और अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर इन्होंने अपने माता-पिता को भी आश्चर्यचकित कर दिया। माता पिता हैं देवकी और वसुदेव; किन्तु नन्दबाबा और यशोदा द्वारा पालन किए जाते हैं। भगवान के जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं। गीता (4।9) में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है—'मेरा जन्म और कर्म दिव्य है—इस तत्त्व को जो जानता हैं, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मुझे प्राप्त होता है।' श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परम्परा की शुरूआत के विषय में जानतें हैं, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा—'हे अच्युत ! आप कृपा करके यह बतायें कि जन्माष्टमी (आपका जन्मदिन) महोत्सव मनाने की परम्परा कब शुरु हुई और इसका पुण्य क्या है ?'

तब देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ने कहा

मथुरा में रंगभूमि में मल्लयुद्ध द्वारा जब हमने (श्रीकृष्ण और बलदेवजी ने) दुष्ट कंस को उसके अनुयायियों सहित मार गिराया तब माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगीं। उस समय रंगमंच में विशाल जनसमूह उपस्थित था। मधु, वृष्णि, अन्धकादि वंश के स्त्री-पुरुषों से माता देवकीजी घिरी हुई थीं। पिता वसुदेवजी भी मुझे और बलदेवजी को आलिंगन करके रोने लगे और हृदय से लगा कर बार-बार हे पुत्र ! हे पुत्र ! कहने लगे। वे गद्गद् वाणी में अत्यन्त दुखी होकर कहने लगे—'आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा जीवित रहना सार्थक हुआ जो मैं अपने दोनों पुत्रों को सकुशल देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी मिल रहे हैं।' वसुदेव और देवकीजी को अत्यन्त हर्षित देखकर यदुवंश के सभी महानुभाव श्रीकृष्ण से कहने लगे 'भगवन् ! आपने बहुत बड़ा काम किया जो मल्लयुद्ध द्वारा इस दुष्ट कंस को यमलोक पहुंचा दिया। मधुपुरी (मथुरा) में ही क्या ! समस्त लोकों में आज महान उत्सव हो रहा है। आप कृपा करके यह बतलाएं कि किस तिथि, दिन, घड़ी, मुहुर्त में माता देवकी ने आपको जन्म दिया, उसमें हम सब आपका जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं।' समस्त जनसमुदाय की बात सुनकर वसुदेवजी के आनन्द की सीमा न रही। तब उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा - 'पुत्र ! सभी मथुरानिवासियों की प्रार्थना का मान रखते हुए उनको अपना जन्मदिन बताओ।' तब श्रीकृष्ण ने मथुरानिवासी लोगों से कहा-- भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र का संयोग था निसीथकाल में पूरा आकाश काले मेघों से आच्छादित था ,तब वर्षऋतु की अंधियारी रात में चंद्रमा ने काले मेघों का सीना चीरते हुए प्रकट हुए और माता देवकी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। आप मेरे जन्मदिन को जन्माष्टमी नाम से जानें। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृषराशि पर चन्द्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेवजी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। वह दिन संसार में जन्माष्टमी के नाम से विख्यात होगा।'

सिंहराशिगते सूर्ये गगने जलदाकुले।
मासि भाद्रपदेष्टम्यां कृष्णपक्षेर्धरात्रके।
वृषराशिस्थिते चन्द्रे नक्षत्रे रोहिणीयुते।। (उत्तरपर्व 55।14)

सबसे पहले यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ फिर बाद में सभी लोकों

में इसकी प्रसिद्धि होगी। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए।' युधिष्ठिर ने पूछा—'भगवन् ! इस व्रत का पुण्य क्या है ?' तब देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ने कहा— इस व्रत के करने से संसार में शान्ति होगी, सुख प्राप्त होगा तथा मनुष्य निरोगी रहेगा। जिस देश में यह व्रत-उत्सव किया जाता है वहां मेघ समय पर वर्षा करते हैं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि का भय नहीं रहता है। जिस घर में जन्माष्टमी के दिन सूतिकागृह बनाकर देवकी-व्रत पूजन किया जाता है, वहां अकालमृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह नहीं होता है। जो मनुष्य मेरे जन्माष्टमी महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, आरोग्य, दीर्य आयु, धन-धान्य, सुन्दर घर व सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जन्माष्टमी-व्रत व पूजन के पुण्य से मनुष्य संसार में समस्त सुख भोगकर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और विष्णुलोक में निवास करता है। भगवान श्रीकृष्ण के मुख से जन्माष्टमी व्रत की परम्परा व महत्व सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रतिवर्ष इस महोत्सव को कराया। यह व्रत सर्वमान्य और सारे पापों का नाश करने वाला हैं ,जनमाष्टमी को भगवान कृष्ण के बालरूप की पूजा करने का विधान है इसदिन बालगोपाल की मूर्ति या सालग्राम को पंचामृत से स्नान कराके सुंदर पीताम्बर वस्त्र और नानाप्रकार के बालोपयोगी अलंकारो से सुशोभित कर पंचोपचार ,दसोपचार,षोडशोपचार और यथासक्ति पूजा करनी चाहिए। जन्मोत्सव मे भगवान के बालगोपाल रूप को पालना झुलाने का अत्यधिक महत्व है ,तुलसीदल भगवान को अतिप्रिय है। इस व्रत मे पंचामृत ,धनिया की पंजीरी ,ऋतुफल और खीरा आदि का भोग लगाकर घंटी ,शंख, करताल आदि की ध्वनी पर भगवान की आरती उतारने का विधान हैं। व्रत करनें वालो को ये ध्यान मे रखना चाहिए की वे आडंबरो और पाखंडो से दूर रहे क्योकि भगवान भाव और भक्ति के भूखें होते है दिखावे के नहीं। भगवान नारायण के अष्टम अवतार के जन्मोत्सव की इस दिव्य और मांगलिक तिथि पर हमें इस पर्व को भक्तिभावपूर्वक मनानें के साथ लीलाधर श्रीकृष्ण के जीवन से सीख लेनी चाहिए की कैसें भगवान ने समय-समय पर धर्म की स्थापना के लिए अनेक कलाओं का प्रदर्शन किया और साम ,दाम ,दंड ,भेद आदि का उपयोग करके धर्म को विजयी बनाया ,आज घोर कलियुग में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र को ही सर्वाधिक उचित बताया गया हैं, जो हमारी जीवन नैया को पार लगा सकता हैं।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के मामले में सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सुनवाई के अंतिम दिन वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यन्त दवे और अन्य की दलीलें सुनीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता या उत्तरदाता की ओर से पेश कोई वकील लिखित दलील दाखिल करना चाहता है, तो वह अगले तीन दिनों में ऐसा कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि लिखित दलील दो पेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

प्रतीक तिवारी

राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अशोक पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत कानून के तहत कार्रवाई कर दी जाए तो तो वह तब तक अयोग्य ही रहेगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत उसे आरोपों से बरी न कर दे। याचिका में मांग की गई कि कोर्ट को चुनाव आयोग को वायनाड सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश देने चाहिए। मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में चार अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद सात अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी थी। मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। इस मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। दो साल की सजा मिलने के चलते जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर बहाल हो गई है।

जी-20: रात्रिभोज के न्योते में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' का इस्तेमाल

कांग्रेस ने कहा, यह संघीय ढांचे पर हमला, राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम 9 सितंबर को होना है

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस ने जी-20 सम्मेलन से पहले केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि जी-20 समिट के लिए नौ सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए हैं, उनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' को बदला गया है। रमेश का दावा है कि इसमें इंडिया शब्द को हटाया गया है और 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' का इस्तेमाल किया गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट में संविधान का जिक्र करते हुए कहा, 'इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत, जो कि इंडिया था, वह राज्यों का संघ है। लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला किया जा रहा है।'

राघव चड्ढा बोले, इंडिया की जगह भारत लिखकर बीजेपी ने एक नई बहस छेड़ दी

राघव चड्ढा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, जी 20 सम्मेलन के इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसीडेंट ऑफ भारत लिखकर बीजेपी ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है। देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, यह 135 करोड़ भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है जिसे वह अपनी इच्छानुसार बदल सके।

सोशल मीडिया पर जी-20 निमंत्रण की तस्वीर वायरल

इस बीच सोशल मीडिया पर जी-20 के निमंत्रण से जुड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें अशोक स्तंभ के नीचे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। निमंत्रण जी-20 सम्मेलन के पहले दिन के रात्रि भोज यानी नौ सितंबर के लिए है। हालांकि, इस तस्वीर की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

सदियों में इंडिया से बनी देश की ब्रांड वैल्यू: शशि थरूर

इस पूरे विवाद पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो इंडिया को भारत बुलाने पर कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है। यह देश के दो नामों में से एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि इंडिया नाम को पूरी तरह से हटा दे, जिसकी सदियों में बनी एक ब्रांड वैल्यू है। हमें दोनों ही नामों का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। एक नाम जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है।

इंडिया नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, 21 अक्टूबर को सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नाम को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों से जबाव मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट में गिरीश भारद्वाज ने गुरुवार (3 अगस्त) को याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदल दिया जाए। इससे पहले चिराग पासवान भी गठबंधन के नाम को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आप देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पूरी तरह गलत है।

इंडिया और भारत नाम विवाद पर किसने-क्या कहा...

- **दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल** ने कहा, इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायन्स ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे और क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे।
- **कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी** ने कहा, पीएम मोदी ने 'मेक इन इंडिया' जैसे नाम दिए थे। स्किल इंडिया, खेलो इंडिया...वे (भाजपा) 'इंडिया' शब्द से डरते हैं, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है 'इंडिया, दैट इज भारत'...यह नाम (इंडिया) कैसे हटाया जा सकता है?
- **कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया** ने कहा, हमारे संविधान में साफ लिखा है कि ये 'कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया' है। इंडिया शब्द से पूरी दुनिया पहचानती है। मुझे नहीं लगता कि इसे बदलने की आवश्यकता है।
- **पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी** ने सवाल किया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदला जा रहा। हम देश को भारत कहते हैं, इसमें नया क्या है? अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं... कुछ भी नया करने को नहीं है। दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है।
- **तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन** ने कहा, अब बीजेपी 'इंडिया' को 'भारत' में बदलना चाहती है...बीजेपी ने बदलाव का वादा किया है लेकिन हमें 9 सालों के बाद केवल नाम बदला हुआ मिला है।
- **केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर** ने कहा, उन्हें हर चीज से समस्या है और मुझे नहीं है। मैं 'भारतवासी' हूं, मेरे देश का नाम 'भारत' था और हमेशा 'भारत' ही रहेगा। अगर कांग्रेस को इससे दिक्कत है तो उन्हें इसका इलाज खुद ढूंढना चाहिए।
- **बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग** ने कहा, भारत कहने या लिखने में दिक्कत क्यों है? आप शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र को प्राचीन काल से ही भारत कहा जाता रहा है और इसका उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है। वे बिना वजह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
- **पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग** ने लिखा, अब से टीम इंडिया नहीं टीम भारत कहिए। मैं जय शाह से अपील करता हूं वर्ल्डकप में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में भारत नाम लिखा जाए।
- **बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन** ने लिखा, भारत माता की जय।

दरअसल, राहुल गांधी ने आर्टिकल 1 में लिखा एक वाक्य ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ है। इसी आधार पर उन्होंने एक देश एक चुनाव के विचार का भी खंडन किया। उन्होंने लिखा, एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशकः अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा ए0वी0बी0 रेप्रोग्राफिक्स, ए-59, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ताल कटोरा, लखनऊ से मुद्रित तथा अय्यूब कॉम्प्लेक्स, 82/68, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ पिन-226004, उ0प्र0 से प्रकाशित। संपादकः अरुण कुमार त्रिपाठी, (नेशनल हेडः कमलेश फाइटर) आर.एन.आई. पंजीयन संख्या : UPHIN/2009/30003, फोन नं.: 0522-4330955 मोबाइल नं. 8933805555, (नोटः सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ स्थित न्यायालय होगा।)